



# जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत

[ ‘जीवन और काव्य’ पर एक समीक्षात्मक प्रंथ ]

लक्ष्मीनारायण सुधांशु, एम॰ ए०

युगांतर साहित्य-मंदिर,  
भागलपुर सिटी

प्रकाशक—  
युगांतर साहित्य-मंदिर,  
भागलपुर सिटी (बिहार)

प्रथम आवृत्ति, जून १९४२ ₹५०  
मूल्य सजिल्ड ५/-

मुद्रक—  
मानिक लाल  
युनाइटेड प्रेस लिमिटेड  
भागलपुर

## भूमिका

हिंदी में जीवन की प्रतिष्ठा पर काव्य के विश्लेषक समीक्षा-ग्रंथों का अपेक्षाकृत अभाव देखकर मुझे 'जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत' पुस्तक लिखने की भावना हुई। धीरे-धीरे मेरी भावना ने विचार का रूप धारण किया। भारतीय विश्वविद्यालयों के उच्च वर्गों में भी हिंदी भाषा तथा साहित्य को अधिकाधिक स्थान प्राप्त होने तथा वैज्ञानिक पद्धति से उसके शिक्षण की प्रवृत्ति ने स्वभावतः मेरे विचार को कृतसंकल्प बना दिया और आज मैं इस पुस्तक को लेकर अपने पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो सका।

इस पुस्तक में काव्य या साहित्य के मूल सिद्धांतों का संबंध मानव जीवन के उन शाश्वत तत्त्वों के साथ बताया गया है जिनका परिचय हमें थोड़ा-बहुत रहता है, किंतु उनकी विशेषता का विश्लेषण साधारणतः हम नहीं कर पाते। जीवन-प्रकृति के इन तत्त्वों के विश्लेषण तथा काव्य या साहित्य के मौलिक सिद्धांतों के साथ उनका विनियोग, यथासंभव, साहित्य-शास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान, वैद्यक-शास्त्र, वेदांत-दर्शन आदि के अनुसार किया गया है। वेद, उपनिषद्, वेदांत आदि आर्ष ग्रंथ तथा संस्कृत, हिंदी और अङ्गरेजी के अन्यान्य ग्रंथों से, जीवन और काव्य की समीक्षा करने में मुझे अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है।

इस पुस्तक में कुल दस अध्याय रखे गए हैं। अंतिम अध्याय—अंतर्दर्शन—में मैंने हिंदी के नौ आयुनिक कवियों की, बहुत ही संक्षेप में, प्रवृत्ति-मूलक समीक्षाएँ की हैं। कवियों के निर्वाचन तथा क्रम में किसी निश्चित मानदंड का उपयोग नहीं किया गया है। वे प्रायः प्रवृत्ति-विशेष तथा अवस्था-क्रम के अनुसार ही रखे गए हैं। समीक्षित कवियों में से अनेक के साथ मेरा व्यक्तिगत परिचय है और उनके जीवन को निकट से देखने के अनेक अवसर भी मुझे प्राप्त हुए हैं, किंतु उनके परिचय तथा सद्वावना ने मुझे उनके साथ पक्षपात करने की कभी प्रेरणा न दी। जीवन की सारी दुर्बलताओं के साथ रहकर भी मैंने, यथासंभव, अपनी प्रकृति के विवेक को निष्कंप तथा निर्दिष्ट रखने की चेष्टा की है। जिन कवियों ने अपने काव्य-कौशल से मेरी सहानुभूति को अर्जित किया है उन्हें वह पूर्वाग्रह-रहित होकर प्राप्त हुई है।

इस पुस्तक की रचना तथा प्रकाशन में आशातीत विलंब हुआ। इसका उत्तरदायित्व विशेषतः मेरे जीवन की साहित्यिक गति-विधि के राजनैतिक दिशा-भेद पर है। अपनी साहित्य-साधना तथा प्रवृत्तियों की रक्षा केलिए मुझे अनुकूल बातावरण नहीं मिल रहा था और परिणामतः दो-चार महीने के काम केलिए मुझे दो-चार वर्षों की लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। छपाई का क्रम अपने ढंग से चल रहा था, परंतु उस क्रम के अनुसार मैं लेखन-कार्य केलिए समय नहीं बचा पाता था। ज्यों-ज्यों अध्याय पूरे होते गए त्यों-त्यों वे प्रेस भेजे जाते रहे। अपनी विश्रब्ध प्रवृत्ति के कारण, कुछ सार-पत्रक बना लेने के बाद, सारी पुस्तक की रचना श्रुति-लेखन-पद्धति पर ही हुई

[ ८ ]

और इस कार्य में मेरे प्रिय गोविंदप्रसाद भा, साहित्यालंकार ने सर्वाधिक परिश्रम किया । मेरी सुविधा तथा जीवन-क्रम के अनुसार, समय-समय पर, इस कार्य-भार को सर्व-सुहृद् अनूप, साहित्यरत्न; बुद्धिनाथ भा 'कैरब', एम० एल० ४०; तथा रूपलाल, साहित्यरत्न ने बहुत उत्साह के साथ सँभाला । इतना होने पर भी, यदि मेरे प्रिय बंधु सत्येंद्रनारायण, बी० ए० ने अपने स्नेह तथा साहित्य-प्रेस का परिचय देकर, इस पुस्तक के प्रकाशन में सुविधाएँ न दी होतीं तो, शायद, मैं अबतक इसकी रचना भी न कर पाता । अन्यथा कार्य-संलग्न रहने तथा असुविधा के कारण मैं स्वयं इसका प्रूफ नहीं देख सका और इस भार को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रिय तपेशचंद्र त्रिवेदी ने ढोया । मैं अपने इन बंधुओं का अनुग्रह मानता हूँ ।

बस, इतना ही ।

पूर्णियाँ,

१ जून '४२

—सुधांशु



# विषयानुक्रमणिका

## पहला अध्याय

भाव-विन्यास और जीवन

[मूल भाव—सुख और दुख, ३—सुख-दुख का प्रभाव और शरीर-मनोविज्ञान, ४—आलंबन के विचार से राग-द्वेष के रूपांतरित भाव, ५—जीवन की गत्यात्मक स्थिति और विपरीत भावों का समवाय, ६—लोक-सामान्य भाव-भूमि और जीवन की मर्यादा, ८—भाव और कर्म का समन्वय, १०—अंतर्बोध प्रकृति और जीवन, १०—भाव और कर्म-विधान में पूर्व और पश्चिम का भेद, ११—इच्छा तथा कर्म का संबंध और जीवन की प्रकृति, १२—भाव, मानसिक शक्ति और जीवन, १५—भावों का वर्गीकरण, उनकी प्रक्रिया और जीवन पर प्रभाव, १६—भाव की प्रकृति और जीवन में उसका परिणाम, १६]

## दूसरा अध्याय

जीवन का वातावरण और काव्य-प्रकृति

[जीवन और संस्कार, २१—सामाजिक जीवन और मनोविकार, २२—जीवन के विकास के लिए जीवन का आधार, २५—समाज और जीवन, २६—हर्ष तथा विषाद पर काल का प्रभाव, २७—काव्य में प्रभाव के रूप में जीवन, २७—प्रभाव और उसका विश्लेषणात्मक कारण २८—कल्पना, बुद्धि और सौदर्य की

[ ]

काव्यगत योजना, ३०—जीवन में भाव-विधान और काव्य-प्रकृति, ३२—लोक-जीवन और काव्य-प्रकृति, ३३—जीवन की परंपरा और काव्य, ३४—जीवन का विकास और आतीत-वर्तमान का संबंध, ३५—जीवन और काव्य, ३६]

### तीसरा अध्याय

आत्मभाव और काव्य-विधान

[आत्मभाव—एक अन्विति, ३७—आत्मभाव की अभिव्यक्ति-कला, ३८—दाल्सटाय का कला-संबंधी मत, ३८—समीक्षा, ४०—कलाकारों के भेद और काव्य में निरूपित भाव, ४१—आत्मभाव की प्रतिष्ठा और जीवन की स्थिति, ४३—आत्मभाव की अनेकता, ४४—शक्ति और ज्ञान, ४४—प्राचीन और नवीन छंद, ४६—वैज्ञानिक सभ्यता और काव्य-विधान का नवीन तेत्र, ४७—काव्य और जीवन का तारतम्य, ४८—विश्वासवृत्ति और काव्य-विधान, ५१—जीवन के सत्य में काव्य का समन्वय, ५२—कवि का जीवन और काव्य-मर्यादा, ५३—आत्मभाव और काल की संक्रांति, ५५—भाव और विचार में काल का व्यवधान, ५७—आत्मभाव और चरित्र के प्रतिबंध, ५७—संक्रांति-काल और काव्य, ५८—काव्य-विधान में मूलतत्त्व का विश्लेषण, ५९—कलाकार की शैली और उसका आत्मभाव, ६०]

### चौथा अध्याय

मन का ओज और काव्य का रस

[मन का ओज और रसाखादन, ६३—ओज का संचय और आनंद-प्राप्ति, ६४—संचित ओज और उसका उपयोग, ६६—

[ ३ ]

आनंद और विषाद तथा ओज, ६७—ओज और स्थिति-परिवर्तन, ६८—मन की स्थिति और व्यवधान, ६९—मन का संस्कार और रस की प्रतीति, ७०—काव्य और वैचित्र्य या चमत्कार, ७१—रस की प्रतीति में मनोरंजन—एक साधन, उद्देश्य नहीं, ७२—रस-पद्धति मानसिक व्यायाम है, ७२—आनंद और विषाद का रासायनिक मिश्रण, ७३—काव्य में संकेत या उपेक्षा से ओज की रक्षा, ७५]

### पाँचवाँ अध्याय

काव्य का अर्थबोध

[ अर्थ-बोध और चेतना, ७८—अर्थ-बोध और ज्ञान-शक्ति, ७९—अंतर्शक्ति और अभिव्यक्ति, ८०—अर्थ-बोध और तर्क, ८१—बुद्धिवाद और वैचित्र्य, ८१—अर्थ-बोध और हेत्वाभास, ८२—वाणी पर मनोविकार का प्रभाव और अर्थ-बोध, ८४—राग से पद की शक्तिवृद्धि, ८५—असीम तथा ससीम सत्य और अर्थ-बोध, ८६ ]

### छठा अध्याय

काव्य की प्रेरणा-ज्ञाति

[ जीवन और उसका रहस्य, ८८—जीवन का ध्येय—आत्म-विस्तार, ८०—विषयानंद और ब्रह्मानंद, ८१—भोग-लालसा और उसके स्थूल तथा सूक्ष्म रूप, ८३—स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, ८४—स्वार्थ—जीवन का प्रेरक और समाजशास्त्र, ८६—सेंद्रिय जीवन की आवश्यकताएँ—प्रसव तथा पोषण, ८७—अनेकता में एकता—काव्यदृष्टि, ८८—प्रत्येक भाव के दो पक्ष, ८८—जीवन

की व्यापकता और बाह्य प्रभाव से अपनी रक्षा, ६६—साधारण जीवन और नियम-विधान, १००—आत्म-विस्तार का प्रयत्न, १०१—अंतःकरण और उसके कार्य, १०२—अंतःकरण और चित्त, १०३—मूल प्रकृति और इंद्रियों, १०४—व्यक्तिगत जीवन और प्रच्छन्न भाव, १०६—कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भाव, १०७—भावाधिक्य में वाणी और क्रिया का योग, १०८—भावों की प्रतिक्रिया और उसका परिणाम, १०९—प्रत्यक्ष जीवन और काव्य में भावों की परिणति, ११०—स्वपीड़न और परपीड़न, १११—जीवन में काम-प्रेरणा की प्रधानता, ११२—काम-वासना और उसका प्रयत्न-विस्तार, १२५—काममय जीवन, ११६—यौन-संबंध और जीवन-ध्येय, ११८—शुक्रब्रह्म और ज्ञानब्रह्म, ११६—काम-चेष्टा पर धर्म का नियंत्रण १२१—काव्य-प्रेरणा के भिन्न-भिन्न रूप, १२३—अवस्था-भेद से काव्य-प्रेरणा, १२४—वासना और उसके उपयोग, १२५—उत्तेजित वासना और उसके दमन का परिणाम, १२६—काव्य-प्रेरणा के मूल में वासना, १२७—प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों के मत से काव्य-प्रेरणा, १२७—काव्य-प्रेरणा का प्रधान कारण—आत्मसुख, १२८—स्वांतः सुखाय और जन-हिताय, १२९—दोनों का मूल वस्तुतः एक ही है, १३०]

### सातवाँ अध्याय ।

लय और छंद

[लय और छंद का संबंध, १३१—छंद का स्वरूप, १३२—नया और पुराना छंद, १३३—लय का स्वरूप और जातीय संस्कृति, १३४—लय की प्रकृति, १३४—ध्वनि और उसकी

विशेषता, १३५—अंतःकरण और पंच तन्मात्राएँ, १३६—छंद का विधान, १३६—काव्य और छंद का संबंध, १३८—काव्यत्व की प्रतिष्ठा, १३८—लय की उत्पत्ति और उसके कारण, १३९—लय का आरोप—भाषा पर, १३९—लय और संगीत, १४१—पद और लय, १४१—लय और छंद-विधान, १४३—वर्णिक छंद का लय-विन्यास, १४५—लय का विवेचन, १४७—मात्रिक छंद का लय-विन्यास, १४७—मुक्त छंद का श्रीगणेश, १५१—छंद-विधान में क्रांति की सापेक्षता, १५२—छंद-विधान में धार्मिकता, १५२—मुक्त छंद और लय, १५४—मुक्त छंद का विवेचन, १५५—कृत्रिमता और परंपरा, १५६—मुक्त छंद का विधान, १५७—मुक्त छंद की लयात्मक प्रवृत्ति, १५८—पंत का विचार, १५९—पाठक और श्रोता के बीच स्वर का व्यवधान, १६०—छंद-विधान में संवेदनावाद, १६०—उसकी विशेषता, १६१—संवेदनावाद की अर्थयात्रा, १६३—संवेदनावाद का प्रभाव, १६४—भविष्यद्वाद १६५—भविष्यद्वाद का आधार और कारण, १६५—भविष्यद्वाद की प्रकृति और उसका एक उदाहरण, १६७—दूसरा उदाहरण, १६८—समीक्षा, १६९—अंत्यानुप्रास, १७०—उसकी प्रकृति और महस्व, १७०—वर्णिक और मात्रिक छंद तथा अंत्यानुप्रास, १७१—उपसंहार, १७२]

### आठवाँ अध्याय

#### ग्रामगीत का मर्म

[ग्रामगीत का उद्भव और उसकी प्रकृति, १७४—ग्रामगीत का तात्पर्य, १७५—ग्रामगीत की स्त्रैण प्रकृति और जातीयता, १७६—ग्रामगीत से कलागीत की उद्भावना, १७६—ग्रामगीत

में पत्र-विवेक, १७८—प्रामगीत का अबुद्धिवाद, १७९—प्रामगीत में प्रेम-दशा, १८०—प्रेम-दशा के अंतर्गत दूत-काव्य का विकास, १८१—प्रेम-संभार में काल-दीर्घत्व की कामना, १८२—सुख-दुख की अवधि में मानव-प्रयत्न, १८३—प्रामगीत में पच्ची का बरानुसंधान, १८४—कन्यादान—पितृत्व का ऋण, १८५—प्रामगीत में करुणा का प्रसार, १८६—प्रामगीत में वियोग-मिलन, १८७—प्रेम में बुद्धि का पराभव, १८८—प्रेम-दशा की तर्कहीनता, १८९—प्रामगीत में काल-बोध, १९०—प्रामगीत में खीत्व और पुरुषत्व, १९१—उपर्युक्त का विवेचन, २०५—उपसंहार, २०६]

### नवाँ अध्याय

#### कलागीत की प्रवृत्तियाँ

[प्रामगीत की प्रकृति, २०७—प्रामगीत और कलागीत का भेद, २०८—कलागीत की दो पद्धतियाँ, २०९—संवेदनात्मक शैली का स्वरूप, २१०—अनुभूति और कल्पना, २११—कलावाद की वास्तिवकता, २१२—कलागीत का आरंभ—युद्ध और प्रेम, २१३—पुरुष-खी का मनोवैज्ञानिक भेद, २१४—पुरुष की आखेट-प्रियता, २१५—युद्ध के हेतु—यौवन का प्रदर्शन, २१६—प्रेम-तत्त्व का दिशा-भेद, २१७—ज्ञानयोग की रहस्यवादिता, २१८—सगुणवाद का प्रेमयोग, २१९—प्रेमयोग का दिशा-भेद, २२०—परकीया नायिका का महत्त्व, २२१—महत्त्व का कारण, २२२—रसिकता—जीवन का लक्ष्य, २२३—रीतिकाल की विशेषता, २२४—नायिका-भेद का विश्लेषण, २२५—पुरुष की मनोवृत्ति में खी का रूप, २२६—वियोग का भार, २२७—प्रकृति-वर्णन का रूप, २२८—भावों की क्रिया-प्रतिक्रिया, २२९—सूक्ष्म के गोचर विधान का कारण, २२१—

[ ≡ ]

शरीर-विज्ञान और रस-पद्धति, २२८—चित्त और शरीर तथा संचारी भाव, २२९—मनोविकार और अश्रु, २३०—मुक्तक रचना और रस-प्रसंग, २३१—रस-प्रहण की मनोवृत्ति, २३२—मानव-प्रकृति और राष्ट्र-निर्माण, २३३—राष्ट्रीयता की उद्घावना, २३४—राष्ट्रीय कविता की मनोवृत्ति, २३५—छायावाद का आविर्भाव, २३६—छायावाद की प्रकृति, २३७—छायावाद, रहस्यवाद और हृदयवाद, २३८—छायावाद में कल्पना-तत्त्व, २३९—रहस्यवाद में प्रणय-भावना, २३१—कलागीत की रुढ़िप्रियता, २३१—तत्त्वचितक और कवि, २४०—गीत-शैली का प्रचलन, २४१—गीत-शैली की रचना-प्रकृति, २४२—कलागीत की प्रगतिशीलता, २४२—प्रगति का स्वरूप २४३—आदर्श की प्रतिष्ठा, २४३—प्रगतिवाद में आदर्श का ह्रास, २४४—काव्य का लक्ष्य—मानवता, २४४—प्रगतिवाद और जन-धारणा की सतर्कता, २४५—जीवन के साधनों की काव्यगत प्रतिष्ठा, २४६—राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा का महत्त्व, २४६—स्थायी तथा सामयिक साहित्य का उपयोग, २४७]

### दसवाँ अध्याय

अंतर्दर्शन

[प्रस्तावना, २४८—मैथिलीशरण गुप्त, २५१—माखनलाल चतुर्वेदी ‘भारतीय आत्मा’ २५६—जयशंकर ‘प्रसाद’, २६७—सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, २७५—जनादेनप्रसाद भा ‘द्विज’, २८५—सुमित्रानंदन पंत, २९२—रामधारी सिंह ‘दिनकर’, ३०२—महादेवी नर्मी, ३१०—हरिवंश राय ‘बच्चन’, ३२२]



# जीवन और काव्य



## पहला अध्याय

### भाव-विन्यास और जीवन

भाव का शान्तिक अर्थ है स्थिति या वृत्ति । सांख्यशास्त्र ने बौद्धिक भाव और शारीरिक भाव के नाम से इसके दो भेद कर दिए हैं । यहां सांख्यशास्त्र की मीमांसा करना मूल भाव— हमारा प्रयोजन नहीं है । मनुष्य के हृदय में बाह्य छुख और दुख जगत् की संवेदनाओं के कारण विकार उठते हैं जो मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हैं । मूल भाव वस्तुतः दो ही हैं—सुख और दुख । इन्हीं दोनों को दूसरे शब्दों में राग और द्वेष कहते हैं । जीवन में राग और द्वेष के भाव किसी-न-किसी रूप में सदा वर्तमान रहते हैं । ये दोनों भाव कई भावनाओं के संरलेषण के परिणाम हैं जो वृत्ति-चक्र की तरह हृदय में बराबर उठते रहते हैं । इन दोनों भावों के अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक ‘उदासीनता’ नाम से एक तीसरी स्थिति भी बताते हैं । वात्सायन ने ‘मोह’ से संभवतः इसी तीसरी स्थिति का बोध कराया है जो स्पष्ट नहीं है । उदासीनता वृत्ति का उल्लेख हमारे

१. छुखाद रागः—वैत्तेविक सूत्र ६, २, १०  
दुखाद द्वेषः—उपर्युक्त का उपस्कार

प्राचीन साहित्य में १ पाया जाता है, किंतु सुख और दुख की प्रधानता के सामने उदासीनता का महत्त्व गौण हो जाता है। जब तक मनोविकार सक्रिय नहीं रहता तब तक उसकी चेष्टा भी नहीं दिखाई जा सकती। फलतः उदासीनता मूल विकार नहीं हो सकती।

डॉ० भगवानदास ने सुख और दुख को आत्मा की मात्रा माना है २। इसको इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि इन दोनों का संबंध आत्मा के रूप की अपेक्षा परिणाम छल-दुख का प्रभाव और शरीर-मनोविकार से ज्यादा संबद्ध है और इस प्रकार आत्मा के जीवन और उसके प्रदर्शन से शान, इच्छा और किया इन तीनों वृत्तियों के साथ वे संबंध रखते हैं। न्याय के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में जानता है, इच्छा करता है और प्रयत्न करता है ३। आत्मा की वृद्धि, विस्तार और आधिक्य का भाव सुख है और उसका हास, संकोच और अल्पता दुख है ४। अल्पता में सुख नहीं है, महत्ता ही प्रसन्नता है। पूर्ण महत्ता वही है जब कि आत्मा किसी अन्य को देखती, सुनती, जानती नहीं। सर्वत्र अपनी ही महत्ता पाती

१. सुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः ।

उत्पद्यते ग्रयः पक्षाः मिश्रादासीन शश्रवः—महाभारत ।

वन के सुनि भी अपने-अपने कर्मों को करते हुए वहाँ मिश्र, शश्र और उदासीन तीन पक्षों को बिना बनाए नहीं रह सकते ।

२. Dr. Bhagwan Das: Science of the Emotions.

३. 'जीवो जानाति, इच्छति, यतते'

४. सुख और दुख के शाब्दिक अर्थ से भी यही प्रमाणित होता है।

स=सुख+द=दुख+आकाश—व्यासि; दु=दुर्लभ+स=व्यासि ।

है । मनुष्य अपनी चेतना की वैयक्तिक स्थिति में या तो सुख का अनुभव करता है या दुख का । शरीर-मनोविज्ञान के सूदम विश्लेषण से यह पता चलता है कि सुख की स्थिति में मनुष्य का शरीर विकसित तथा भारी रहता है । सुख की सत्ता से शरीर में वृद्धि तथा स्फूर्ति होती है । दुख के अनुभव से इसके विपरीत शरीर में लघुत्व, संकोच आदि होता है । जीवन की साधारण घटनाओं में भी शरीर पर सुख या दुख की सत्ता का प्रभाव देखा जा सकता है ।

सुख और दुख से उद्भूत राग तथा द्वेष, आश्रय और आलंबन के विचार से मनोविकारों के कई रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं । ये रूपांतर केवल स्वरूप में ही नहीं, आलंबन के विचार से राग-द्वेष के बल्कि अलग-अलग मूल के रूप में भी होते हैं । रूपांतरित भाव राग और द्वेष जीवन के ये दो मुख्य तत्त्व हैं । इन्हीं दो तत्त्वों से हृदय के अगणित भावों की उत्पत्ति होती है ।

१. नालये सुखमस्ति भूमैव सुखं.....यत्र नान्यत पश्यति

नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमः—छांदोग्य, ७. २३. १

2. By careful examination it appears that the pleasure is the feeling of an expansion, an increase of the self. The very essence of pleasure is an enhancement of the self, its growth, its intensification, its superiority over others or over its own past states, its moreness in short—moreness than before and as compared with others.

Dr. Bhagwan Das : Science of the Emotions, (1924) Ch. X.  
pp. 340—41.

Tilchener : An Outline of Psychology (1902) Ch. V. p. 112  
Stoddart ; The Mind and its Disorders. (1921) p. 58.

साहित्य-शास्त्र की रस-पद्धति भी इन दो ही तत्त्वों पर अब-लंबित है। जीवन के व्यवहार-केन्द्र में व्यक्ति की विशिष्टता, समानता तथा हीनता के अनुसार इन तत्त्वों में भी मौलिक परिवर्तन हो जाते हैं। विशिष्ट के प्रति राग, सम्मान हो जाता है, समान के प्रति प्रीति तथा हीन के प्रति करुणा। द्वेष-तत्त्व भी इसी प्रकार विशिष्ट के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध तथा हीन के प्रति दर्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आलंबन की भिन्नता के कारण राग और द्वेष भावों के उपर्युक्त रूपांतरों की बात विचित्र होने पर भी सत्य है। जीवन के विविध केन्द्रों में भावों के परिवर्तन देखे जाते हैं। आलंबन की भिन्नता के अतिरिक्त उसके या उसकी समानता के प्रति भी आश्रय के हृदय में पूर्वापर विरोध-संपन्न भाव भी जन्म लेते हैं।

मनुष्य का जीवन सदा एक सरल रेखा की गति से नहीं जाता। उस पर जगत् के नाना व्यापारों के घात-प्रतिघात लगा करते हैं। सरल रेखा-गति से चलने पर जीवन जीवन की गत्यात्मक स्थिति और विशिष्टता भी प्रमाणित नहीं होती और इस विपरीत भावों का प्रकार का जीवन, भावों के उत्थान-पतन के समवाय अभाव के कारण, काव्य के उपयोग का नहीं रहता। जब तक जीवन पर जगत् के ऐसे व्यापारों की प्रभाव नहीं पड़ता जो कभी तो उसे धक्का देकर आगे बढ़ा दे और कभी खींच कर पीछे लौटा ले, तब तक जीवन की दृढ़ता प्रकट नहीं होती। मनुष्य को जब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं मिलती तब वह वहीं बैठ जाता है। अधिकांश जीवन परिस्थितियों के आघात को सह नहीं सकते, विचलित होकर वे इधर-उधर हट जाते हैं।

परिस्थितियों की विषमता में जो दृढ़ता रखता वह जगत् के ध्यान को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। काव्य का उत्कर्ष इसी प्रकार के जीवन के वर्णन से होता है। सरल जीवन में सरल भावों का समवाय दिखाना काव्य का प्रधान उद्देश्य नहीं हो सकता। जिस काव्य में विपरीत भावों के वृत्ति-चक्र का वर्णन किया जाता है वही काव्य यथार्थ में सच्चा काव्य है। विपरीत भावों के वृत्ति-चक्र का तात्पर्य भावों के उन मूलों से है जो एक दूसरे से केवल भिन्न ही नहीं, बल्कि ठीक अनुलोम-प्रतिलोम की तरह होते हैं। क्रोध के साथ शांति, धृणा के साथ श्रद्धा, ईर्ष्या के साथ भक्ति दिखलाना ही काव्य के विपरीत वृत्ति-समूह का समवाय है। एक ही प्रकार के अनुकूल भाव-समूह आनन्द, उत्साह, अध्यवसाय आदि से जीवन में विविधता तथा शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो पाता। मनुष्य के अंतर्जगत् में गर्व और नव्रता, पाप और पुण्य, कर्कशता और कोमलता, निष्ठुरता और करुणा का समावेश कर उनके मूल की स्वाभाविकता दिखलाने से जीवन के रहस्य का बहुत-कुछ उद्घाटन हो जाता है। जीवन के मूल रहस्य का ऐसा स्पष्टीकरण काव्य की मर्यादा बढ़ाने में समर्थ होता है। भावों-के ऐसे अंतर्द्वा से जीवन में शक्ति और सजीवता आती है। कभी-कभी एक ही स्थिति में, एक ही आश्रय में भावों का ऐसा विपरीत-मूलक अंतर्विरोध उठता है जो प्रत्यक्ष में अस्वाभाविक मालूम होता है, किंतु भावुक कवि इस अंतर्विरोध के मूल को आलंबन के अनुबंध-ज्ञान से ऐसा स्पष्ट कर देता है कि वह उतना ही सजीव और स्वाभाविक मालूम पड़ने लगता है। संकल्प के साथ कर्त्तव्य का युद्ध दिखलाना दार्शनिक कवि का

काम है। घृणा भाव के मूल के निकट ही प्रेम-तत्त्व को दिखलाना काव्य की विशिष्टता है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि जीवन में सर्वत्र ही विपरीत वृत्ति-समूह का समवाय ही दिखाया जाय। भावों के स्वाभाविक परिवर्तन और गति-क्रम को दिखाना कला का सच्चा उद्देश्य है, पर जीवन को कुछ दूर तक सरल रेखा की गति से चलाने का भी विशेष प्रयोजन है। जब तक जीवन सरल रेखा पर कुछ दूर तक भी गतिशील नहीं होता तब तक उसमें जगत् के व्यापारों के घात-प्रतिघात से प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया निवृत्ति नहीं है, क्योंकि यह हृदय की इच्छित वृत्ति नहीं। निवृत्ति में इच्छा का योग है, किन्तु प्रतिक्रिया तो उसी स्थिति में उत्पन्न होती है जब हृदय को उस की न्यूनतम आशंका हो। शकुंतला के जीवन में पति-प्रेम की ऐकांतिक भावना से जो एक सरल गति आई थी वह दुष्यंत द्वारा अपमानित होने पर बक्क हो गई। जीवन की ऐसी ही स्थिति में मनुष्य के हृदय में भावों का समुद्र उमड़ता है, पर उसको संयत रख कर उसके सौंदर्य से जगत् को प्रभावित करना सच्चा कलाकार ही जानता है।

स्थिति की अनुरूपता तथा चारित्रिक विशेषता के उपलक्ष्य पर, जीवन में भावों का विन्यास दिखाना काव्य का उद्देश्य है।

लोक-सामान्य  
भाव-भूमि और  
जीवन की मर्यादा

जीवन की लोक-सामान्य भाव-भूमि पर काव्य के वर्णन में व्यक्तित्व की मर्यादा प्रायः नहीं रखी जाती। इसका कारण यह है कि हृदय में भावों के जो भिन्न-भिन्न वृत्ति-चक्र हैं वे सब समस्त मानव-सृष्टि में न्यूनाधिक रूप से एक ही प्रकार के

उपकरणों से निर्मित हैं। यदि दुख दुख है; सुख सुख है तो इनमें रंक और राजा का भेद मिट जाता है। किसी प्रियजन का वियोग यदि वस्तुतः संवेदनीय वियोग है तो संसार का समस्त वैभव भी हृदय की उस वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता। जहाँ जीवन के उच्चतर तत्त्वों का विशेषण किया जाता है वहाँ मानवता एक सामान्य रूप में सिमिट जाती है। उसकी सारी विविधताएँ मिट जाती हैं। रघुवंश की इंद्रुमति के देहांत पर अज का विलाप एक 'सामान्य' पुरुष का विलाप है, किसी नृपति का नहीं। कुमारसंभव में मदन-दहन के उपरांत; रति का विलाप, एक सामान्य स्त्री का विलाप है। भावों की सत्ता में व्यक्तित्व की विशेषताएँ छूट जाती हैं। राजा-रंक अपने सुख-दुख से हँसते-रोते हैं। इन भावों में उनके प्रति केवल मात्रा का भेद रहता है। इस प्रकार के वर्णन में कवि का उद्देश्य मुख्यतः वर्णन द्वारा मूल भावनाओं का विन्यास ही दिखाना होता है। वैयक्तिक विशेषता एक उपलद्ध मात्र रहती है और वर्णन उसका प्रधान विषय हो जाता है। यही कारण है कि अज के शब्दों में कोई भी विधुर, पुरुष, स्थिति की अनुरूपता पर, विलाप कर सकता है और कोई भी सद्यः वैधव्य-प्रसित नारी रति के स्वर में रो सकती है। यदि भावों के ये विन्यास सामान्य जीवन को स्पर्श करते हुए नहीं चलते तो वे काव्य न होकर कुछ और ही होते।

जीवन में कर्मों की एकरूपता देखकर भावों की एकरसता का विचार किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक प्रकार के कर्म करते हुए भी, कर्त्ताओं में भावों की विभिन्नता रहती है, किंतु एक ही स्थिति में रहकर और एक ही प्रकार के

कर्म करने में प्रेरक भावों की एकरूपता निश्चित की जा सकती है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक भी मनुष्य की समान धारणाओं की सत्यता

भाव और कर्म का स्वीकृत करते हैं। जिस वस्तु से हमें घृणा है समन्वय उस वस्तु से यदि एक दूसरा व्यक्ति भी घृणा

करता है तो वह हमारे इस भाव के अनुकूल ही भाव रखता है। जो हमारे द्वितीय में अनुकर्पा प्रकट करता है वह निश्चय ही हमारी उस स्थिति को सत्य 'समझता है। जो हमारी ही तरह किसी काव्य या चित्र को प्रसंद करता है और ठीक हमारे ही शब्दों में उसकी प्रशंसा करता है तो वह वस्तुतः हमारे विचार को समुचित समझता है। जो एक व्यंग्य पर हमारे साथ, हमारी ही तरह, हँसता है वह हमारी हँसी की उपयुक्तता को अस्वीकृत नहीं कर सकता ।

बाध्य जगत् और अंतर्जगत् के लारतम्य में एक सौंदर्य है। यह सत्य है कि जो बाध्य है वह अंतः नहीं, किंतु दोनों एक दूसरे

अंतर्बाह्य प्रकृति से प्रभावित होते रहते हैं। मनुष्य के बाध्य जगत् के सौंदर्य का उपभोग तो न्यूनाधिक मात्रा

में प्रायः सभी कर सकते हैं, परंतु अंतर्प्रकृति के सौंदर्य का उपभोग करने की ज्ञमता कवि ही रखता है। जीवन में बाहर-बाहर जो सौंदर्य देखा जाता है वह भीतर के माधुर्य को पुष्ट करता है और भीतर के सौंदर्य से बाहर उद्दीप्त होता है। जो कवि रूप-सौंदर्य के साथ ही गुण-सौंदर्य का चित्रण कर सकता है वही सच्चा कवि है। काव्य की यह प्रणाली नाटक में अच्छी तरह

१. Adam Smith : Theory of the Moral Sentiments, Pt. I.  
See. I.

देखी जा सकती है। मनुष्य की अंतर्प्रकृति में भावों का स्वाभाविक व्यतिक्रम दिखाना बड़े महत्त्व की बात है। धृणा के बदले प्रेम और प्रतिहिंसा के बदले कृतज्ञता दिखाने से मानव-हृदय की सूक्ष्मता का पता चलता है। इसी परिवर्तन को दिखाना जीवन का स्पष्टीकरण है।

केवल तर्क और बुद्धि-वृत्ति के अनुसार मनुष्य एक भी काम नहीं करता। उसके प्रत्येक कर्म के मूल में किसी-न-किसी प्रकार

भाव और कर्म-विधान में पूर्व और पश्चिम का भेद का भाव छिपा मिलेगा। भाव स्वतः प्रत्यक्ष नहीं रहता, वह कर्म के रूप में ही अपने आश्रय में प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य की कोई भी क्रिया

तबतक कर्म नहीं मानी जा सकती जबतक उसमें उसकी इच्छा का योग न पाया जाय। जीवन में जबतक भाव से कर्म का विधान नहीं होता तबतक वह उपयोगी तो क्या, अपने अस्तित्व को भी प्रमाणित कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता। रस-पद्धति का अनुभाव भी शारीरिक विकार होने के कारण, कर्म की श्रेणी में ही आता है। मनुष्य के प्रत्येक प्रेरक भाव के विश्लेषण से जीवन की सारी क्रियाओं का रहस्य प्रकट हो जाता है। कर्म पर धर्म का आवरण रखकर एक भिन्न प्रकार से ही इसकी समीक्षा की जा सकती है। पूर्व और पश्चिम के धर्म की धारणाएँ भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार धर्म की धारणाएँ भिन्न रहने से उनका प्रभाव काव्य पर भी पड़ता है। पूर्वीय विचार से कर्म के परिणाम की समीक्षा उसके प्रेरक भाव से होती है और पश्चिमी विचार के अनुसार उसका परिणाम ही मुख्य है। सङ्घाव की प्रेरणा से किए हुए किसी कर्म का परिणाम

यदि अनिष्टकारक भी हुआ तो कर्ता दोपी नहीं माना जा सकता, किन्तु इसके विपरीत पश्चिमी मत से कुभाव-प्रेरित कर्म का परिणाम यदि संयोगवश हितकर प्रभागित हुआ तो कर्ता पुण्य का अधिकारी हो सकता है। कुछ दर्शनिक इससे भिन्न विचार भी रखते हैं ।

धर्म की धारणाओं के इस अंतर ने जीवन की प्रकृति में थोड़ी विभिन्नता ला दी है। जहाँ शुद्ध मानवता की दृष्टि से जीवन का प्रश्न है वहाँ जगत् के काव्य में पक्ष-इच्छा तथा कर्म का लुपता है, पर जहाँ देश की सम्भवता तथा संबंध और जीवन की प्रकृति संस्कृति से प्रेरित भावों के आवरण से जीवन

आच्छादित हो गया है वहाँ यही समझना चाहिए कि उस सम्भवता तथा संस्कृति से पृथक् जीवन कुछ नहीं है। इस विषय में अब कुछ पश्चिमी लेखक भी अन्यथा विचार रखने लगे हैं। डा० जान्सन के चरित्र-लेखक बौसबेल ने उनके कथन को इस प्रकार अंकित किया है कि यदि किसी भिन्नारी के शिर को फोड़ने के विचार से हम उस पर पैसे फेंकें और वह उन पैसों को चुनकर अपना पेट पाले तो उसके लिए हमारा यह काम अच्छा ही हुआ, किन्तु हमारे इस कार्य के अभिप्राय को कोई अच्छा नहीं कह सकता। कर्म के केवल परिणाम पर ही अभिप्राय निर्भर नहीं करता। कर्म में जबतक बुद्धिवृत्ति के अनुसार अनुव्यवसाय, प्रत्यभिमान,

(1) There is no real reason to doubt that the good or evil in the motive of an action is exactly measured by the good or evil in its consequence. Green: Prolegomena to Ethics, P. 320.

प्रत्ययानुपश्यता आदि न हो तबतक उस कर्म का सारा श्रेय कर्त्ता को नहीं दिया जा सकता। आवेग, उद्घोष, व्योम आदि से जिन कर्मों की प्रेरणा होती हो और कर्म का विधान हो जाने पर चित्त की साधारण स्थिति में कर्ता यदि अपने पूर्व निश्चय में परिवर्त्तन करना न चाहे तो उस कर्म के साथ उसके जीवन का संबंध देखा जा सकता है। करुणा के आवेग में यदि किसी व्यक्ति ने एक भिखारी को, अपनी जेब में पैसा न पाकर, सृपया ही दे दिया और आवेग के शांत होने पर पैसे के बदले रूपया देने का उसे पश्चात्ताप हुआ तो वह सम्पूर्ण कर्म का अधिकारी नहीं माना जा सकता। इच्छा-पूर्वक कर्म का नियोजन ही जीवन है। भाव और विचार से जीवन की सत्ता पृथक् नहीं है। उच्च भाव तथा विचार से प्रेरित होकर कर्म करनेवाले अध्यवसायी व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जीवन की उच्चता या नीचता का विचार भावों की किया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कुछ लोग केवल भावों की सत्ता पर विश्वास न कर, जीवन की महत्ता का संबंध प्रतिभा के साथ भी लगा सकते हैं। जीवन की महत्ता में प्रतिभा के योग को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, किंतु जीवन के निर्माण में प्रतिभा कोई आवश्यक प्रतिबंध नहीं। जिसके हृदय में भावों की सचाई है, उच्चता है वह प्रतिभा-सम्पन्न न होने पर भी अपने जीवन की एक मर्यादा रखता है। यदि किसी के हृदय में किसी की वस्तु चुरा लेने का भाव है तो राज-नियम की दृष्टि में वह अभी अपराधी नहीं हो सकता, परन्तु धर्म-नियम तो उसे वहीं पकड़ लेता है। यह भाव यदि उसके हृदय में जम गया है तो उसके जीवन

के अन्य सारे कर्म उसी से प्रेरित होंगे। सुविधा मिलने पर वह चोरी करना नहीं छोड़ सकता। न्यायशास्त्र का जिस कथन का उल्लेख मैंने किया है उसके अनुसार भी मनुष्य पहले जानता, तब इच्छा करता और उसके उपरांत प्रयत्नशील होता है। चोर भी लोभनीय पदार्थ को प्राप्त कर सुखी बनने का ज्ञान रखता है और तब सुख को प्राप्त करने की इच्छा से उस पदार्थ को चुराने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत उच्च कर्मों के विधान में भी इच्छा का कर्म के साथ ऐसा ही संबंध रहता है। जीवन को महत् बनानेवाला जो प्रयत्न-सौदैर्य संसार में देखा जाता है उसका मूल यही भाव है। इच्छा को छोड़ कर जीवन की सत्ता अन्यत्र नहीं है। इच्छा ही मनुष्य है १। जिसके हृदय में, जिस वस्तु के लिए, जिस ढंग की इच्छा होती है, वह वैसा ही होता है २। इच्छा जाग्रत होने पर चित्त में जो स्पंदन होता होता है, वही जीव है। अतः चित्त ही जीव है, ऐसा भी कहा जा सकता है। चित्त का स्पंदन जिस प्रकृति का होता है उसी प्रकृति का वह जीवन बनता है। इस भूत से पूर्व और पश्चिम, दोनों के दार्शनिक विचारक प्रायः एकमत हैं ३।

काव्य में जिन घटनाओं के उल्लेख से मानसिक विलंब उपस्थित होने की आशंका रहती है उनकी बांछनीयता या आवांछनीयता

१. कामसय एवार्य पुरुषः, वृहदारण्यक, ४, ४, ९,

२. Lay: The child's unconscious mind, P. 15.

३. जीवशक्ति परिस्पंदः पुराणं चित्तं स एव च—योगाधारिष्ठ ३-१४।  
Every thing is in sensation—Hegel: Philosophy of Mind P. 21,  
(English Translation by Wallace)

पर ध्यान रख कर ही काव्यकार उनका उल्लेख करता है। जो काव्यकार पाठक के हृदय में विष्वव को जगा कर उससे

**भाव, मानसिक  
शक्ति और जीवन** अपना कामभर चला लेने के बाद उसे शांत रखने की ज़मता रखता है वही सज्जा कलाकार है। बहुत से भाव ऐसे होते हैं जो एक बार जग जाने

पर बहुत देर तक संयत नहीं हो पाते। जो व्यक्ति निर्बल मानसिक शक्तिवाले होते हैं वे कभी-कभी भावों का रूप मानसिक न रखकर शारीरिक क्रिया द्वारा अभिव्यञ्जित करते हैं। किसी बच्चे के मुख से किसी घटना का वर्णन सुननें से इसकी सत्यता प्रगट हो जाती है। उसके वर्णन में शब्दों से अधिक अंगों की क्रिया रहती है। किसी शब्द के रूप पर मन-ही-मन विचार करते समय भी हमारी जिहा, मूर्धा, तालु आदि उच्चारण में योग देने वाले अंग तदनुकूल संदिग्ध हो जाते हैं । जिस ढंग के जो भाव हैं वे मन में स्थान पाते ही मनुष्य को अपने अनुरूप क्रिया-तत्पर करने के लिए वाध्य करने लगते हैं। हँसी की बात सुनकर लोग हँसना रोक नहीं सकते। शोक की बातें सुनकर दुखी बनना छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकृति का जो भाव होता है वह तत्काल ही अपने प्रभाव को व्यञ्जित करता है। हँसने लायक बातों को सुनकर मनुष्य तत्काल ही हँसता है। दो-चार धंटे के बाद हँसने के लिए अपने को संयत नहीं रख सकता। यह दूसरी बात है कि उसी बात की याद कर बार-बार हँसी आवे, किंतु पहली बार उस बात का प्रभाव पड़ता ही है। इसी प्रकार किसी-न-किसी प्रकार का भाव अपनी सत्ता को प्रकट किए

बिना नहीं रह सकता। बहुत से धूर्त-चालबाज आदमी ऐसे होते हैं जो अपने मन के भावों को छिपाने में कुछ सफल भी हो जाते हैं, पर उन्हें इसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे प्रयत्न के फल-स्वरूप प्रभाव की बाह्य अभिव्यक्ति तो दबी-सी रहती है, किंतु अंतर्जंगत में उसके संस्कार को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह उसी दशा में संभव है जब उस व्यक्ति के हृदय की वृत्तियाँ कुठित हो गई हों। गंभीर व्यक्ति में यह 'देखा' जाता है कि छोटे-छोटे भाव उनकी मानसिक स्थिति को बदलने में समर्थ नहीं होते, यह इसलिये कि उनकी गंभीरता उन छोटे-छोटे भावों से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी और व्यापक होती है।

भावों की सूक्ष्मता पर विचार कर उनके दो मुख्य वर्गीकरण किए जा सकते हैं—एक शक्त और दूसरा अशक्त। क्रोध, उत्साह, भावों का वर्गी— साहस आदि शक्त भाव हैं और करणा, दया, करण, उनकी क्रमा, सहानुभूति आदि अशक्त। सहृदय मनुष्य प्रकिण्या और में भावों की सभी वृत्तियाँ रहती हैं। सहृदयता जीवन पर प्रभाव का अर्थ केवल सहानुभूति-पूर्ण हृदय नहीं, बल्कि हृदय की जितनी वृत्तियाँ हैं सब की स्थिति है। क्रोध के अवसर पर क्रोध करना, करण के अवसर पर सहानुभूति दिखाना सभी सहृदयता है। उच्च और शक्तिशाली जीवन का निर्माण केवल शक्त भावों से ही नहीं होता, यथार्थ में जीवन की सार्थकता के लिए अशक्त भावों का अबलंबन भी आवश्यक है। वास्तविक जीवन में मनुष्य के मुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति रहती है। बड़े-बड़े दयावीर भी दूसरे के अगाध दुःख को देखकर अपना मुख इसलिए फेर लेते हैं कि उस दुःख को दूर करना

उनकी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार मुख फेरने में दुःखी के दुःख को दूर करने की अनिच्छा नहीं भलकती प्रत्युत् निराशा भलकती है। दुःख की अपरिसीमता को देखकर तदनुरूप अपनी असमर्थता जान कर उनके हृदय में जो दुःख होता है वह उन्हें उस दृश्य के सम्मुख से हट जाने को बाध्य करता है। यह भी दुःख की निवृत्ति है। इसी प्रकार परोपकार करना भी अपने दुःख को दूर करना ही है। परोपकार की वृत्ति में अपने दुःख को दूर करने की भावना दिखलाना अयुक्तिसंगत मालूम पड़ता है। किंतु यह सत्य है कि दूसरे के दुःख को देखकर जब मनुष्य के हृदय में चोट पहुँचती है तब अपनी उस चोट के दुःख को ही दूर करने के लिए वह उसका उपकार करता है। यदि दूसरे के दुःख को देखकर मनुष्य के हृदय में किसी प्रकार का दुःखानुभव न हो तो वह परोपकार में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। अतः यह निश्चित है कि अपने हृदय के दुःख को दूर करने के लिए ही मनुष्य परोपकार, दया, कृपा, क्षमा करता है। जगत् के सारे व्यापारों के लिए हृदय की संवेदना ही प्रधान है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। जब कभी मनुष्य किसी बात में दूसरे की धारणा के अनुसार अपने को अशक्त समझ कर दुःखी होता है तब अपनी इस अशक्तता को बढ़े जोर के साथ पूरा करने की चेष्टा करता है। संसार में ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं जो अपनी स्थिति के अनुसार काम न कर दूसरे की धारणा को भ्रम प्रभासित करने के लिए कभी-कभी दुस्साहस के साथ काम कर बैठते हैं ।

1. The aggressive acts of ( the physical or intellectual ) bully are really an overcompensation for his unconscious feeling of inferiority. Lay: The Child's Unconscious Mind p. 157.

यह भाव वस्तुतः दूसरों की हृषि में अपने को कम समझना ही है। अपने को कम समझने तथा उच्च समझने की भ्रमपूर्ण भावनाओं से मनुष्य के जीवन की दिशाएँ प्रायः बदल जाया करती हैं। मनुष्य के हृदय में अपने संबंध में जो सबैदना उठती है उसी के अनुसार उसके जीवन का निर्माण होने लगता है। मानव हृदय भावों का संतुलन रखने की चेष्टा करता है। जहाँ तंत्र गति का अवरोध है वहाँ भावों की क्रिया उसे तोड़ने का प्रयत्न करती है। अपनी कृतकृत्यता पर मनुष्य को गर्व होता है। वस्तुतः यह गर्व अपनी कृतकृत्यता से उत्पन्न होने के लिए होता है। अपने दुःख के सजीव कारण पर मनुष्य क्रोध करता है। यह क्रोध दुःख को दूर कर हृदय को समान स्थिति में रखने के प्रयत्न-स्वरूप होता है। अपनी प्रशंसा सुनकर मनुष्य को प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता अपनी आनन्दभयी स्थिति की कल्पना से होती है जिसके आधार पर प्रशंसा के बे शब्द व्यक्त हुए हैं। मनुष्य जैसा है, जिस स्थिति में है, वैसा कहना प्रसन्नता को उत्तेजित नहीं करता। जितना वह है उतने से अधिक पर ही उसकी प्रसन्नता निर्भर करती है। अतः जो वह नहीं है वही बनने या समझे जाने की भावना से वह प्रसन्न होता है। इसी प्रकार प्रसन्नता पाने की चाट पाकर वह खुशमद-पसंद और उसे न पाकर वह आत्म-प्रशंसी बन जाता है। कल्पना के आनंद से उसि न मिलने पर वह अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार की बाध्यता प्रसन्नता की चाट पाकर ही होती है। यही अहंकार की पहली सीढ़ी है। जो मनुष्य आत्मशलाघी होता है उसकी तर्क-नुद्धि मारी जाती है। अपने ऊपर कहे गए

व्यंगों को समझने की शक्ति उसे नहीं रहती। जीवन की दिशा को बदलने में भाव बड़ा महत्व रखता है। कर्म के अभाव में जीवन का कुछ भाव नहीं माना जा सकता।

भाव की साधारण स्थिति तथा उसके आवेग में स्पष्ट अंतर है। भाव को बार-बार उत्तेजित कर यदि उसके अनुसार कार्य न कर चित्त को शांत कर दिया जाय तो कुछ दिनों भाव की प्रकृति के बाद वह निष्क्रिय हो जाता है। भाव को और जीवन में प्रेरणा का अनुसारी-कार्य नहीं करने से हृदय उसका परिणाम अपमानित होकर उस वृत्ति को ही छोड़ देता है।

दुःखी के दुःख को देख कर हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और उस करुणा की प्रेरणा के अनुसार दुःखी की सहायता कर हृदय को संतुष्ट न किया जाय तो एक दिन ऐसा समय भी आयगा जब किसी के दुःख को देख कर हृदय में करुणा उत्पन्न ही न होगी। उस भाव के लिए हृदय जड़ हो जायगा। जिस दृश्य को देखकर भावावेग उत्पन्न होता है, सदा उसके अनुसार कार्य करने से मनुष्य की प्रकृति में वह एक स्थान प्राप्त कर लेता है। रास्ते चलते हुए पगले को देख कर स्वभावतः लड़के उसे तंग किया करते हैं। इससे पागल कुटता है, भुंकलाता है और कुद्ध होता है। बार-बार ऐसा किए जाने पर जब कभी वह अपने आसपास लड़कों के भुंड को देखता है तब वह क्रोध के भावावेग में आ जाता है। मानव-प्रकृति की यह विशेषता है कि वह भाव-स्थिति या उसके आवेग के कारण ही किसी कार्य की ओर प्रेरित नहीं होती बल्कि अचेतन रूप में भी स्वभावगत कार्य की ओर प्रेरित हो जाती है। उपनिषदों में मनुष्य के भीतर पाँच कोषों की अवस्थिति बताई

गई है, वे हैं—आनन्दमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष तथा आनन्दमय कोष। इन कोषों में आनन्दमय कोष चारों पुरुषार्थों से अलग रखा गया है। संसार में जितनी वस्तुएँ हैं उनसे मूर्ख और विद्वान् दोनों ही अपने-अपने ढंग से आनन्द और विषाद ग्रहण करते हैं। उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आनन्द और विषाद के कौन-कौन से तत्त्व हैं। ध्यावसायिक उपयोगितावाद के इस युग में विषादोत्पादक वस्तुओं से भी कुछ-न-कुछ आनन्द का रस निचोड़ा जा सकता है, किंतु नैतिक उपयोगितावाद इन वस्तुओं से विशेष प्रयोजन नहीं रखता। यह इसलिये नहीं कि विषाद अनैतिक होता है। जीवन के साथ विषाद का संबंध उतना ही गहरा है जितना आनन्द का। काव्य का आनन्द जीवन का स्वार्थ है, परंतु यह स्वार्थ परमार्थ की परिधि के भीतर रहता आया है। स्थायी आनन्द-वृत्ति जब जगत् और जीवन के किसी आधार को पाकर जाप्रत होती है तब प्रफुल्लता होती है और विषाद-वृत्ति में भुंकलाहट। ऐसे मनोभाव अपनी मूल-वृत्तियों की स्थिति को सूचित करते हैं। मनुष्य जब जिस स्थिति में रहता है तब वह साधारणतः स्थिति की गंभीरता के कारण उसी में निमग्न रहता है। इस निमग्नता को तोड़ कर जब कभी कोई व्यक्ति उसे उस स्थिति से हटाना चाहता है तब वह फिर-फिर उसी भाव में झूंके रहने की चेष्टा करता है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक उस स्थिति में बने रहने की सारी शक्ति निःशेष नहीं हो जाती है।

---

## हृष्णराम अद्वितीय

### जीवन का वातावरण और काव्य-प्रकृति

हमारे जीवन के चारों ओर अलद्य रूप से संस्कार का एक ऐसा वातावरण फैला रहता है जिसका प्रभाव हमारे कल्पनाशील

मन पर बराबर पड़ता है। यह एक प्रकार की जीवन और आध्यात्मिक शक्ति है जिसे हम देख तो नहीं संस्कार.

सकते, किंतु उसके प्रभाव से बचने की ज्ञानता भी नहीं रखते। जब हम कभी निरपेक्ष होकर चुपचाप बैठे रहते तब हमारे मन में कितने ही प्रकार के मनोविकार उठते और विलीन होते हैं। कभी अच्छे संस्कारों का उद्भव होता है और कभी बुरे। संस्कारों का यह अस्तिव जगत् के अणु-परमाणु में है और जिसके मन में जैसे संस्कारों को ग्रहण करने की जैसी शक्ति रहती है वह वैसे ही संस्कारों को उसी तरह अपनाता है।

बाह्य जगत् में ऐसे संरक्षणों की सत्ता मानकर भी यह कहा जा सकता है कि जीवन के साथ उसका कोई प्रकट संबंध नहीं। इसी कारण ऐसे संरक्षणों का संबंध आध्यात्मिक ही माना जाता है। किसी कृष्ण के शांत तपोवन में, जहाँ सिंह के सामने मृग-शावक किलोले करते हैं, भत्त मयूर के सामने फणिधर फण फैलाते हैं वहाँ, उस कृष्ण के अहिंसक संरक्षक का ही वातावरण है। जहाँ का वातावरण दूषित रहता है वहाँ का कुप्रभाव भी निर्बल धारणा-शक्ति वाले व्यक्तिके चित्त पर पड़े बिना नहीं रहता। किसी के व्यक्तित्व की महत्ता को स्वीकृत कर नत-मस्तक होना आध्यात्मिक संस्कार का ही प्रभाव है। जीवन में संरक्षणों की जो आध्यात्मिक सत्ता दिखाई देती है वह जीवन के आवरण में रहकर काव्य में भी आती है। संरक्षणों के योग से, जीवन की तरह, काव्य की प्रकृति में भी थोड़ा-बहुत तदनुकूल परिवर्त्तन होता है।

आरंभ से ही हमारा जीवन सामाजिक अनुकरण के आधार पर अपनी लौकिक पूर्णता को प्राप्त करने का उद्योग करता है। यह

सामाजिक जीवन बात के बाल जीवन की स्थूल क्रियाओं को ही और मनोविकार ध्यान में रखकर नहीं कही जाती, प्रत्युत् जहाँ सूक्ष्म मनोविकारों का विकास होता है वहाँ भी

हम देखते हैं कि उन मनोविकारों ने अपने विकास के लिए समाज के ही किसी-न-किसी अंग का आश्रय लिया है। ज्ञान, क्रोध, उत्साह, सहानुभूति आदि मनोविकार नैसर्गिक अवश्य हैं, किन्तु इन सब की सत्ता समाज में ही प्रकट की जा सकती और समाज से ही उसका पोषण हो सकता है। ईर्ष्या-जैसे दूषित मनोविकार

का जन्म समाज की धारणा पर ही अवलंबित है। स्पद्धा तो वस्तुगत होती है और ईर्ष्या व्यक्तिगत। समाज की दृष्टि जब दो समान व्यक्तियों पर एक साथ पड़ती और दोनों के विकास में विषमता पाई जाती है तब छुट्र व्यक्ति के हृदय में समाज की इस धारणा के फल-स्वरूप दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वस्तुतः इस ईर्ष्या से उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होता। वंह समाज में अपने अभीष्ट पद का अधिकारी नहीं होता तब भी ईर्ष्या में जलकर ही वह अपने हृदय को संतुष्ट कर लेता है। सदाचार से सुख प्राप्त हो सकता है, पर सदैव नहीं। यदि सदाचार से सुख प्राप्त होने का नियम अटल रहता तो संसार में दुराचारी खोजने से भी नहीं मिलते, क्योंकि दुःख कोई नहीं चाहता। असत्यवादी असत्य बोलकर भी समाज में कम-से-कम अपने को सत्यवादी बनने का ही ढोंग रचता है। प्रत्येक असत्य का विधान सत्य के अनुकरण पर ही होता है। इसी प्रकार लोभी अपने को निर्लोभ तथा चोर अपने को ईमानदार प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। यह सदाचार की विशेषता ही है कि मनुष्य उसका अधिकारी न होने पर भी अपने को वैसा ही दिखाने का प्रयत्न करता है। यथार्थ में जो व्यक्ति गुणवान् रहते हैं वे दूसरों के दोष पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। यह इसलिए कि उनकी वृत्तियों के लिए उनके पास साधन है जिसमें वे लीन हो सकें। जिस व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं रहता वह ईर्ष्या के वशीभूत होकर दूसरे के गुण पर आक्रमण करता है। इस प्रकार की भावना में अपने जीवन के विकास की धारणा नहीं रहती। समाज में अपनी स्थिति को

दूसरों से कम देखकर मन में जलन उत्पन्न होती है। एक दूसरे दृष्टिकोण से भी इस विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। मनुष्य की वृत्तियों का संतोष, गुण को प्राप्तकर या वहाँ तक पहुँचकर ही होता है। चाहे वह उसे अपने पास मिले या दूसरे के पास। गुणहीन व्यक्ति भी दूसरे के गुण की विशेषता के सामने नत-मस्तक होता है। इससे यह प्रमाणित है कि मनुष्य की सत्प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक हैं। गुणहीन व्यक्ति को जब यह पता लगता है कि गुणी की उच्चता ने समाज की धारणा में उसका स्थान हेय बना दिया है तब उसकी बुद्धि की निर्बलता कुप्रवृत्तियों को जन्म देने लगती है। अपने घर में भोजन के अभाव से भूखे रहने पर, दूसरों को भी भूखा रखने की चेष्टा करना ईर्ष्या का लक्ष्य होता है। जहाँ गुण है वहाँ ईर्ष्या टिक नहीं सकती। जो व्यक्ति जिस गुण का अधिकारी है उसमें उस गुण की शोभा होती है और समाज के किसी भी व्यक्ति को इससे असंतोष नहीं होता। अृण के परिशोध में किसी महाजन को दिए गए रूपये के प्रति किसी के मन में वैसा अन्यथा भाव उत्पन्न नहीं हो सकता जैसा कि उसी रूपए को हम किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी विशेषता के यों ही सुफ्ट में दे दें। गुण हो या अवगुण, समाज के बातावरण से अलग रहकर कोई भी मनुष्य उसके विकास की बात कौन कहे, उसकी सत्ता को भी प्रमाणित नहीं कर सकता। आध्यात्मिक संस्कारों के योग से जीवन में जो एक सज्जीवता लक्षित होती है वह जीवन के बीच में ही रहकर संभव है, अन्यत्र नहीं।

काव्य में किसी पात्र के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से केवल उसी पात्र की सत्ता पर्याप्त नहीं समझी जा सकती। उस पात्र के

जीवन के विकास मोटे समाज का आधार लेना पड़ता है। मर्यादा के लिए जीवन पुरुषोत्तम रामचन्द्र का चरित्र-चित्रण रामायण का आधार

का परम उद्देश्य है, किंतु क्या वह सीता, लक्ष्मण, कैकेयी, भरत, शबरी, हनूमान, सुग्रीव, रावण आदि के बिना पूर्ण कहा जा सकता है! शकुंतला के आरंभिक जीवन का चित्रण उपस्थित करने के लिए कालिदास ने गौतमी, प्रियंवदा तथा अनुसूया का अस्तित्व आवश्यक समझा। जीवन का चित्रण जीवन के संसर्ग में ही हो सकता है। जहाँ जीवन को व्यक्त करने के लिए जीवन का आधार नहीं मिलता वहाँ भी हम अतीत जीवन के संस्मरणों के सहारे आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। मेघदूत के विरही यक्ष का जीवन इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। अलकापुरी में रहकर उसने जिस प्रकार का विलासपूर्ण जीवन व्यतीत किया था उसके संस्मरण ने इस निर्वासन में उसके जीवन में एक नई स्फूर्ति का मार्ग बना दिया, यह सत्य मानना पड़ेगा। इसकी कल्पना में विरहिणी यक्षिणी का म्लान मुख सदा विराजमान रहा। आषाढ़ के प्रथम मेघ को देखकर पिछले संस्कारों के वशीभूत हो उसने निर्जीव मेघ को भी जीवंत-सा मान लिया। रामगिरि के जन-शून्य वातावरण में विरही यक्ष ने एक ऐसे अवलंब को चुन लिया जिसके उपलक्ष्य से उसके सारे मनोविकार अभिव्यक्त हो सके।

मनुष्य का जीवन सदा अपूर्ण रहता आया है, किंतु वह पूर्णता पर पहुँचने की चेष्टा भी बराबर करता रहा है। जीवन का प्रत्येक क्षण अपनी पूर्णता को प्राप्त करने समाज और जीवन में ही व्यतीत होता है। यह सत्य है कि यदि

हम अपने जीवन के विकास-क्रम के मूल का पता लगावें तो हमें मालूम होगा कि अपने जीवन में हमें जो कुछ विशेषता दिखलाई पड़ रही है वह समाज की देन है । जीवन में मृत्यु को पाकर ही विकास का क्रम रुकता है, अन्यथा वह किसी-न-किसी रूप से विकास के पथ पर चलने की चेष्टा करता ही रहता है। जब जीवन का भविष्य अंधकार-पूर्ण मालूम पड़ने लगता तब जीवन अपने आलोकमय अतीत की याद कर ही अपनी सत्ता को जीवित तथा सुरक्षित रखता है। मनुष्य-जीवन जिस काल में रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा वह अपनी सत्ता जीवंत रखने की चेष्टा करेगा। जीवन में स्थिरता नहीं रहती। जब कभी आगे का मार्ग अवश्य हो जाता है तब भी वह निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ नहीं रहता। आँखें आगे रखकर वह पीछे चलने लगता है, क्योंकि जबतक जीवन में कोई गति नहीं रहेगी तबतक उसकी यह संज्ञा भी नहीं मानी जा सकती।

जीवन में हमें अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने पर हर्ष और पराजय पर विषाद होता है। विजय-पराजय जीवन में हर्ष-विषाद का एक सामान्य विषय रहता आया है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी पिछली विजय का स्मरण जीवन की

१. Prof. Baldwin : Social and Ethical Interpretation in Mental Development, P. II.

वर्तमान स्थिति को सुखद बनाता है। पराजय के संबंध में भी हमारी मानसिक चेतना एक दूसरे ही रूप में जाग्रत होती है। अपने बहुत पिछले काल के पराजय की इर्ष तथा विषाद भी, जिसका अनुसारी परिणाम हमारे वर्तमान पर काल का प्रभाव पर कोई आधात नहीं कर रहा है, याद कर हम विषरण नहीं होते, एक प्रकार से निरपेक्ष रह जाते हैं। इस निरपेक्षता का कारण, पराजय के बाद उतने काल पर हमारे जीवन की सत्ता की विजय है। अपने किसी प्रिय का उत्कट शोक भी कुछ दिनों के बाद अपनी गुहता को छोड़ देता है। काल पर विजय प्राप्त कर ही हृदय अपने भावों की प्रचंडता को शांत रखने में समर्थ होता है।

पाश्चात्य सभीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर कुछ लोग काव्य को जीवन की व्याख्या मानते आए हैं। वस्तुतः काव्य जीवन की व्याख्या हो या अनुवाद, हमें यहाँ इससे काव्य में प्रभाव के रूप में जीवन कुछ विशेष तात्पर्य नहीं। काव्य में जो जीवन चिन्तित किया जाता है वह किस रूप में, इसी पर यहाँ विचार करना है। प्राकृत जीवन की सत्ता काव्य में एक प्रभाव के रूप में प्रकट होती है। जगत् में जो जीवन है काव्य में भी वही जीवन नहीं रहता, वहिक उसका प्रभाव-मात्र रहता है। जिस जीवन में प्रभाव की जितनी द्वंद्वता रहती है काव्य में उसे वैसा ही स्थान प्राप्त होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिका 'फोटो' उसके आलोक और छाया के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसी प्रकार काव्य का जीवन भी उसकी सत्ता के प्रभाव के सिवा और कुछ नहीं। यदि काव्य में हम जीवन की सत्ता को प्रभाव

के रूप में व्यक्ति करने की बात न मानें तो व्यक्ति के अंग-प्रत्यंग शिख-नख-वर्णन से ही काव्य में जीवन का विधान मान लेना पड़ेगा। वह व्यक्ति लंबा था, उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, नाक पतली और ऊँची उठी हुई, मूँछें घनी और तीर की तरह तुकीली आदि कहने से उसके मुख या शरीर के स्वरूप का ही बोध होता है, किंतु उसके व्यक्तित्व या जीवन के लिए इतना या इसी प्रकार बहुत कहने पर भी काव्य का तात्पर्य सिद्ध नहीं होता। शारीरिक वर्णन के साथ-साथ या बाद जब हम यह कहने को बाध्य होते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सुंदर या खराब है, उदार या कृपण है, सदाचारी या दुराचारी है तब हमारे चित्त पर उसकी सत्ता का प्रभाव ही समझना चाहिए। कवि या लेखक के हृदय में किसी व्यक्ति का शरीर प्रविष्ट नहीं हो सकता और जबतक हृदय के साथ उसका संबंध न हो तबतक काव्य में उसका विधान संभव नहीं। यही कारण है कि किसी के आत्मभाव की सत्ता के प्रभाव को ही कलाकार अपने हृदय में लेता है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का योग देकर काव्य में उसका मार्मिक विधान करता है।

काव्य में प्रभाव के रूप में जीवन के विधान की बात ऊपर कही जा चुकी है। अब इस पर एक भिन्न दृष्टिकोण से विचार करना है। जीवन की किसी घटना से वास्तविक प्रभाव और उसका हो वा काल्पनिक, यदि हमें किसी को प्रभावित विश्लेषणात्मक कारण करना होता है तो प्रमाण से पुष्टकर उसका वर्णन करना पड़ता है। कोई सदाचारी या दुराचारी है, इतना कह देने से ही किसी के चित्त पर अभीष्ट प्रभाव

नहीं पड़ सकता। काव्य का अभिप्राय तो इससे तनिक भी सिद्ध नहीं होता। जीवन में प्रभाव की जो मूल क्रियाएँ हैं उन सबके विश्लेषण से ही काव्य में उसका वास्तविक विधान होता है। कोई सदाचारी है तो किन सुकर्मों से, कोई दुराचारी है तो किन पार्षों से? कलाकार ने किसी के व्यक्तित्व के संबंध में जो धारणा बना रखी है उसका प्रमाण पाठक और श्रोता को देना पड़ेगा, उसके औचित्य को सिद्ध करना होगा। पाठक को भी अपना भाव है, अपना विवेक-विचार है, अपनी धारणा-शक्ति है। दूसरे द्वारा संचित प्रभाव से ही उसके जीवन के सारे काम नहीं चल सकते। काव्य में कर्मों के उल्लिखित होने का प्रयोजन उसके उस वातावरण से है जिसके बीच में रह कर वह पला है। जीवन के बीच में रखकर जीवन को देखने से उसका कोई अंग छूटने नहीं पाता। ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, बाहर-भीतर, अगल-बगल सब दृष्टिगत हो जाते हैं । किसी तालाब में खिले हुए कमल के सौंदर्य को बताने केलिए केवल सुंदर कह देने से ही काम नहीं चलता; वरन् उस कमल के आस-पास, उसके पत्तों, भौंरों, शैवाल-जाल, जलकी हल्की लहरों आदि का बिंब-प्रहण कराना आवश्यक हो जाता है। अपने वातावरण के बीच में रहकर ही मनुष्य के जीवन की यथार्थ स्थिति का पता चलता है। मानव-समाज ही जीवन का वातावरण है। जीवन के तत्वों के विकास में समाज का बड़ा भारी श्रृण है। मनुष्य केवल अपने विषय में ही नहीं सोचता, वह दूसरों केलिए भी

१ Prof. Baldwin: Social and Ethical Interpretations in Mental Development. P. II.

सोचता है, वह दूसरों के भावों से ही लाभ उठाता है। दूसरों ने जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है उन सब के आधार पर जीवन का विकास होता है। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो प्रत्येक मनुष्य को आदिम युग से ही अपने जीवन का आरंभ करना पड़ता और अवतक बुद्धि, विज्ञान, कला के योग से जिस सभ्यता का विकास हुआ है उससे वह कोई लाभ नहीं उठा सकता। परंतु ऐसी बात नहीं है। समाज सभ्यता की जिस स्थिति पर पहुँच गया है उसके बाद से ही हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। यही कारण है कि काव्य में जीवन पर समुचित प्रकाश डालने के लिए समस्त सामाजिक वातावरण का चित्रण आवश्यक हो जाता है जिसके साथ उसका संबंध रहा है।

मनुष्य की कल्पना-शक्ति बड़ी अद्भुत है। वह सृष्टि के परम सौंदर्य में भी कल्पना का योग देकर उसे महत्तर बना डालने की

कल्पना, बुद्धि और सौंदर्य की काव्यगत योजना वेद्य करती है। कल्पना से अधिक सुंदर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। लेकिन यह बात भी सत्य है कि कल्पना को परिपुष्ट करने की बात बहुत से बुद्धिवादी समीक्षक नहीं मानते।

वे बुद्धि के सामने किसी अन्य वस्तु को विशेषता देने की उदारता भी नहीं रखते। प्रत्यक्ष जीवन का सौंदर्य काव्य में परोक्ष सौंदर्य के रूप में प्रविष्ट होता है। अतः जबतक परोक्ष को कल्पना की विशेषता न प्राप्त होगी तबतक वह प्रत्यक्ष के सामने टिक नहीं सकता। काव्य-समीक्षा में बुद्धिवाद की विजय सर्वत्र नहीं होती। प्रतिभा से जब उसकी मुठभेड़ होती है तब बुद्धि को अपने पराजय पर झानि भी नहीं होती। जीवन की जो क्रियाएँ ज्ञाये

हैं उन पर बुद्धि का आधिपत्य स्वाभाविक है। केवल बुद्धिहीनता के कारण जीवन की जो क्रियाएँ जटिल तथा अज्ञेय मालूम पड़ती हैं वे यथार्थ में वैसी नहीं होतीं। प्रतिभा के अतिरिक्त समीक्षक के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिसके द्वारा वह जीवन की क्रियाओं की जटिलता तथा अज्ञेयता को जानने में समर्थ हो सके। बुद्धि की सीमा को पार कर प्रतिभा का उदय होता है। जीवन के समस्त सौंदर्य को काव्य में प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता। जहाँ सौंदर्य की अपूर्णता है वहाँ काव्य में पूर्णता का आवरण देकर पाठकों को भुलाने की चेष्टा की जाती है, किंतु जहाँ सौंदर्य पूर्ण है वहाँ वह अपनी सारी पूर्णता को लेकर काव्य में अँट भी नहीं सकता। सारांश यह है कि प्रत्यक्ष जीवन के सौंदर्य का जो मान-दंड है उससे काव्य का काम सदा नहीं चलता। सारग्राहिता के विचार से थोड़ी देर केलिए कलाकार को भी समीक्षक बनना पड़ता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ सौंदर्य की पूर्णता है वहाँ भी काव्य में अपूर्ण सौंदर्य ही लिया जाता है और जहाँ अपूर्ण सौंदर्य है वहाँ कुछ जोड़ दिया जाता है। अतः यह कहना कुछ निश्चित नहीं है कि जीवन के किस अंग को, किस रूप में काव्य में लिया जाना चाहिए। इस बात का सब से सच्चा निर्णय कलाकार ही होता है। समीक्षक तो उसके बाद अपना निर्णय देता है। जीवन के सौंदर्य को काव्य में प्रविष्ट कराने केलिए बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि अकुशल कलाकार के हाथों सौंदर्य की मर्यादा मारी जाती है। फूल की पंखुड़ियों पर ढुलमुल ओसकणों की जो शोभा होती है वह

मोतियों से कम सुंदर नहीं, किंतु अनाङ्गी कलाकार के स्पर्श करते ही वह सारी शोभा पानी के रूप में हथेली पर जा गिरती है।

काव्य की प्रकृति की परीक्षा केलिए यह जानना आवश्यक है कि काव्य में जिन भावों का वर्णन रहता है वे काव्य में आने के

पहले, कुछ देर केलिए ही सही, कवि के हृदय जीवन में भाव-विधान और काव्य-प्रकृति के भाव रहते हैं। काव्य में भिन्न-भिन्न पात्रों की भिन्न प्रकृतियों की सूक्ष्मता दिखलाने केलिए

जिन तत्त्वों का विधान होता है वे कवि की प्रकृति के साथ किसी-न-किसी प्रकार का संबंध अवश्य रखते हैं। बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य चरितार्थ तो नहीं कर सकता, परंतु सोच सकता है। इस तरह बहुत-सी बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मनुष्य परिस्थितिवश कर तो लेता है, किंतु इसके पहले उसके हृदय में कर्म की प्रेरणा के रूप में उन भावों का स्पष्ट उदय नहीं हुआ रहता। रास्ता चलते हुए अचानक साँप को आगे देख हम उछल तो पड़ते हैं, किंतु साँप से बचने केलिए उछल कर आगे बढ़ने की बात, साँप के देखने के पहले, हमारे मन में नहीं रहती। मनुष्य का जीवन जिस रूप का है उसी रूप में वह काव्य में प्रतिबिंबित नहीं होता। काव्य में आने के पहले जीवन की बहुत-सी बातें छोड़ दी जाती हैं और ऐसी बहुत-सी बातें भी ली जाती हैं जिनका अस्तित्व केवल कल्पना-जगत् में ही पाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि काव्य में जीवन का विधान करते समय हम सामाजिक जीवन में अपनी स्थिति का भी विचार करते हैं।

ईश्वर की सृष्टि में जो कुछ है उनमें मनुष्य सर्वाधिक शक्ति-संपन्न है। शक्ति से तात्पर्य यहाँ भाव तथा लौकिक सृष्टि-विधान की प्रतिभा से है। यदि बन के किसी कोने में लोक-जीवन और एक फूल खिलता है तो उसके लिए किसी के काव्य-प्रकृति हृदय में आदर-भाव की कोई विशेष संभावना नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए उस फूल को प्रमाण के रूप में दिखलाना विशेष महत्त्व नहीं रखता। छोटे-छोटे बचे जब गलियों में, सड़कों या नदी की रेतों पर छोटे-छोटे घरोंदे बनाते हैं तब उन्हें अपनी शक्ति पर, सृष्टि करने की छोटी-सी ज्ञानता पर, गर्व होता है। वे बड़े अनुराग से घरोंदे बनाते और उनसे अपने गर्व का आनंद पाते हैं। गर्व कर्म का ऋण है। ईश्वर की सृष्टि की तरह ही काव्य में जब काव्य-कार पात्रों का निर्माण करता है तब उसे अपने इस कर्म के प्रति बड़ा अनुराग होता है। काव्यगत पात्रों के जीवन वस्तुतः लोक-जीवन के अनुरूप ही होते हैं। इसी कारण लोक-जीवन की प्रकृति काव्य की प्रकृति का स्थान लेती है।

प्रत्येक बात के लिए मनुष्य अपने विवेक से उत्पन्न विचार प्रकट नहीं करता। संस्कार या परंपरा से प्राप्त विचारों में ही जीवन की परंपरा अपनी बातें मिला देता है। सब में यह शक्ति नहीं रहती, सब को सब वस्तुओं के निरीक्षण और परीक्षण का ज्ञान और अवकाश भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से मनमें पहले से जो धारणा बनी हुई रहती है उसी के आधार पर मनुष्य अपना विचार प्रकट कर देता है। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के विचार मौलिक नहीं

होते, बल्कि परंपरा से आयी हुई धारणा में योग देने वाले होते हैं। मानव जीवन की यह विशेषता काव्य में प्रयुक्त धारणाओं की सामान्यता को प्रतिपादित करती है। परंपरा की यह रुद्धि आधुनिक जीवन को भूत जीवन से पृथक न होने देने में सहायता करती है। इसी से काव्यगत जीवन में भूत और वर्तमान का कोई विच्छेद नहीं मालूम पड़ता।

जीवन के विकास में मूल भावों का व्यंतिक्रम नहीं होता। साधारणतः प्रवृत्ति के बहुत दिनों तक एक ही दिशा में चलने को जीवन का विकास कहते हैं। प्रवाह की इसी दिशा को रोकने या बदलने से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती और अतीत है। कुछ तत्त्ववेत्ता विकास को रुद्धिग्रस्त मानते वर्तमान का संबंध हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही दिशा में एक ही तरह की शक्ति के विकसित होने से उसमें कुछ रुद्धि-प्रियता आ जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया के लिए कहीं विरोध और कहीं विद्रोह की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इस अर्थ में हमारे बहुत से कलाकार भावों के परंपरागत विकास के विद्रोही कहलाते हैं। जीवन के किसी भी केन्द्र को वे बहुत दिनों तक एकरस और एकरूप देखना पसंद नहीं करते। जिन कलाकारों में आती हुई विकास-परंपरा के विरोध करने का सपष्ट साहस नहीं होता वे अपनी विरोधमर्थी सत्ता को अपने पात्रों की ओट में प्रकट कर देते हैं। काव्य के विधान में इस बात पर सदा ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अतीत से असंबद्ध न रहे। जिस काव्य में किसी-न-किसी रूप से अतीत प्रतिध्वनित नहीं होता वह भविष्य के निर्माण में समर्थ नहीं हो सकता। वर्तमान को

अतीत ही संजीवित रखता है। अतीत से वर्तमान का विच्छेद उसी दिन संभव है जिस दिन सृष्टि में मानव जीवन की इस परंपरा का अंत हो जाय और तब स्थायी साहित्य का कोई मूल्य भी नहीं रह जाता है। यदि हम अपने वर्तमान जीवन की परंपरा के मूल सूत्र का अनुसंधान करें तो हमें न मालूम कितने लाख वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। काव्य भी अपनी वर्तमान जीवनी-शक्ति को सुदूर अतीत से ढोता आ रहा है। काव्य पर अतीत का यह प्रतिबंध उसमें गंभीरता और मर्यादा रखने में समर्थ होता है। जिस काव्य के साथ यह प्रतिबंध नहीं लगा रहता वह हल्का होकर तेजी के साथ वर्तमान को छोड़कर भविष्य में पहुँचने की चेष्टा करता है। सामान्य लोक-जीवन कलाकार की इस गति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। जो काव्य सामान्य लोक-जीवन को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकता उसका कुछ उपयोग और तात्पर्य भी समाज से नहीं रहता। किंतु इसकी भी एक सीमा है। काव्य की धारा जब बहुत दिनों तक ही दिशा में एक ही गति से चलती रहती है तब उसमें इतनी रुद्धि-प्रियता आ जाती है कि हमें उसमें केवल निर्जीविता ही मालूम पड़ती है। जीवन के तत्त्व सामान में ही मालूम पड़ता है। जीवन के सामान्य तत्त्व में भी देश, काल और जाति के अनुसार कुछ विविधताएँ आ जाती हैं। इतनी विविधताएँ रहने पर भी उस तत्त्व का मूल तो जीवन का सत्य ही रहता है, परंतु वह मूल भूमि की भिन्नता के कारण अपनी विशेषता प्रकट करता है। भारतीय काव्य में सार्वभौम जीवन का संरलेषण, कर्तव्य और धर्म; श्रीक आदर्श में स्वार्तत्त्व और सौदर्य, रोमन में

नियम और शासन; पारसी में व्यक्तित्व और माधुर्य की प्रधानता मानी जाती है।

जगत में जहाँ जीवन है वहाँ किसी-न-किसी रूप में नैतिकता को आश्रय देना ही पड़ता है। जीवन की नैतिकता का यह संबंध काव्य में भी दिखाई पड़ता है, परंतु कोई भी जीवन और काव्य के बीच अपने नैतिक आदर्श की महानता के कारण ही महत् नहीं हो जाता। जीवन की क्रियाएँ उसमें प्रधान हैं। जहाँ एक और जीवन की कमजोरियाँ रहती हैं वहाँ दूसरी और शक्तिशालीनता भी। इसी अशक्ति और शक्ति के द्वंद्व से जीवन का विधान किया जाता है। हास्य और रुदन जीवन के दो प्रधान व्यापार शक्ति तथा अशक्ति से ही संबंध रखते हैं। अपने को पूर्ण समझ कर या दूसरों को अपने से हीन जानकर बुद्धि के दर्पे से मनुष्य हँसता है। जब मनुष्य अपने को शक्तिहीन पाकर निरुपाय समझता है तब वह रोता है। हँसने और रोने के जो विविध रूपान्तर हैं उनसे जीवन की क्रियाएँ भिन्न नहीं हैं। जीवन और काव्य की एकात्मता के समय यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि विधायक कल्पना जीवन की वास्तविकता को काव्यगत सत्य के साथ मिलती है जिससे जीवन की सत्ता काव्य से भिन्न न दिखाई पड़े। काव्य की प्रकृति विधान करनेवाली जीवन की विविधता-पूर्ण पक्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

---

## तीसरा अध्याय

### आत्मभाव और काव्य-विधान

आत्मभाव या व्यक्तित्व पर सूक्ष्म विचार करने के उपरांत यह पता चलता है कि निससंदेह वह एक अन्विति है, एक अपूर्व तथा स्पष्ट विशेष है। केवल अपने गुण के द्वारा आत्मभाव—एक ही वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न किया जा सकता 'अन्विति' है। संभवतः व्यक्तित्व के गुण की इन्हीं धारणाओं को मन में रख कर रवींद्रनाथ ठाकुर ने अन्विति के तथ्य को ही कला का सच्चा सिद्धांत माना है। यदि गुण अनावश्यक रहते तो आत्मरूप ईश्वर इस अनंत गुण को जिनसे प्रकृति बनी है, नहीं धारण करते ।

१—गुणव्यक्तिरियं देवी निगुणः पुरुषः पराः ।

नाम रूपे भगवती प्रत्ययः पुरुषः पुमान्—भागवत

गुण की व्यक्ति प्रकृति है और गुण की अव्यक्ति पुरुष । नाम और रूप प्रकृति है । अनादि, अनंत, शुद्ध और सरल पुरुष परमात्मा है ।

रवि बाबू आत्मभाव की अभिव्यक्ति ही कला का मुख्य उद्देश्य समझते हैं।

**वस्तुतः सौंदर्य** एक साधन है उसका मुख्य उद्देश्य नहीं। कला का मुख्य सिद्धांत अनिवार्य (Unity) का सिद्धांत है। अपने

भोजन के तात्त्विक मूल्य को हम उसके संयोजक आत्मभाव की तत्त्वों से जान लेते हैं, किंतु उसका स्वाद तत्त्वों अभिव्यक्ति—कला की उस अनिवार्य में है जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जहाँ बहिर्जगत् के साथ हमारे हृदय के संबंध में भावाधिक्य रहता है वहाँ कला की सृष्टि होती है। जहाँ हमारा व्यक्तित्व अपने वैभव का अनुभव करता है वहाँ क्रीड़ा के रूप में कला व्यक्त हो जाती है। कला का कार्य मनुष्य के सच्चे संसार के निर्माण में है जो सत्य और सौंदर्य का जीवित रूप है।<sup>१</sup>

टॉलस्टाय ने अपनी 'कला क्या है' नामक पुस्तक में अपने पूर्ववर्ती सभी कला-संबंधी मत-मतान्तरों की समीक्षा करते हुए,

अपना मत प्रतिपादित किया है। उनके विचार टॉलस्टाय का से कला का उद्देश्य एक मनुष्य के हृदय में उठे कला-संबंधी मत हुए भावों को किया, रेखा, वर्ण, ध्वनि, शब्द के द्वारा दूसरे हृदय में अनुभव करना कराना है। टॉलस्टाय का यह मत भारतीय साहित्य की रस-पद्धति से बहुत भिन्न नहीं

—Where there is an element of the "superfluous" in our heart's relationship with the world art has its birth..... Where our personality feels its wealth it breaks out in display ..... The building of men's true world—the living world of truth and beauty—is the function of art.

—Rabindranath Tagore; Personality.

है। उन्होंने कला की परिभाषा में विधि और निषेध दोनों का वर्णन करते हुए अपनी स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रखने की चेष्टा की है। उन्होंने फिर कहा है कि कला, जैसा कि अध्यात्मवादी कहते हैं, ईश्वर या सौंदर्य के किसी रहस्य के भाव का प्रदर्शन नहीं। वह जीवन-सौंदर्य तत्त्व-वेत्ता जैसा कहते हैं, अपने संचित ओज के आधिक्य का उपभोग करानेवाली कीड़ा नहीं है। वह बाह्य चिह्नों के द्वारा मनुष्य की भावुक अभिव्यक्ति नहीं है। वह आनन्ददायक वस्तुओं की सृष्टि नहीं है और सब के उपरांत वह आनंद नहीं है, बल्कि मनुष्यों को एक ही भाव में परस्पर मिलाने का एक साधन है और व्यक्तिगत तथा मानवता की जीवन-विकास-हित-कामना की दृष्टि से अनिवार्य है ।

—To evoke in ourself a feeling one has once experienced, and having looked it in oneself, then, by means of movements, line, colours, sounds or forms expressed in words so to transmit that felling that is the activity of art.

—Tolstoy: What is art ? p. 50.

—Art is not, as the metaphysicians say, the manifestation of some mysterious Idea of Beauty, or God; it is not, as the aesthetical physiologists say, a game in which man lets off his excess of stored up energy, it is not the expression of man's emotions by external signs; it is not the productions of pleasing objects; and above all it is not pleasures but it is a means of union among men; joining them together in the same feelings, and indispensable for the life and progress towards well-being of individuals and of humanity.

—Tolstoy: What is art ? p. 50.

अध्यात्मवाद की हष्टि से यदि टॉलस्टाय के मत की समीक्षा की जाय तो उनकी सभी निषेधात्मक बातें कला के उद्देश्य के

अनुकूल मानी जा सकती हैं। अध्यात्मवाद के समीक्षा

अनुसार आत्मानुभूति ही इस जगत् की सारी क्रियाओं का लक्ष्य है। टॉलस्टाय ने अपनी परिभाषा में जो हित-कामना शब्द का उल्लेख किया है वह आत्मानुभूति के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र में स्पष्ट नहीं हो सकता। कला की यह परिभाषा इतनी अधिक अतिव्याप्ति पूर्ण है कि विधि और नियेध की सीमा के भीतर गढ़े जाने पर भी वह असीम हो गई है। हित-कामना की हष्टि से मनुष्यों के पारस्परिक मिलन को कला कहना स्पष्ट नहीं है। जीवन में ऐसी बहुत-सी घटनाएँ, ऐसी बहुत-सी परिस्थितियाँ आती हैं जब मनुष्य पारस्परिक संरक्षण के विचार से सम्मिलित हो जाते हैं, किंतु क्या इसे कोई कला का कार्य या उद्देश्य बता सकता है! कलाकार के प्रत्यक्ष अनुभव के उपरांत गौण रूप से दूसरे हृदयों में भाव की जागृति या संचारण कला का विषय हो सकता है, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव की स्थिति में भाव-संचारण करने से कला नहीं मानी जा सकती। जहाँ कलाकार को मूलभाव की उपस्थिति में औरों की तरह ही रोने और हँसने को व्याख्य होना पड़े तो वहाँ कला नहीं मानी जा सकती। टॉलस्टाय ने इस हष्टि से भी कला पर विचार किया है और उदाहरण में भेड़िया-भेड़िया कहकर चिल्लानेवाले उस लड़के का उल्लेख किया है जो भूठ-मूठ 'भेड़िया आया—भेड़िया आया' कह कर चिल्लाता था। आस-पास के लोग अपना-अपना काम-धंधा छोड़ कर उसकी रक्षा केलिए ही दौड़ पड़ते थे और सबके आने पर वह ठाठाकर हँस देता था। इस

उदाहरण पर कला के विषय को निश्चित करने केलिए तीन प्रकार से विचार करना आवश्यक मालूम पड़ता है। पहला तो वह है जब वह लड़का बिना भेड़िया को देखे हुए ही ठगने के विचार से लोगों को भेड़िया-भेड़िया चिल्लाकर बुला लेता है। दूसरा वह है जब उस लड़के के सामने वस्तुतः भेड़िया आ जाता है और तब वह भेड़िया-भेड़िया चिल्लाता है। तीसरा वह है जब वह लड़का, यदि जीवित रहा तो लोगों के सामने भेड़िया के आने पर अपने हृदय के भय के बीते हुए अनुभव का वर्णन करता है। लोग उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं। यदि सच घूँछा जाय तो यही तीसरा प्रकार कला का विषय है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के उपरांत उसी भाव को हृदयंगम कराने के विचार से उन सारी स्थितियों का वर्णन किया गया है जो दूसरे हृदयों तक पहुँच सके। इसमें सम्मिलित जीवन-रक्षा केलिये हित-कामना की कोई बात नहीं है, केवल अपने हृदय के प्रत्यक्ष और अनुभूत भाव को दूसरे हृदयों तक पहुँचा कर रस-मग्न करने के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। यदि हित-कामना के विचार से भेड़िया से बचने का उपाय बताया जाता तो वह भाव का विषय न होकर ज्ञान का विषय होता और तब कला को स्थिर रखने के लिए वहाँ स्थान नहीं मिलता।

साधारणतः कलाकारों के दो विभाग माने जा सकते हैं। पहले प्रकार के कलाकार जो बहुत कम होते हैं, वे हैं जो अपने कलाकारों के मेद समस्त आत्मभाव को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से और काव्य में पात्रों के जीवन का आधार बनाते हैं। अपने निरूपित भाव आत्मभाव की सारी विशेषताओं को इस

रूप से समर्पित कर देते हैं कि उनके पात्र अलग-अलग व्यक्तित्व रखनेवाले जीवधारी-से प्रतीत होते हैं। दूसरे ढंग के कलाकार वे होते हैं जो सृष्टि करते हैं, उनमें सामंजस्य भी रखते हैं, ब्रेम, हास, ढूप, घुणा, विपाद आदि मनोविकारों से पाठकों को संप्रदित भी करते हैं, किंतु उनके पात्रों का कोई मौलिक आधार न रहने के कारण कभी-कभी वे विचित्र जंतु की तरह ही भालूम पड़ते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के पात्रों का अपने आत्मभाव के आधार पर ही निर्माण करना एक असंगत-सी बात भालूम पड़ती है, परन्तु यह एक काव्यगत सत्य है। कलाकार के हृदय की भावना जब किसी चरित्र का निर्माण करने लगती है तब वह एक विचार के रूप में स्थिर हो जाती है। बुरा-से-बुरा भाव भी जो कवि अपने काव्य में किसी पात्र के द्वारा अभिव्यक्त करता है वह भाव की संज्ञा को छोड़कर विचार की श्रेणी में आ जाता है। भाव की उत्पत्ति की युक्तियुक्तता के लिए उतना आमह अपेक्षित नहीं होता जितना विचार के लिए। युक्ति-चमत्का के बिना विचार को कोई आधार नहीं मिल सकता। भाव ही जब चित्त में स्थायित्व पाता है तब विचार बन जाता है। भाव को स्थिर रहने के लिए कोई कारण होना चाहिए और यही कारण विचार की संगति रखता है। इसीलिए कलाकार का कोई पात्र विचार के रूप में होने के कारण अपनी स्थिति के लिए न्याय चाहता है। क्रोध एक भाव है, किंतु जब यही भाव चित्त में कुछ दिनों तक स्थिर रह जाता है तब वेर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है।

अपने पात्र को जीवन्त-सा बनाने के लिए कलाकार को अपनी सारी प्रतिभा और शक्ति का योग देना पड़ता है। दर्शक की

भाँति तमाशा देखने के लिए अपने पात्रों की ओट में खड़ा नहीं रहता। पाठकों को वह ऐसा विश्वास दिला देता है कि अपनी आत्मभाव की कृतियों से पृथक् उसका कोई अस्तिव नहीं। काव्य में किसी पागल, प्रेमी, डाकू, शराबी, अत्याचारी आदि के चित्रण के लिये यह आवश्यक नहीं कि कलाकार को भी वैसे जीवन तथा परिस्थितियों का मौलिक ज्ञान या साक्षात्कार रहा हो। इस की प्रतीति के संबंध में सत्त्वोद्रेक का जो महत्त्व है, वही भिन्न-भिन्न प्रकार के चरित्रों में अपने आत्मभाव को प्रतिष्ठित करने की बात कही जा सकती है। उन्मत्त कोधी रौद्र रस की प्रतीति नहीं करता। एक शराबी किसी शराबी पात्र का चित्रण नहीं कर सकता। यदि यह मान लिया जाय कि किसी शराबी पात्र के चित्रण करने के लिए कलाकार को भी उस जीवन के मौलिक अनुभव के लिये शराबी बनना पड़े तो साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि पाठक या श्रोता को भी रसानुभूति के लिए शराबी बनना चाहिए; किन्तु ऐसी बात इसलिए नहीं मानी जा सकती कि काव्य की रस-पद्धति इसके अनुकूल नहीं। पात्रों को सजीव बनाने के लिए जब तक कलाकार अपना जीवन, अपना आत्मभाव समर्पित नहीं करता तब तक उसके पात्र जीवित नहीं दिखाई पड़ सकते। जीवन के विना सौंदर्य की सत्ता भी अच्छी तरह प्रकट नहीं हो सकती। गोरखामी तुलसीदास ने रावण-जैसे भीषण और दुर्दात चरित्र की अवतारणा करने में यदि अपना आत्मभाव समर्पित न किया होता तो रावण के चरित्र से पाठक कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। काव्य में कलाकार अपने आत्मभाव को स्थान के अनुरूप ही रखता है। सृष्टि में

त्रिष्णा की जो व्यापक सत्ता है वही काव्य में कवि की रहती है। सृष्टि के आगु-परमागु में ब्रह्म व्याप है, परंतु वह लक्षित कहीं भी नहीं होता। काव्य के वर्ण-वर्ण में कवि का आत्मभाव परिव्याप रहता है, किंतु वह स्पष्ट कहीं भी लक्षित नहीं होता।

एक ही कलाकार जब नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखता है तब प्रत्येक विषय में हम उसके दूसरे विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक दूसरे विषय के साथ आत्मभाव की अनेकता कलाकार अपने जीवन की मूलशक्ति का दिशानिर्देश कर लेता है, किंतु इस प्रकार के दिशानिर्देश में कलाकार को अपनी शक्ति की मर्यादा पर इतना ध्यान रखना पड़ता है कि किस ओर वह कितना सफल हो सकता है। यह निश्चित नहीं है कि कोई अच्छा नाटककार अच्छा औपन्यासिक भी बन सके, यह बहुत-कुछ शक्ति की विविधता पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई वकील जो अपनी कला में पूरा प्रब्रीण माना जाता है अपनी सारी विकसित शक्तियों के साथ भी एक साधारण इजिनियर का काम नहीं कर सकता है। शक्ति स्थिर है, किंतु उसको भिन्न-भिन्न दिशाओं की गति का ज्ञान नहीं।

सच्चे कलाकारों से हम शक्ति-प्रहण करते हैं—ज्ञान प्राप्त नहीं। हमारे हृदय में शक्ति के अविकसित अंकुर छिपे रहते हैं, शक्ति और ज्ञान उन्हें विकसित कर प्रकाश में लाना सच्चे कलाकार का काम है। शक्ति का विकास होने पर हमारे जीवन का स्तर ऊँचा उठता रहता है और ज्ञान की प्राप्ति पर हम उसी समतल पर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार काव्य की

शक्ति हमें ऊँचा उठाती है और ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है। जीवन की सारी संवेदनाओं को हिलाकर शक्तियों का विकास करनेवाली काव्य-कला का स्थान उस ज्ञान-प्रथ से कहीं ऊँचा है जो हमारे मस्तिष्क में केवल संख्या-वृद्धि करता है। कवि की शक्ति जिस सीमा तक विकसित है उससे अधिक ऊपर उठना भी पाठक या श्रोता केलिए संभव है जब उसके पास शक्ति की पूँजी हो। शक्ति-साहित्य का विकास मानव-जीवन के आदिकाल से आरंभ होकर अब तक चितना हो गया है वह इतना पर्याप्त है कि उसमें जीवन की विविधताओं का चित्रण तो किया जा सकता है, पर सीमा को हम तोड़कर सहस्र ऊपर नहीं उठ सकते। जीवन में प्रतिपल संक्रान्ति होती रहती है और काव्य में इस संक्रान्ति का प्रत्येक स्पंदन अंकित होता जाता है, किंतु कलाकार को स्पंदन की इस नियमितता से संतोष नहीं होता। वह जीवन-धारा में ऐसी बाढ़ लाना चाहता है जिससे अधिकतर जीवन-सावन हो सके। यदि विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि काव्य का यह जीवन-सावन भी नियमित है। समय-समय पर नियम के बंधन को ढीला करना भी नियम-पालन के अंतर्गत ही माना जाता है। कलाकार को केवल इसी बात से हर्ष होता है कि वह मानव-जीवन को काव्य के नये क्षेत्र में देखता है। काव्य का यह क्षेत्र वास्तव में नया नहीं होता, पुराने मकान पर ही चूने की पुताई कर दी जाती है। मनुष्य का जो आत्मभाव है वह जीवन की परंपरा से सर्वथा भिन्न नहीं हुआ करता और इसीलिए काव्य में जो आत्मभाव प्रतिष्ठित किया जाता है वह परंपरा को लेकर ही चलता है। यदि वह परंपरा से अपना संबंध-विच्छेद कर ले

तो वह समाज में एक अद्भुत जंतु की तरह ही माना जायगा । काव्य के संबंध में भी यही बात ठीक कही जा सकती है । यह कहना बहुत ही भ्रमपूर्ण है कि पुराने छंदों में नवीन जीवन का उज्ज्वास व्यक्त नहीं किया जा सकता । छंद कभी पुराना नहीं होता, नवीन उज्ज्वास को भरते ही वह स्वतः नवीन हो जाता प्राचीन और है । यदि छंदों का पुराना और अनुपयुक्त हो नवीन छंद जाना संभव है तो पुरानी वर्णमाला को भी हटाकर नयी वर्णमाला का निर्माण करना उचित है । किंतु मनुष्य के उच्चारण की ध्वनियाँ इतनी निश्चित हैं कि इसका निराकरण नहीं हो सकता । एक ही प्रकार के मानव शरीर में हम भिन्न-भिन्न आत्माएँ, तरह-तरह के जीवन देखते हैं । तब क्या यह संभव नहीं है कि एक ही प्रकार के छंद में हम भिन्न-भिन्न उच्छ्वास—तरह-तरह की संवेदनाएँ देख सकें ! यदि काव्य-रचना के नये कला-विधान की अनिवार्यता प्रमाणित करने की चेष्टा की जाय तो सब से पहले इसी बात का उत्तर मिलना चाहिए कि कला के पुराने कहे जानेवाले आवरण में बंधे हुए कालिदास, भवभूति, बाणभृत, तुलसी, सूर या विहारी को हम क्या भूल सकते हैं ? क्या नयी रचनाएँ हमें पुरानी रचनाओं के पढ़ने में विराग उत्पन्न करा सकती हैं ? यदि नहीं, तो नये कला-विधान की आवश्यकता बहुत दूर तक प्रमाणित नहीं की जा सकती । आधुनिक जीवन का जो आत्मभाव है वह यदि शक्ति-संपन्न है तो काव्य के किसी भी आवरण में अपनी नवीनता अवश्य प्रतिपादित करेगा । संकांति में जीवन का एक नया उज्ज्वास अवश्य रहता है, परंतु इस नये उज्ज्वास में इतनी ज्ञमता नहीं कि वह पुराने उज्ज्वास पर

कोई आवरण डाल सके। पिछला उल्लास भी तो मानव-जीवन का उल्लास है, पिछला विपाद भी तो मानव-जीवन का ही विपाद है! जबतक मनुष्य जीवन के समान तत्त्व वर्तमान हैं तभीतक काव्य स्थिर है। यदि जीवन नया या पुराना नहीं होता तो काव्य भी नया या पुराना नहीं हो सकता।

कुछ समालोचकों का कहना है कि वैज्ञानिक सभ्यता के नये आविष्कारों से मानव-हृदय में भी नये-नये भावों का विधान होता

जा रहा है। इसीलिए नये-नये भावों को अभिव्यक्त

**वैज्ञानिक  
सभ्यता और  
काव्य-विधान  
का नयोन क्षेत्र**

करने केलिए नयी-नयी विधियाँ, नये-नये छंद निर्मित होने चाहिएँ। ऊपर से यह बात कुछ ज़ॅचती-सी मालूम होती है, किंतु मानव-हृदय पर जब हमारा ध्यान जाता है तब हम यही

समझ कर संतोष कर लेते हैं कि मानव-हृदय वही चिरंतन है, उसमें केवल अनुभव ही नया भरा गया है।

बड़े महल से गिरकर मरने के भय का अनुभव हमें पहले से ही है। पहाड़ की चोटी पर से लुढ़क कर गिरने के भय का अनुभव भी हमें पुराना ही है, किंतु पैरासूट या हवाई जहाज से गिरकर मरने के भय का अनुभव आधुनिक सभ्यता का परिणाम है।

वैज्ञानिक सभ्यता ने निससंदेह हमें जीवन में अनुभव के नये-नये क्षेत्र दिए हैं। लेकिन हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि अनुभव के क्षेत्र ही नये-नये हैं, हृदय हमारा वही है, भय भी हमारा वही है। अंतर केवल इतना ही है कि चाहे

पहाड़ की चोटी पर से गिरकर मरें या हवाई जहाज पर से। यदि भय, क्रोध, आश्र्य, हास आदि से भिन्न हृदय की किसी

स्थायी वृत्ति का आविष्कार होता तो वस्तुतः काव्य को एक ऐसा  
देव मिलता जो नया समझा जाता। भावों में जो नवीनता  
दिखलाई जाती है, यथार्थ में वह नवीनता नहीं है—आधुनिक  
जीवन की विविधता है। भाव के वृत्ति-चक्र में जब कितनी ही  
भावनाएँ आकर जम जाती हैं तभी हम उसे नवीन कहते हैं जो  
केवल विविध और जटिल हैं। काव्य में कलाकार केवल अपने  
आत्मभाव को ही प्रतिष्ठित नहीं करता, वरन् वह समस्त मानव-  
जीवन को व्यक्त करने की चेष्टा करता है। वह अपने आश्र्य, हास  
का वर्णन भी ठीक उसी तरह नहीं करता जिस तरह वह आश्र्य  
और हास किया करता है। यदि वह अपने आसपास के लोगों के  
आश्र्यर्थ या हास करने के ढंग की समानता अपने में न देखे तो  
वह स्वर्यं अद्भुत हो जायगा। यही कारण है कि कलाकार अपने  
अंतर्जगत् को अथवा अपने आत्मभाव को भी कभी-कभी सञ्चार्ह  
के साथ अपने काव्य में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। वह अपने  
अंतर्जगत् को भी बाह्यजगत् के मूल्य पर काव्य को देता है।  
कभी-कभी कलाकार अपने आत्म-भाव की प्रकृति की मर्यादा को  
दबाकर पाठक या श्रोता की प्रकृति के स्तर पर पहुँच जाता है  
और उस समय अपने काव्य को सर्वाधिक लोक-प्रिय बनाने की  
लालसा में अपनी मर्यादा भूल जाता है। बाहर की मांग को  
पूरा करने केलिए अपने अंतर के उच्छ्रास पर प्रतिवंध लगा देता  
है। काव्य में यदि यह व्यापार आरंभ से ही नहीं चला आता  
तो प्रत्येक कलाकार का अपना व्यक्तिगत काव्य होता और वह  
काव्य इतना संकीर्ण होता कि जातीय जीवन का कोई चिन्ह उसमें  
लालित नहीं होता।

काव्य में जीवन शुद्ध जीवन के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि वह काव्य में एक विचार के रूप में रखा जाता है, वस्तुतः वह एक काव्य और जीवन का तथ्य नहीं रहता, विकित तथ्य पर कलाकार का निजी विचार रहता है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि कवि संसार को देखकर जीवन का अनुमान नहीं करता वरन् जीवन के आधार पर ही संसार का अनुमान करता है। यदि उसमें उल्टफेर हो तो काव्य की आत्मा पर भी आधात पहुँचने की संभावना बनी रहती है। एक जीवन के ऊपर दूसरे जीवन का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ते ही उसमें परिवर्त्तन के लिए अबकाश मिल जाता है, किंतु प्रभाव को हम सदा इसी रूप में नहीं देख सकते। किसी प्रकार के प्रभाव से कभी तो हम प्रभावित होते हैं और कभी हमारी स्थिति शील-दृष्टा के रूप में ही बनी रहती है। संसार में जो घटनाएँ जिन रूपों में होती रहती हैं उन सब का चित्रण काव्य में उन्हीं रूपों में नहीं होता। कवि के अंतर्जगत में अविकल रूप में वे घटनाएँ स्थान नहीं पातीं। अपनी रुचि और स्थिति के अनुसार उनमें वह जोड़-तोड़ करता है। इस प्रकार वे घटनाएँ कलाकार की अपनी सृष्टि कही जाती है। कुंभकार घड़े का निर्माता कहा जाता है, किंतु यथार्थ में वह उस घड़े के निर्माण का निर्मित-कारण मात्र है। घड़े की मिट्टी, जो उसका मूल उपादान है, एक भिन्न सृष्टि की वस्तु है। कलाकार भी काव्य-सृष्टि का केवल निर्मितकारण हुआ करता है, काव्य के मूल उपादान पर उसका कोई अधिकार नहीं। संसार में नित्य जो तरह-तरह की घटनाएँ

होती रहती हैं, उन समस्त घटनाओं के उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते। यथार्थ में उनमें से कुछ उद्देश्यहीन भी होती हैं, यह सहसा नहीं कहा जा सकता। मानव-नुङ्कि की अपारंगता उनके रहस्य को नहीं समझ सकती, किंतु काव्य की समस्त घटनाओं के क्रम और उद्देश्य को हम समझ सकते हैं; क्योंकि वे मनुष्य—कवि के अंतर्जंगत् की सृष्टि हैं। यदि अंतर्जंगत् की स्थृष्टि घटनाओं के रहस्य का पता नहीं लगता तो हम उन्हें मानने को बाध्य नहीं होते और इस प्रकार के काव्य-विधान से रस-पद्धति को आश्रय प्राप्त नहीं होता। मानवीय सृष्टि भी ईश्वरीय सृष्टि का एक अंग है, इसी कारण अंगी का परोक्षभाव अंग पर पड़ता है। यदि अंग की स्वतंत्र सत्ता मानी जा सके तो अंगी से उसका कोई संबंध नहीं मानना पड़ेगा, किंतु यह विषय इतना रहस्य-पूर्ण तथा ज्ञान-सापेक्ष है कि सहज ही इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। जगत् की घटनाएँ ज्ञान-रूप होने के कारण हमारे लिए सुगम नहीं हैं, किंतु उन्हीं घटनाओं में से कुछ कट-बूँट कर जब काव्य के चेत्र में आ जाती हैं तब वे हमारे लिए ज्ञेय और सुगम हो जाती हैं। संभव है, उनमें से कुछ घटनाएँ साधारण जनता के ज्ञान-क्षेत्र से बाहर रहने के कारण भाव-क्षेत्र में स्थान न पा सकें, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे मनुष्य की ज्ञान-परिधि के सर्वथा बाहर हैं। इसका निराकरण इसी तथ्य से हो जाता है कि स्वयं कवि एक मानव है।

काव्य में हमारे जीवन का जो चित्रण किया जाता है उसमें तथ्य या कल्पना की जितनी मात्रा रहती है, उसके लिए हम विशेष चिंतित नहीं होते। हम इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि

काव्यमें वर्णित कोई घटना यदि तथ्य नहीं है तो तथ्यवाद अवश्य है। तथ्य और तथ्यवाद का अंतर सत्य और सत्य की कल्पना

विश्वास-वृत्ति और काव्य-विधान के बराबर मानना चाहिए। घटना का कोई व्यतिक्रम हमें वहीं खटकता है जहाँ हमारे हृदय में विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। हृदय

के जिन उपकरणों से विश्वास-वृत्ति का विधान होता है उन पर यदि कोई आघात पहुँचे तो हम उस वृत्ति से ही विमुख हो जाते हैं। भेड़िया, भेड़िया चिल्हाकर व्यर्थ ही लोगों को दौड़ानेवाले रूस के उस गड़ेरिये की कहानी बहुतों ने सुनी होगी। लेखक या कवि यदि विश्वास की प्रवृत्ति से प्रतिकूल होकर काव्य का विधान करे तो उसे सफलता नहीं मिल सकती। जबतक काव्य की समस्त घटनाओं को सत्य मानकर हम नहीं चलते तबतक उसकी यथार्थता का भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। यदि कोई काव्यकार हमारी विश्वास-वृत्ति को चुनौती देकर किसी घटना का वैचित्र्य दिखाना चाहे तो वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सकता। पाठक या श्रोता के विश्वास की सामान्य प्रवृत्ति पर ही वह काव्य-निर्माण में आगे बढ़ सकता। इस प्रवृत्ति की अवहेलना करनेवाली रचनाएँ काव्य में तिरस्कृत समझी जाती हैं। घटना काल में सीमित रहती है, पर उस घटना का सत्य असीम बन जाता है। महाकवि कालिदास भारतवर्ष में जिस समय पैदा हुए थे, यह उस समय की घटना है, किंतु आज भी यह सत्य है कि कालिदास किसी समय भारतवर्ष में पैदा हुए थे। सत्य के ऐसे ही उपकरणों से काव्य का विधान किया जाता है। काव्य को पढ़ते समय हमारी स्थिति विश्वास करने, न करने या संशय की नहीं

रहती। काव्य को पढ़ने या सुनने के पहले ही हम उस स्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे हमें काव्य का आनंद प्राप्त हो सके। हमारी संशयात्मक प्रवृत्ति पर आनंद की कल्पना का आवरण पड़ जाता है और हम इस भौतिक संसार में रहकर भी इसे भूलकर भाव के विश्व में संचरण करने लगते हैं। छोटे-छोटे बच्चे जब गुड़ियों के साथ खेलते हैं, उनका विवाह करते हैं, उन्हें भोजन करते हैं, तब यह समझ कर ही कि वे जीवित नहीं, गुड़ियां हैं। फिर भी उन्हें गुड़ियों के खेल में उतना ही आनंद आता है। यदि कोई बच्चा किसी गुड़िया को भोजन करते और वह गुड़िया यथार्थ में ही खाने लगे तो उसके आश्र्य का ठिकाना न रहे। आनंद तो खिसक ही जायगा, संभव है, कुछ बच्चे भय से भग न जायँ! काव्य में जैसा कुछ सत्य रहता है वैसा मानकर ही हम आगे बढ़ते हैं।

✓ हमें मान लेना पड़ता है कि कवि जो कुछ कह रहा है वह सत्य है। कभी-कभी तर्क का भाव प्रबल होने पर संदेह का

जीवन के सत्य में अवकाश मिलता है, परंतु रस प्राप्त करने का काव्य का संस्कार उसे दबा देता है। संभावना पूर्ण रूप से समन्वय न तो सत्य है और न असत्य। संयोग से ही

वह दो में से एक बनती है। इतिहासकार हमारी विश्वास-वृत्ति को चुनौती देकर आगे बढ़ा सकता है और इसी प्रकार आगे बढ़ने में उसकी सार्थकता है, पर कोई काव्यकार यदि ऐसा प्रयत्न करे तो उसे सफलता नहीं मिल सकती। मस्तिष्क की कियाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि मनुष्य पहले विश्वास करना सीखता है और तब अनुमान करना। यदि किसी

के अनुमान का कोई आधार न हो तो हमें कल्पित विश्वास की भूमि तक भी वह पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकता। साहित्यकार बाह्य जगत् को अंतर्जंगत् में लाकर ही काव्य-सृष्टि करता है। विधाता की यह विशाल सृष्टि मनुष्य के हृदय में भाव के रूप में ही सिमट कर आ सकती है। किसी पाँच फीट लंबे व्यक्ति के चित्र को पाँच इंच के चित्रपट पर देखकर भी हमें यह कभी धारणा नहीं होती कि वह चित्रित व्यक्ति पाँच इंच से बड़ा नहीं है। पाँच फीट का जो सत्य है वह पाँच इंच में सिमट कर भी वस्तुतः अपने यथार्थ रूप से छोटा नहीं होता। जगत् का सत्य भी अपने विस्तृत तत्वों के संकुचित होने पर काव्य में अपने मौलिक रूप से हटता नहीं।

आज से कुछ दिन पहले संस्कृत-साहित्य के विद्यार्थियों की यह धारणा थी, और यह धारणा आज भी किसी-न-किसी रूप में कवि का जीवन और कवि की जीवनी उसके काव्य को समझने में सहायता नहीं देती। परंतु पश्चिमी समीक्षा-सिद्धांत ने यह संभावना उपस्थित कर दी है कि कवि का जीवन उसकी रचना से पृथक् नहीं है। जिस परिस्थिति में जो रचना हुई है उससे उस पर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है। जयपुर-नरेश को अपना राज्य-कार्य भूलकर अपनी नघोड़ा प्रिया में एकांत लबलीन देखकर बिहारी ने जो दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया था उसका अर्थ-सौंदर्य क्या इस प्रसंग के परिचय से विशेष उद्घासित नहीं हो जाता? बाल्मीकि और कलिदास ने अपनी क्रूरता तथा मूर्खता के बदले अपने काव्यों को जो करुणा और विद्गंधता से आसावित किया

है उससे क्या काव्य-विधान की स्थिति स्पष्ट नहीं होती ? तुलसी और सूर ने अपने आलौकिक प्रेम को पराकाष्ठा तक पहुँचा कर जो अपने भावों का ग्रत्यावर्त्तन किया, उससे क्या उनकी रचनाओं पर प्रकाश नहीं पड़ता ? काव्य-समीक्षा में यदि जीवन की परिस्थितियाँ छोड़ दी जायँ तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। कवि की रचना उसके जीवन का एक अंगमात्र है। अंग की समीक्षा में अंगी को सुलाना ठीक नहीं। तालाब में खिले हुए कमल की जैसी शोभा होती है क्या वह तोड़कर हाथ में रखने से भी वैसी ही मालूम पड़ती है ? आधुनिक कवियों के संबंध में हम यदि इसी सिद्धांत के अनुसार विचार करना शुरू करें तो उनकी रचनाओं पर काफी प्रकाश पड़ सकता है। साधारण जीवन या साधारण घटना काव्य में स्थायित्व पा सकती है। एक मनुष्य के सुख-दुख के समान संसार के बहुत-से मनुष्यों के सुख-दुख हो सकते हैं, यह कोई असाधारण बात नहीं। काव्य में इसी साधारण तथ्य के आधार पर चिरंतन सत्य को प्रतिष्ठित किया जाता है। असाधारण घटनाएँ जगत्में कभी-कभी हुआ करती हैं; अतः वे काव्य में भी कभी-कभी सत्य होती हैं। साधारण जीवन में सुख-दुख सदा ही बने रहते हैं, इसलिए सदा वे सत्य रहते हैं। काव्य में ऐसे जीवन की बड़ी उपयोगिता है। सत्य का तत्त्व शाश्वत है। वह कभी साधारण या असाधारण नहीं हुआ करता है—सदा एकरस रहता है। यही एकरसता काव्य के स्थायित्व में योग देती है। काव्य-विधान के संकांतिकाल में यह एकरसता विपर्यस्त नहीं होती, केवल बंधी हुई मर्यादा पर थोड़ा आघात पहुँचाती है और यदि यह आघात किसी निपुण

कलाकार की लेखनी-द्वारा पहुँचे तो उसकी भी एक मर्यादा बँध जाती है।

सृष्टि के प्रत्येक दृश्य में ऐसा आकर्षण है जो मानव-हृदय को स्वतः अपनी ओर आकर्षित करता है। जबतक मनुष्य को अपने जीवन से अनुराग है, जबतक वह संसार में और दिन तक जीने की लालसा रखता है, तबसक काव्य की संभावनाएँ सदा बनी रहेंगी।

इन संभावनाओं को मनुष्य का अपने जीवन का अनुराग ही पुष्ट करता रहेगा। प्रकृति के जो दृश्य सदा से चले आए हैं वे प्रायः अब भी उसी प्रकार हैं। कलाकार वस्तुतः उन दृश्यों का चित्रण नहीं करता, प्रत्युत् अपने हृदय की उन वृत्तियों का विशेषण करता है जो उन दृश्यों के योग से उद्यत होती हैं। जबतक सृष्टि का प्रत्येक सूर्योदय जीवन में एक नया पहलू सामने लाता रहेगा तबसक काव्य की संभावनाएँ निश्चित हैं। काव्य-विधान की संक्रांति उसके तत्त्व को सुरक्षित रखने के लिए भी कभी-कभी आवश्यक हुआ करती है। संस्कृति बहुधा किसी के करने से नहीं हुआ करती, वह तो जीवन की एक ऐसी विशेषता है जो स्वतः अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती है। सभ्य जगत् के जितने भी आंदोलन हैं वे काव्य की मर्यादा तथा दिशा पर अपना प्रभाव डालते हैं। नये-नये छंदों का निर्माण, नये-नये अलंकारों का विधान होता है। काव्य-विधान के जो उपकरण जीर्ण समझे जाते हैं उन सब का उद्धार करना ही संक्रांति का अभिप्राय समझा जाता है। संस्कृति बहुधा बहुमुखी नहीं होती। यद्यपि वह किसी एक ही दिशा पर अपना विशेष

प्रभाव दिखलाती है तथापि उसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि वह काव्य में एक नया चेत्र उत्पन्न कर देता है। काव्य के जीर्ण उपकरणों का भले ही यह कहकर उद्धार किया जाय कि वे अवश्य आधुनिक युग के योग्य नहीं, किंतु यथार्थ में वे अनुपयुक्त नहीं होते। वे मनुष्य की अपनी कृतियाँ हैं; इसलिए ऐसी कृतियाँ जीर्ण समझी जाती हैं। सूर्योदय कभी पुराना नहीं मालूम होता, चाँदनी भी कभी पुरानी नहीं मालूम पड़ती, यह इसलिए कि वे मनुष्य की सृष्टि नहीं हैं। मनुष्य बराबर सृष्टि करने की आकंक्षा किया करता है, इसी कारण एक के बाद दूसरी सृष्टि कर वह अपने बुद्धि-वैभव का परिचय देता है। नये-नये छंदों के निर्माण को हम बुरा नहीं मानते। बुद्धिवाद के इस विकास-युग में हम बुद्धि-कौशल को रोक भी नहीं सकते, किंतु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि काव्य-विधान में बुद्धि अपना व्यवसाय भाव-क्षेत्र से सर्वथा बाहर नहीं कर सकती। काव्य का 'संकांतिकाल' विचार को विकसित कर देता है, सृष्टि होने लगती है, पर सौंदर्य तथा स्थायित्व का दर्शन पीछे होता है। युग-प्रवाह की बहुत कम ही रचनाएँ स्थायी साहित्य में स्थान पाती हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कलाकार का आत्म-भाव काव्य में स्वाभाविक गति से प्रतिष्ठित नहीं होता, बल्कि एक नयी भर्यादा को प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता है। समय की प्रगति के आगे-आगे कलाकार की भावनाएँ, आकांक्षाएँ चलती हैं, किंतु जबतक विस्तृत जन-समाज में उन भावनाओं तथा आकांक्षाओं को अपनाने की क्षमता नहीं आती तबतक उन पर काव्य का अस्तित्व विक नहीं सकता। जिस विचार को हृदय में

हम आज स्थान देते हैं, काव्य में उसे कल हम सम्मिलित कर सकते हैं। बुद्धि और भाव में यह एक तात्त्विक अंतर है। काव्य

भाव और विचार का विषय बुद्धि नहीं—भाव है और काव्य-विधान की संक्रान्ति केवल भावुकता से उत्पन्न नहीं हो सकती। बुद्धि-प्राणी विषय को भी भाव-रूप बनने में कुछ समय लगता है। काव्य के लिए

इसकी प्रतीक्षा भी आवश्यक है। मोगल बादशाही जमाने में हमारी सभ्यता पर थोड़ा-बहुत मुस्लिम प्रभाव किसी-न-किसी प्रकार पड़ा ही, लेकिन उस समय का काव्य उस प्रभाव से निर्लिप्त रहा। अंगरेजी राज्य में जिस प्रगति से हमारी सांस्कृतिक सभ्यता की भावना मलिन होती जा रही है उसी प्रगति से काव्य-जगत् में परिवर्त्तन नहीं होता। सूट-वूटधारी कलाकार भी भारतीय काव्य की मर्यादा को सहसा तोड़ने का साहस नहीं करते। काव्य में परिवर्त्तन नियमानुकूल होता है। इसका प्रधान कारण यही है कि जीवन-पन्थ को छोड़कर काव्य का अस्तित्व अन्यत्र कुछ अर्थ ही नहीं रखता। जीवन एक प्रगति की धारा है, फिर काव्य का मूल संस्कार सहसा ही विनष्ट नहीं किया जा सकता।

जिस प्रकार मनुष्य के चरित्र-निर्माण के प्रतिबंधक रहते हैं उसी प्रकार काव्य में कलाकार का आत्मभाव भी कई प्रतिबंधों

के बीच प्रतिष्ठित होता है। राज-भय, समाज-आत्मभाव और चरित्र के प्रतिबंध भय, धर्म-भय मानव-चरित्र को संयत रखता है।

काव्य-विधान भी इस संयम का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जो जाति अपने जीवन को जिस रूप में देखती है वह उसी ढंग के काव्य का निर्माण, काव्य का विधान करती

में समर्थ नहीं हो सकती। प्रगतिशील जीवन के जो चिन्ता अभी काव्य में आ रहे हैं, उनके प्रति पाठक कुछ दिनों तक भले ही केवल शील-द्रष्टा के रूप में रहें, पर अब वह युग आ रहा है जब उसमें भी रसानुभूति प्रतीत होगी।

काव्य का प्रयोजन मनुष्य के केवल कर्मों के चिन्नण से ही सिद्ध नहीं होता, जबतक अंतर्वृत्तियों का विश्लेषण नहीं किया जाता तबतक काव्य की उपयोगिता नहीं मानी जा सकती। यदि अच्छी अंतर्वृत्तिवाले मनुष्य के कुकर्म को हम कुकर्म कह सकते हैं तो बुरी अंतर्वृत्तिवाले मनुष्य के सुकर्म को सुकर्म नहीं कहना चाहिए। किस वृत्ति से किस कर्म की उत्पत्ति हुई है, यही स्पष्ट करना काव्य का उद्देश्य है और इसी स्थिति में कलाकार अपने आत्मभाव को न्याय्य प्रभाणित कर सकता है। केवल कर्म को ही जीवन मानकर चलने से बड़ी-बड़ी वाधाएँ आ सकती हैं। जगत् में इन वाधाओं का मूल्य कुछ कम भी हो, किंतु काव्य में इन वाधाओं से बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है; क्योंकि काव्य में प्रत्येक पात्र के—प्रत्येक कर्म के—प्रेरक भाव का विश्लेषण नहीं होने से पाठक या श्रोता उसका हृदयंगम नहीं कर सकता। यह बात सच है कि रोटी खाने से पेट भर जाता है चाहे वह रोटी जौ की हो या गेहूं की। यदि जुधा को तृप्त करना ही हमारा लक्ष्य है तो जौ-गेहूं के भंडेले में पड़ना आवश्यक नहीं। काव्य में भी-जहाँ पात्र के चरित्र का प्रदर्शन करना आवश्यक है वहाँ अंतर्वृत्तियों का विश्लेषण अनिवार्य नहीं। रोटी खाने में जब हम अपनी जुधा को ही तृप्त नहीं करना चाहते

वरन् स्वाद का भी आनंद लेगा चाहते हैं तब रोटी के तत्त्व का विश्लेषण उचित जान पड़ता है। इतिहार में कर्म के उल्लेख से काम चल जाता है, किंतु काव्य में इसी पद्धति से काम नहीं चल सकता; वयोंकि स्वाद के रूप में हम काव्य का रस लेना चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य के चरित्र से ही पाठक को संतोष नहीं मिलता। मनुष्य का हृदय चिरंतन सत्य हो सकता है, पर उसका चरित्र वैसा व्यापक नहीं होता। मनुष्य का जो हृदय है वही सदा उसका चरित्र नहीं हुआ करता। संसार की परिस्थितियाँ मनुष्य के चरित्र तथा हृदय को सर्वदा और सर्वथा एक नहीं रहने देतीं। काव्य में जब कलाकार मानव-चरित्र की सृष्टि करता है तब हृदय और चरित्र को दो भिन्न-भिन्न तत्त्व मानकर ही। जगत् के व्यवहार को देखकर वह चरित्र का वर्णन करता है, किंतु उस चरित्र को न्याय्य सिद्ध करने के लिए कलाकार को कारण देना पड़ता है और इसी प्रकार वह पात्र में अपने आत्म-भाव को प्रतिष्ठित कर जीवित रखता है।

कलाकार की शैली के संबंध में जो समीक्षा की जाती है उसके संबंध में हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि कलाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त शैली में भाषा की सांस्कृतिक विशेषता भी अपना महत्त्व रखती है। व्यक्तित्व का जितना महत्त्व है उतना ही भाषा की मर्यादा का भी। आत्म-भाव की बहुत-सी विशेषताएँ शैली में मिलती हैं किंतु उन्हीं के ऊपर निर्भर रहकर किसी कलाकार के आत्म-भाव की मर्यादा स्थिर करना भ्रम से खाली नहीं। कलाकार जिस रूप में जगत् के सम्मुख रहता है,

कलाकार की  
शैली और उसका  
आत्मभाव

अपने काव्य में वह प्रायः वही नहीं रहता। काव्य की शैली मस्तिष्क का विषय न होकर कलाकार की भाव-दशा, प्रवृत्ति, आकांक्षा तथा औत्सुक्य आदि को लेकर चलती है। हृदय संवेदना का ज्ञेत्र है, इसलिए शैली की समीक्षा के समय गणित और विज्ञान को साधारणतः छोड़कर कविता, नाटक और उपन्यास की ही चर्चा की जाती है। जिन विषयों में मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का आभाव पाया जाता है उनके आधार पर कलाकार के आत्म-भाव का विश्लेषण करना संभव नहीं होता। रवीन्द्रनाथ काव्य का मुख्य उद्देश्य कलाकार की अभिव्यक्ति ही समझते हैं। यह अभिव्यक्ति व्यक्ति की एक विशेषता के रूप में होती है। आत्म-भाव के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वह एक अनिवार्य है। एक व्यक्ति की विशेषता को अनिवार्य के सिद्धांत के रूप में न माना जाय तो काव्य के विधान में कलाकार के आत्म-भाव की व्यापकता नहीं मानी जा सकती। कवि की अनुभूति का ज्ञान या उसके आत्म-भाव की प्रतिष्ठा उसकी पदावली के अतिरिक्त या उससे निरपेक्ष होकर नहीं हो सकती। जहाँतक काव्यसंबंधी अनुभूति है, वह पदावली से अपनी सत्ता को पृथक् नहीं कर सकती। कवि में अनुभव करने और अनुभव को पदावली में व्यक्त करने की शक्ति भिन्न नहीं है। ग्राहक कल्पना और विधायक कल्पना के नाम से विश्लेषण केलिए हम एक विभाजन कर सकते हैं किंतु दोनों का क्रम एक दूसरे के साथ इतना मिला हुआ है कि कलाकार के जीवन में हम दो गतियां नहीं देख सकते। जहाँतक वह कवि है—अनुभूति-संपन्न है, वहाँतक वह अपने काव्य से भिन्न कुछ भी नहीं।

इसे यों भी कहा जा सकता है कि वह अपने काव्य से पृथक् कुछ ही नहीं। रश्मियों का मंडल ही तो सूर्य है, न रश्मियाँ सूर्य से भिन्न हैं और न सूर्य ही कोई पृथक् वस्तु है। काव्य भी अपने कला-विधान से अलग नहीं है और कलाकार का आत्म-भाव अपने काव्य से इतना संयुत है कि उसकी पृथक् सत्ता हो ही नहीं सकती।

---

## चौथा अध्याय

### मन का ओज और काव्य का रस

रसास्वादन के संबंध में यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि मनुष्य अपने अतिरिक्त ओज का ही रस-प्रहण करता है। शारीरिक परिश्रम, बाह्य जगत् का प्रभाव, मनुष्य के मन के ओज पर ही अवलंबित होते हैं। संसार में जितने भी काम किए जाते हैं, सब ओज के बल पर ही। जिसके मन में ओज नहीं है, जो अपने दिन-रात के कामों में मन का सारा ओज व्यय कर चुका रहता है उसे किसी भी वस्तु से आनंद की

मन का ओज  
और  
रसास्वादन

उपलब्धि नहीं हो सकती। काव्य का रसास्वादन मन के अतिरिक्त ओज के आधार पर ही होता है। बाणी जगत् की कोई अन्य शक्ति या प्रभाव मौलिक रूप से हमें रस-ग्रहण में सहायता नहीं दे सकता। यदि मन में ओज की मात्रा विशेष रूप से वर्तमान हो तो उसी मात्रा के अनुसार आनंद का अनुभव किया जा सकता है। सूखी हड्डियाँ चबानेवाला कुत्ता अपने ही मसूड़ों की जड़ों का रक्त चखकर इस बात से प्रसन्न होता है कि हड्डियों से ही उसे यह रस प्राप्त हो रहा है। कस्तूरी-मृग अपनी ही नाभि की सुगंध से उद्घाटन-चकित होकर इधर-उधर दौड़ता और सोचता है कि यह सुगंध उसे कहाँ से मिल रही है! पाठक या श्रोता अपने मन के बचे हुए ओज से ही काव्य का आनंद पाता है, किन्तु समझता है कि उसने यह आनंद काव्य से उपलब्ध किया है। काव्य की ज्ञानता ओज की संवेदना को उभाड़ना-भर होनी चाहिए। जो दुखी है, दिन-भर का थका-मांदा है, चित्त अस्वस्थ है, उसे सरस-से-सरस काव्य भी रसास्वादन का आनंद नहीं दे सकता। इसका एकमात्र कारण यही है कि उसके मन का सारा ओज चित्त की अव्यवस्था में ही नष्ट हो जाता है और काव्य के रस-ग्रहण करने के लिए कुछ बच नहीं रहता। प्रकृति के समान दृश्य को ही देखकर एक स्वस्थ चित्तवाला व्यक्ति जितना आनंद

ओज का संघर्ष  
और  
आनंद-प्राप्ति

ले सकता है उतना एक अस्वस्थ चित्तवाले को नहीं प्राप्त हो सकता। यदि किसी के मन का थोड़ा ओज किसी प्रकार बच जाय तो वह उसी मात्रा में आनंद का अनुभव कर सकता है, चाहे वह आनंद काव्य में प्राप्त हो, प्रकृति के किसी रमणीय दृश्य

में मिले या बाह्य जगत् के किसी अन्य व्यापार में। मार्शल ने १  
इसी तथ्य पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य  
विश्राम के समय अपने मन के ओज का उत्पादन करता है। यदि  
मनुष्य को विश्राम करने का अवसर न मिले तो उसके मन में  
ओज का संचय नहीं हो पाता और फलतः उसे आनंद से दूर-ही-  
दूर रहना पड़ेगा। विश्राम करने के बाद जब चित्त स्वस्थ हो  
जाता है और कुछ ओज भी संचित हो जाता है तब प्रकृति के  
साधारण-से-साधारण दृश्य में भी मनुष्य को एक अपार आनंद  
उमड़ता दिखाई पड़ता है। आनंद की संवेदना जब एक ही  
स्थिति में बहुत देरतक बनी रहती है तब वह स्थिति पूर्वापेक्षा  
सुखकर प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बराबर एक स्थिति में रहने के  
कारण मन का सारा ओज एक ही बार खर्च हो जाता है। काव्य  
के पाठक या श्रोता को इस बात का अनुभव होगा कि बराबर  
एक ही कई बार पढ़ने या सुनने में वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता,  
जैसा कि उसे पहली और दूसरी बार हो चुका रहता है। यदि  
काव्य में ही आनंद माना जाय तो एक ही प्रसंग को पचासों बार  
पढ़ने पर भी मनुष्य को प्रत्येक बार एक-सा ही आनंद मिलना  
चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है।

1. After the quiet of the night-hours the bird-song, as we awake is more than usually pleasurable, the rested eye sees beauty in all colours. The rubbing at our morning bath, of the skin, which has not during the night felt the normal friction of our clothing, the flavour of some special food to which we have been accustomed but which has not lately been tested—all are pleasurable.

—Marshall: Pain, Pleasure and Aesthetics, p. 200.

इस स्थिति का स्पष्टीकरण करने पर यह पता चलता है कि जिसके मन का ओज जितना ही ज्ञान-संपन्न होगा वह उतना

ही आनंद की व्यवस्था करने में सफल हो सकेगा। जो मनुष्य ओज का संचय जितनी ही कम मात्रा में करेगा वह तदनुसार ही आनंद प्राप्त करने का अधिकार पा सकेगा। निश्चेष्ट तथा कार्यविमुख रहने वाले अमीर-उमराव कुछ अधिक खिलासी इसी कारण होते हैं कि उन्हें साधारण जनता से अपने ओज-संचय की ज्यादा सुविधा रहती है। यहाँ स्वभावतः एक प्रश्न उठता है कि यदि कोई मनुष्य बराबर ओज का संचय ही करता रहे और दैनिक काम-धंधों में उस ओज का व्यय न कर केवल आनंद के उपभोग में ही लगा रहे तो उसे उसी मात्रा में आनंद प्राप्त हो सकता है या नहीं ? मरितष्क की कियाओं तथा हृदय के भावों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य सदा परिवर्त्तन चाहता है। यदि परिवर्त्तन का कम रुक जाय तो सृष्टि में आकर्षण की सत्ता नष्ट होने में देर न लगे। खिला हुआ सुंवर फूल इसीलिए इतना प्रिय मालूम होता है कि एक दिन वह खिला ही न था, कली के रूप में था और आज खिलकर वह फड़ने जा रहा है। मनुष्य को अपना जीवन इसीलिए इतना प्रिय है कि उसने एक दिन संसार में जन्म लिया है और किसी दिन उसे मरना भी है। वस्तु, भाव, क्रिया आदि में अमरत्व रहने से उनका स्वाभाविक सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। हमारे भारतीय कलाकारों ने सौंदर्य की परिभाषा बड़ी मार्मिक अंतर्दृष्टि से की है कि ज्ञान-क्षण जो नवीनता उत्पन्न करे उसी को सौंदर्य कहते

हैं। काव्य या प्राकृतिक हश्य में यदि हमें नवीनता नहीं मिलेगी तो मन अपने ओज का व्यापार अच्छी तरह नहीं कर सकेगा। जो बराबर ओज का ही संचय करता रहता है उसे ओज-संचय के प्रयत्न में भी ओज का व्यय करना पड़ता है। एक बार ओज संचित कर लेने के बाद वह उसी मात्रा में बराबर बना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य की मानसिक क्रिया जाग्रतावस्था में कभी बंद नहीं रह सकती। इंजिन को चालू रखने के लिए पेट्रोल का खर्च देना ही पड़ेगा। ओज का संचय भंडार बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। जिसके मन में जो कुछ अतिरिक्त ओज बचा है उससे यदि वह बाह्य जगत् का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता तो उसका वह ओज मानसिक क्रिया के संचालन में ही समाप्त हो जाता है। जिस भंडार का द्वार सदा ही खुला रहता है वहाँ कुछ छिपाकर रखने में सफलता नहीं मिल सकती।

**आनंद जबतक अनुभूत नहीं रहता तबतक उसको प्राप्त करने की प्रेरणा** मन में नहीं होती। विषाद भी जबतक अनुभूत

**आनंद और नहीं रहता तबतक उसको दूर करने की चिंता**

**विषाद मन में नहीं उठती। जीवन में आनंद है,**

**तथा ओज इसलिए हम विषाद को हटाकर उस स्थिति को**

**बचाए रखने का प्रयत्न करते हैं। मन के**

**विश्राम की स्थिति में जो ओज संचित होता है उससे जितनी**

**देर तक आनंद लिया जा सकता है उससे कम ही समय में**

**विषाद सब ओज को आत्मसात् कर ले सकता है। किसी वस्तु**

**के निर्माण में जितना काल अपेक्षित है उतना उसके विवरण**

**में नहीं। ओज-संचय में आनंद के लिए हम एक स्थिति का**

निर्माण करते हैं, परंतु विपाद की छाया पड़ते ही वह नष्ट हो जाती है। विपाद का हल्का-से-हल्का आभास भी हमें व्यक्ति कर देता है, किन्तु साधारण आनंद का भाव हमें जीवन की साधारण स्थिति में ही रखता है। साधारण से अधिक आनंद पाकर ही हम अपने हृदय में उसके अस्तित्व का उपभोग करते हैं।

आनंद को प्राप्त करने तथा विपाद को दूर करने में ओज का व्यय होता है और इन दोनों ही स्थितियों में हमारी मानसिक वृत्तियाँ सक्रिय रहती हैं। किसी समय वे ओज और अंतर्मुख और किसी समय वहिर्मुख रहती हैं। स्थिति-परिवर्तन

जबतक आनंद या विपाद की प्रकृति या मात्रा में कोई उल्लेखनीय अंतर न हो तबतक हमें उसके अस्तित्व का प्रायः संवेदनीय बोध नहीं होता। दैनिक जीवन में जिसे जितना आनंद या विपाद प्रतिदिन मिला करता है उससे अपनी इस स्थिति में किसी प्रकार की नवीनता का ज्ञान नहीं होता और फलतः उसके लिए उस मात्रा में सुख या दुख जीवन का एक सामान्य व्यापार बना रहता है। अंधेरे कमरे में जब अचानक दीपक का प्रकाश होता है तब हम उस प्रोत्तर ध्यान देने को बाध्य होते हैं, परंतु दिन भर सूर्य के उगे रहने पर हमें बराबर उस ओर ध्यान देने की परवाह नहीं रहती। बाल रवि की सुनहली किरणें इसलिए रमणीय मालूम होती हैं कि वे गहन अंधकार से फूट निकली हैं। सांध्य सूर्य की लालिमा हमें इसलिए प्रिय मालूम होती है कि कुछ चण के बाद गहन कालिमा में उसका पर्यवसान होगा। परिवर्तन या नवीनता

का यही क्रम जीवन में ओज का सदृश्य करता है। इस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी चेतना-शक्ति और अध्यवसाय पर बराबर जोर नहीं देना पड़ता। स्वाभाविक गति से इस प्रकार काम होता चलता है कि हम अपने में सदा चेतन प्रयत्न का अनुभव नहीं कर पाते। किसी भाव को पहली बार ग्रहण करने में हमें अपनी चेतना-शक्ति तथा अध्यवसाय की जितनी सहायता लेनी पड़ती है उतनी क्रमशः उसी भाव की उत्तरोत्तर प्राप्ति में नहीं। कुछ दिनों के बाद वही भाव हमारे हृदय का एक रथायी अंग बन जाता है ।

मन की साधारण स्थिति में हम विदूषक की बातों से प्रसन्न होते हैं, किंतु जब हमारी मानसिक स्थिति में कोई असाधारण दुखद परिवर्तन हुआ रहता है तब प्रायः विदूषक मन की स्थिति की मनोरंजक बातों को भी मुन कर, प्रसन्न होने के बदले, भुंफला उठते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही मानसिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। उसमें वह किसी दूसरे का व्यवधान सहन नहीं कर सकता। हृदय में जब किसी प्रकार की संवेदना उठती है तब यदि वह संवेदना सुखद होती है तो कल्पना में बराबर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि प्रवृत्ति की यह स्थिति सदा बनी रहे और इसके विपरीत यदि संवेदना दुखद होती है जो जल्द-से-जल्द उसे हटाने की कोशिश की जाती है। जब हम बैठे-बैठे अपने मन में कल्पना का आनंद लेते रहते हैं तब मन की वैसी स्थिति में किसी के कुछ कहने पर पहली बार तो हम

उत्तर दे देते हैं, पर दूसरी-तीसरी बार पूछे जाने पर झुँझला उठने को हम विवरा हो जाते हैं। भाव की जो सत्ता हमारे मन में बनी रहती है उसमें किसी प्रकार की वाधा हमें बांधनीय नहीं। वाधा आते ही हम स्वाभाविक रूप से भिड़क कर उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं। काव्य में भी जब हमारी मानसिक स्थिति भाव की समतल भूमि पर बनी रहती है तब इस स्थिति के प्रतिकूल किसी प्रकार की व्यंजना होने पर उस वाधा के प्रति हमारे मन में अन्यथा होना एक साधारण बात है। अन्यथा भाव इस बात का प्रमाण है कि हमारी अपनी सत्ता काव्य के किसी विशेष पात्र की सत्ता से मेल नहीं खाती। ऐसी व्यवस्था में हमें वैसे वर्णन से आनंद नहीं होता, क्योंकि तब हमारी समझ से ओज का

अपव्यय होने लगता है। कवि किसी के हृदय मन का संस्कार में नया भाव नहीं भरता, बल्कि वह केवल और रस की प्रतीति अनुभूत भावों को ही जाग्रत तथा उत्तेजित करता है। किसी नायक-नायिका के प्रेम-वर्णन को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता उनके सुख से अपने को सुखी नहीं मानता, वरन् उस वर्णन से उनके अपने हृदय का ही भाव जाग्रत होकर उत्तेजित हो जाता है और रस की प्रतीति होने लगती है। यदि ऐसे सुख की वासना का संस्कार पाठक या श्रोता के चित्त पर नहीं है तो काव्य के ऐसे वर्णन से उसका मनोरंजन नहीं हो सकता।

काव्य में वैचित्र्य या चमत्कार को भी एक स्थान प्राप्त है। यह सत्य का अपलाप नहीं है, किंतु द्रविड़ी प्राणायाम से सत्य की प्रतीति कराना है। सत्य को जानना और मानना दो आंते

जगत् का जो सत्य है, काव्य का सत्य ठीक उसी रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। वैचित्र्य या चमत्कार इसी प्रकार काव्य का सत्य है, जगत् के सत्य से कभी-कभी इसे बहुत दूर रखना पड़ता है। पाठक या श्रोता के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वह इस वैचित्र्य या चमत्कार के सत्य को तथ्य समझकर ही आनंद प्राप्त करता है। आनंद का यह प्रलोभन यदि उसे न हो तो वह काव्य के ऐसे सत्य को नहीं समझ सकता। काव्य और चमत्कार दोनों में अंतर है और वह अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि काव्य को एक प्रतीति के रूप में लेकर हम विमुग्ध रूप से मौन हो जाते हैं, किंतु वैचित्र्य या चमत्कार के समय हम अपना मौन भंगकर वाह-वाह कह उठते हैं।

काव्य का उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन नहीं हो सकता। उद्देश्य के मार्ग में मनोरंजन एक साधन है। उसका अंतिम उद्देश्य जगत् के साथ मानव-हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। मनोरंजन का प्रयोजन चित्त-वृत्ति को रस-दशा की उस भाव-भूमि पर पहुंचा कर संलग्न रखना है जहाँ काव्य के मूल भाव से प्रभावित होते समय पाठक या श्रोता की चित्त-वृत्ति इधर-उधर न हो जाय। मनुष्य की चित्त-वृत्ति इतनी व्याकरणात्मक है कि जबतक उस पर किसी प्रकार का मधुर प्रतिबंध नहीं रखा जाय या उसके सामने कोई प्रलोभन या आकर्षण न रखा जाय तब तक वह एक स्थिति में

कुछ देर के लिए भी नहीं रह सकती। चित्त की ऐसी स्थिति में काव्य अपने सारे उद्देश्यों को लेकर मनोरंजन के पीछे-पीछे चलता है। उस समय पाठक या श्रोता की अपनी सत्ता काव्य के तथ्य से पृथक् नहीं रहती, उसी में मिल जाती है। यदि काव्य का उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन ही रहता तो इसके लिए काव्य जैसे दुर्लभ व्यापार को घसीटने की आवश्यकता नहीं। किसी के बेठोपन पर हम हँसते हैं, थोड़ी देर के लिए उससे हमारा मनोरंजन हो जाता है, परंतु क्या वह बेढ़गापन काव्य की समता कर सकता है? काव्य-जैसे गंभीर विषय का उद्देश्य मनोरंजन जैसा हल्का विषय नहीं हो सकता। मनोरंजन को हल्का कहने से हमारा तात्पर्य यही है कि उसका कोई उससे भिन्न उद्देश्य नहीं होता। हास्यरस में मनोरंजन की सत्ता बड़ी प्रत्यक्ष रहती है, किंतु इस मनोरंजन के अतिरिक्त पाठक या श्रोता के हृदय पर किसी और बात का भी संस्कार जमता है जिसे वह उस समय मनोरंजन-मात्र ही समझ कर रह जाता है और उसका हृदय एक अज्ञात दिशा की ओर बढ़ जाता है। जिस प्रकार शारीरिक बलके

लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है, उसी रस-पद्धति प्रकार शक्ति के लिए भावों का व्यायाम अपेक्षित है। मानसिक प्रत्येक अंग के विकास के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार व्यायाम हैं। मानसिक शक्ति के विकास के लिए भी नाना प्रकार के भावों का विन्यास करना पड़ता है। जीवन में काव्य की सफलता का यही परिणाम है।

वीर रस के काव्य से हम अपने मानसिक उत्साह का विकास कर सकते हैं, करुण रस के काव्य से हम अखिल जीव के प्रति

शोक-स्पंदित होकर अपनी सहानुभूति-भावना की वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न रस-प्रधान काव्यों से हम भिन्न-भिन्न भावों को विकसित करने में समर्थ हो सकते हैं। यह एक साधारण बात है कि जो व्यक्ति जिस ढंग के काव्यों का अध्ययन करता है उसके विचार प्रायः उसी ढंग के होते हैं। यदि रामायण से केवल पितृ-भक्ति, भ्रातृ-प्रेम, पातित्रत, मैत्री, दुष्टों के दमन आदि की ही शिक्षा मिले, यदि महाभारत से केवल 'यतोर्धर्मः ततोजयः' का ही उपदेश प्राप्त हो तो दोनों महाकाव्यों की विशालता का तात्पर्य सिद्ध नहीं होता। महाकाव्यों में हमें जीवन की विविधताएँ मिलती हैं। उनसे हम विश्व-जीवन को आत्मसात् करने की चेष्टा करते हैं—यही उनका चरम उद्देश्य है।

आनंद और विषाद दो भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं, परंतु किसी विशेष मानसिक स्थिति में दोनों तत्त्वों का ऐसा रासायनिक संमिश्रण हो जाता है कि हम दोनों तत्त्वों को आनंद और विषाद पृथक् नहीं कर सकते। कालिदास के मेघदूत का विरही यक्ष जब अलकापुरी-स्थित अपनी मिश्रण प्यारी विरहिणी का स्मरण करता है तब उसकी

इस सृष्टि-भावना में आनंद और विषाद के जो तत्त्व एक-से मिले हुए हैं, उनको कोई भी मनोवैज्ञानिक पृथक् नहीं कर सकता। भावों का योग गाणितिक क्रिया से नहीं हुआ करता, वह तो रासायनिक योग होता है। यक्ष को अपनी प्रिया की सृष्टि से उसकी विरहावस्था पर विषाद होता है, परंतु उस विषाद की सृष्टि से भी उसे जो आनंद प्राप्त होता है उसको भी वह छोड़ नहीं सकता। यहाँ विषाद से भिन्न आनंद का कोई अस्तित्व

नहीं है। इस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित विषाद को स्वीकृत करना ही पड़ेगा। प्रत्येक मानसिक स्थिति के मूल से यह पता चलता है कि शुद्ध विषाद के जितने रूप हमारे मन में आया करते हैं उतने शुद्ध आनंद के नहीं। गौतम-पत्नी यशोधरा अपने पति के, जगत् के कल्याण की स्वोज में, राजमहल से चुपचाप निकल जाने पर, स्वाभाविक रूप से विषणु होती है, किंतु वह अपने अस्तित्व की विशेष मर्यादा न रखकर पति के भावी गौरव की भावना से उज्ज्वित होकर कहती है—

जायँ, सिद्धि पावें वे सुख से—

दुखी न हों इस जन के दुख से,

उपालंभ दूँ मैं किस मुख से ?—

आज अधिक वे भाते !

सखि, वे मुझ से कहकर जाते ।

गए, लौट भी वे आवेंगे,

कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे,

रोते प्राण उन्हें पावेंगे,

पर क्या गाते-गाते ?

सखि, वे मुझ से कहकर जाते ।

—मैथिलीशरण गुप्त

जो कवि एक ही मानसिक स्थिति में आनंद और विषाद दोनों को अलग-अलग दिखाने की चेष्टा करता है वह यथार्थ में एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक असत्य को ही प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है। एक आँख में आनंद का उज्ज्वास और दूसरी में विषाद का अवसाद रह ही नहीं सकते। दोनों आँखों में दोनों

तत्त्वों की मिश्रित सत्ता माननी पड़ेगी । बाह्य जगत् के विषाद् को पाकर हमारे मन का ओज अनुत्पादक रूप से खर्च होने लगता है, परंतु काव्य में जब हम किसी के विषाद् का वर्णन पढ़ते हैं तब आश्रय के साथ तादात्य स्थिति को प्राप्त कर उस विषाद् से आनंद प्राप्त करते हैं ।

काव्य के वर्णनों में ज्यादा ध्यान हम उन्हीं बातों—घटनाओं पर देते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है । व्यर्थ की बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित ही नहीं होता । काव्य में संकेत या उपेक्षा से अधिक विषय का सारा काम केवल वर्णनों से ही नहीं चलता, उसका बहुत-सा काम संकेत या उपेक्षा से ही पूरा किया जाता है । काव्य में जहाँ संकेत या उपेक्षा रहती है वहाँ उस अंश की पूर्ति पाठक अपनी बुद्धि से कर लेता है । यदि काव्य में केवल सांगोपांग वर्णन से ही काम लिया जाता तो वह किसी की दिनचर्या से विशेष भवन्त्व नहीं रख सकता । जो सत्य है अथवा जिस घटना का जो परिणाम सत्य है उसका संकेत या उपेक्षा कर देने से पाठक का बहुत-सा समय, उसका बहुत-सा ओज बच जाता है जिससे वह काव्य के आगे के प्रकरणों को मनोयोग-पूर्वक पढ़ने में समर्थ हो सके ॥ गोख्यामी तुलसीदास ने रामचंद्र के जीवन में बहुत-सी घटनाएँ दिखलाई हैं, किन्तु नित्यकर्म के जो धृंग—शौच, स्नान, संध्या, भोजन आदि हैं उनको बार-बार दिखलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । जीवन के ये व्यापार ऐसे हैं जो उसकी सत्ता दिखलाने के बाद, बिना किसी विशेष परिस्थिति के, उल्लेखनीय नहीं माने जाते । पाठक या श्रोता समझ लेता है कि जीवन के ये अनिवार्य व्यापार हैं । इनके उल्लेख

की उपेक्षा कर उसका बहुत-सा मानसिक ओज बचा लिया गया है। जबतक अपने मानसिक ओज का व्यय न किया जाय तब-तक काव्य से आनंद की प्राप्ति संभव नहीं; अतएव जहाँ मानसिक ओज अनुत्पादक रूप से खर्च होता है वहाँ का वर्णन रुचिकर नहीं मालूम पड़ता। जो वस्तु कुछ खर्च करके खरीदी जाती है उसकी उपयोगिता पर हमारा ध्यान बराबर बना रहता है। यदि मनुष्य को काव्य का आनंद बिना किसी प्रकार के खर्च के ही मिला करता तो उसे अनावश्यक प्रसंग का बार-बार उल्लेख अखरता नहीं। जो घटनाएँ बहुकाल-व्यापी होती हैं उनकी स्मृति, उनका काल्पनिक चित्र, किसी संकेत को पाकर ज्ञान-भर में ही मन में सजीव हो जाता है। यदि संकेत या उपेक्षा से काम न लिया जाय तो किसी सत्काव्य की रचना संभव नहीं। उसमें इतनी अनावश्यक बातें एकत्र हो जायेंगी कि मन का सारा ओज आरंभ में ही समाप्त हो जायगा। जिन बातों से हमें मानसिक संतोष नहीं होता, औत्सुक्य जागरित होकर आगे नहीं बढ़ता, वे हमारे आनंद का संचार नहीं कर सकतीं। कवि अपना भाव पाठक को नहीं देता, बल्कि वह संकेत से पाठक या श्रोता के ही हृदय के भाव को संचारित कर देता है। यदि पाठक या श्रोता के हृदय में उस प्रकार के भाव का मूल वर्तमान न हो तो उसे कवि के उस प्रकार के भाव-संकेत से आनंद नहीं मिल सकता। बीज अपने में पूर्ण माना जा सकता है, किंतु पृथ्वी से उसे विकास के जो तत्त्व प्राप्त होते हैं उन्हें भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। बहुत से चित्रों को हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का एक ही कान चित्रित हुआ है, किसी व्यक्ति की केवल छाती ही

भलक रही है, ऐसा देखकर हमको यह कभी संदेह भी नहीं होता कि चित्रित व्यक्ति कनकटा है, केवल छाती वाला है, पीठ उसे है ही नहीं ! यह संकेत या उपेक्षा का ही दृष्टांत है कि हमारी कल्पना उस अवर्णित या उपेक्षित अंश की पूर्ति कर देती है । काव्य में हमारी यह प्रवृत्ति ऐसी स्वाभाविक रीति से काम करती जाती है कि हमें कभी इसके लिए सचेत नहीं रहना पड़ता । चेतना-शक्ति का स्वाभाविक अंग बनकर, बिना हमारी विशेष अनुमति के ही, कल्पना अपना काम करती रहती है । जैसे दौड़ते समय हम गढ़ों या सड़क पर पड़ी हुई किसी वाधा को पाकर उछल जाते हैं वैसे ही हम अवर्णित या उपेक्षित अंश को कल्पना की छलांग से पूरा कर देते हैं । इस प्रकार हमारा मानसिक ओज सुरक्षित रहकर निकट भविष्य में आनंद के उत्पादन में योग देता है ।

---

## पांचकां अष्टशत

### काव्य का अर्थ-बोध

काव्य की बहुत-सी रचनाएँ ऐसी होती हैं जो हमें प्रिय तो मालूम होती हैं, किंतु उनका अर्थ-बोध नहीं होता। किसी रचना का प्रिय लगाना ही जीवन के साथ उसके हार्दिक अर्थ-बोध और संबंध का घोतक है। जो वस्तुतः हृदय के भाव चेतना हैं वे किसी-न-किसी रूप से हृदय में स्थान पाने का अवश्य प्रयत्न करते हैं। मनुष्य की चेतना-शक्ति साधारणतः तीन रूपों में जाग्रत् होती है। इन्हें हम पूर्ण चेतना, अर्द्ध चेतना तथा सांस्कारिक चेतना कह सकते हैं। ध्यान-पूर्वक किसी दृश्य को देखना या उस पर विचार करना पूर्ण चेतना है। कभी-कभी किसी शहर या भीड़ में ऐसा आदमी भी देखने को मिल जाता है जो कुछ परिचित-सा तो मालूम पड़ता है, किंतु उसका नाम-पता

याद नहीं रहता या मालूम नहीं हुआ रहता । ऐसे व्यक्ति हमारे हृदय में थोड़ा स्थान तो अवश्य कर लेते हैं, परंतु अपना अर्थ-बोध नहीं देते । रुचि या वृत्ति के अनुकूल विपयों में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमारी सांस्कृतिक चेतना सहायक होती है । काव्य की ऐसी रचनाएँ अपने बहिरंग से, वर्ण से, स्वर से हमें विमुग्ध तो कर लेती हैं, किन्तु अपना स्पष्ट अर्थ-बोध न देने के कारण हमें अधिकतर रस-मग्न होने से वंचित रखती हैं । काव्य में ऐसे अर्थ-ज्ञान-हीन सुखानुभव को शास्त्रीय दृष्टि से अप्रबुद्ध उपभोग कहते हैं ।

काव्य के किसी कठिन स्थल को समझने में जब हम असमर्थ-से मालूम पड़ते हैं तब अपनी ज्ञानशक्ति के मर्यादित क्षेत्र को अर्थ-बोध और ज्ञान-शक्ति विस्तृत करने के लिए हमारे अंतर्जगत् की शक्ति जोर करती है । ऐसी स्थिति में भाव-शक्ति की

विकलता बढ़ती है, क्योंकि जबतक ज्ञान-शक्ति भावों के प्रवेश के लिए दरवाजा खोल नहीं देती तबतक काव्य के अर्थ-बोध पर आवरण पड़ा ही रहता है । किसी क्लिष्ट पद के अर्थ को न जानने पर भी प्रसंग-प्राप्त भाव को लेकर हम अपना काम चलाने की चेष्टा करते हैं । किसी पद को स्पष्ट जान लेना मनुष्य की आकलन-शक्ति का मुख्य प्रयोजन नहीं है । मनुष्य की अंतर्शक्ति को विकसित करना काव्य का विशेष तात्पर्य है, किंतु उपर्युक्त अवस्था में हम पद के अर्थ को जान लेना ही पर्याप्त समझ लेते हैं । किसी एक पद को लेकर माथापच्छी करने से हम छुट्टी पा जाते हैं और इस प्रकार हम अज्ञान के बंधन से मुक्त-सा समझ कर प्रसन्न होते हैं । वस्तुतः यह प्रसन्नता हमारी

मर्यादित शक्ति को विस्तृत करने के काम की नहीं होती। पानी में मिश्री की डली थोड़ी देर के बाद शुल्मिल जाती है, परंतु मिश्री की डली के बदले यदि पत्थर का टुकड़ा आ मिले तो उसमें गलाने की क्षमता नहीं रहती। पर, इससे हमें अधिक घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि अंतर्जंगत् की शक्ति में तीव्रता रहे तो पानी की कड़ी धार में पत्थर टूट भी सकता है। यदि न टूटे तो कुछ दिनों के बाद उस पत्थर के टुकड़े को कज्जलघेष्ठित होकर उसी वातावरण की दुहाई देकर रहना पड़ता है। ऐसे अर्थ-ज्ञान-हीन पद जो हमारे मानस में बने रहते हैं हमें काव्य में नवागंतुक-से नहीं मालूम पड़ते। अर्थ-रपष्ट होने पर निश्चय ही वे हमे मन की सतत उद्घोशील किया को विश्राम देकर प्रसन्न कर देते हैं।

मनुष्य की अंतर्शक्ति गंभीर दार्शनिक रहस्य रो भरी हुर्द है। संसार में ऐसे बहुत-से तथ्य होते हैं जिनका ज्ञान अंतर्जंगत् को अंतर्शक्ति और अभिव्यक्ति से बाहर भी प्रकाशित हो जायें। साधारणतः जीवन में ऐसे बहुत-से क्षण आते हैं जब हम विना किसी रपष्ट या प्रत्यक्ष कारण के प्रश्न या विपरण होते हैं। वस्तुतः ये भाव अकारण नहीं हुआ करते। हमारी अंतर्शक्ति को इस प्रसन्नता या विपरणता का कारण मालूम हुआ रहता है, परंतु अस्पष्टता के कारण हम अपने अनुभव को बाह्य जगत् में प्रकाशित नहीं कर सकते। जीवन के रहस्य की तरह काव्य की भी अपनी एक समरणा है। काव्य एक प्रतीति के रूप में जितना रमणीय हो सकता है उतना प्रतिपादन के रूप में नहीं।

आग्रह और तर्क के बल पर काव्य का यश-विस्तार नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो काव्य हृदय पर अनायास ही कोई प्रभाव नहीं डाल सकता उसे किसी के समझाने-बुझाने पर भी विशेष शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। रवि बाबू ने अपनी अर्थ-बोध और तर्क 'जीवन-सृष्टि' में इस तथ्य पर बड़े मनोरंजक दंग से प्रकाश डाला है—'क्या कोई मनुष्य कुछ बात समझाने के लिये कविता किया करता है?'—वस्तुतः मनुष्य के हृदय में जो प्रतीति होती है वह काव्य के रूप में बाहर निकलने का प्रयत्न किया करती है। यदि ऐसी कविता को सुन कर कभी कोई यह कहता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं समझता तो उस समय मेरी मति कुंठित हो जाती है। फूल को सूंघकर यदि कोई कहने लगे कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता तो इसका यही उत्तर हो सकता है कि इसमें समझाने-जैसा है भी क्या; यह तो केवल भास-मात्र है। इस पर भी यदि यही कहे—'हाँ यह तो ठीक है, मैं भी जानता हूँ, पर इसका अर्थ क्या?' और इसी तरह बार-बार प्रश्न करने लगे तो उससे छुटकारा पाने के लिए दो ही मार्ग हैं—या तो उस विषय की चर्चा ही बदल दी जाय या यह सुगंध, पुष्प में विश्व के आनंद की धारण की हुई आकृति है, कह कर उस विषय को और भी अधिक गंभीर बना दिया जाय।

हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहले बुद्धि ने आक्रमण किया, तब धीरे-धीरे उस पर भाव भी संचरित होने लगा। मार्ग को बुद्धिवाद और वैचित्र्य प्रशस्त करने का काम बुद्धि करती है, भाव अनुचर के रूप में पीछे-पीछे चलता है। काव्य में बुद्धिवाद के प्रति अन्याय करने का साहस हम

नहीं रखते। हमारे इस कथन का तात्पर्य यह भी नहीं कि काव्य-निर्माण में पक्षपात के कारण बुद्धिवाद को हग विशेष गहराव दे रहे हैं। जो सङ्क एक बार बन जाती है, उसे नित्यप्रति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली जानेवाली रड़क हम से दिल्ली का परिचय नहीं बताती, उस सङ्क से चलकर ही हम दिल्ली को देख सकते हैं, उसके संबंध की बातें जान सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व की सीमा का विस्तार करना अवश्य ही बुद्धि का काम है, परंतु प्रत्येक भाव का नियंत्रण बुद्धि नहीं कर सकती। काव्य में बहुत-से स्थल ऐसे होते हैं जहाँ बुद्धि की अप्राप्यता पर ही हमें आनंद मिलता है। वैचिन्य या चमत्कार की बाते कभी-कभी बुद्धि केलिए अप्राप्य होते हुए भी युक्ति-संगत मालूम पड़ती हैं और अर्थ-बोध की दृष्टि से भी उसमे कोई वाधा नहीं दिखाई पड़ती। साहित्य-शास्त्र के विधाताओं ने वाच्यार्थ से अधिक महस्त्र व्यंग्यार्थ तथा लद्यार्थ को दिया है, पर यथार्थ रस तो वाच्यार्थ ही देता है। शब्द की इन तीनों शक्तियों का अंतिम उद्देश्य तथ्य-बोध है। कितु इसी बोध-वृत्ति को प्राप्त करने केलिए हमें भिन्न-भिन्न दिशाओं से जाना पड़ता है। ‘देश केलिए मर कर जीना सीखो’—इसमें लक्षणा कष्ट सहने का आदेश देती है, पर अभिधा तो लक्षणा के आदेश के साथ ही अतिरिक्त आनंद भी देती है जो काव्य की वारतविकर्ता है। ‘मरकर भी जीने’ के बदले ‘कष्ट सहकर भी जीने’ में काव्य की दृष्टि से आकाश-पाताल का अंतर पड़ जाता है। ‘मरकर भी जीना’ बुद्धि को अप्राप्य है, पर अभिधा की इसी अप्राप्यता में काव्य का वास्तविक अर्थ-बोध है—इसे कौन अस्तीकृत करेगा? काव्य में कुछ ऐसे प्रयोग भी

लक्षण के आधार पर टिके हुए हैं जो बुद्धि के लिए अग्राह्य रह कर भी भाव-संचरण में कोई वाधा उपस्थित नहीं करते। 'अमुक व्यक्ति का पार पाना कठिन है' या 'उसने मेरी बात काट दी'—ऐसे प्रयोगों पर विचार करने से मालूम पड़ता है कि अमुक व्यक्ति समुद्र तो नहीं है, किंतु उसके व्यापार ऐसे हैं जिनको अपनी शक्ति के भीतर लाना कठिन है। किसी की बात भी ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो तलवार या चाकू से काटी जा सके, पर ऐसे प्रयोग का अर्थ इतना ही है कि जैसे किसी वस्तु को काट देने से उसके एक दूसरे हिस्से का जो अविच्छिन्न संबंध है उसका विच्छेद हो जाता है उसी प्रकार किसी बात से उसके अनुसारी परिणाम या कार्य का जो संबंध है वह नहीं रहता।

शब्द-शक्ति के चमत्कार से बुद्धि की अग्राह्यता पर जो आनंद प्राप्त होता है उसका एक दूसरा पहलू भी है। काव्य में अर्थ-बोध और इसे हेत्वाभास कह सकते हैं। किसी भी कार्य हेत्वाभास का जो कारण दिया जाता है वह मूलतः किसी कारण के रूप में नहीं रहता। इससे अर्थ-बोध की दो भिन्न सत्ताएँ मालूम पड़ती हैं, किंतु स्थिति की प्रधानता के कारण एक सत्ता को प्रधान मान लेने पर दूसरी सत्ता स्वतः गौण हो जाती है और पाठकों को एक अभिनव रस का आस्वादन करा देती है। 'साकेत' की उर्मिला लक्षण के विरह से संतप्त होकर चौदह वर्ष के बनवास की अवधि को अपनी स्थिति के रूप में मिटा कर लक्षण से मिलने की कामना करती है। चौदह वर्ष की अवधि काल के स्वाभाविक संक्रमण के रूप में बीतेगी, लेकिन उर्मिला को ही यदि अवधि बनने की शक्ति मिली होती तो वह

कृष्ण-भर में ही चौदह वर्ष की अवधि बनकर समाप्त हो जाती। इस समाप्ति के बाद भी वह लक्ष्मण से मिलने की उत्कंठा रखती है। बुद्धिवादी यहाँ तर्क कर सकते हैं कि यदि उर्मिला चौदह वर्ष की अवधि बन कर स्वयं ही मिट जाती है तो किर लक्ष्मण से मिलन का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा? जब तक बनवास की अवधि पूरी नहीं होती तब तक लक्ष्मण से मिलन भी संभव नहीं। अवधि बीत जाने पर ही उर्मिला का सौभाग्य चमक सकता है; किंतु उर्मिला स्वयं अवधि बनकर मिट जाने को तैयार है। अर्थ के बाहरी आवरण को देख कर उर्मिला की यह कामना बड़ी असंगत मालूम पड़ती है, किंतु इसके आंतरिक अर्थ पर ध्यान देने से यह मालूम होता है कि उर्मिला को लक्ष्मण के मिलन की इतनी व्यग्र उत्कंठा है कि वह अपने अस्तित्व को भी विलुप्त करने को प्रस्तुत है। बुद्धिवाद के लिए इस प्रसंग में स्थान नहीं रहता। काव्य की रागात्मक प्रतीति का महत्त्व यहाँ इतना बढ़ा हुआ है कि लक्ष्मण का मिलन उर्मिला के अस्तित्व के मूल्य से बढ़ा हुआ है। हेत्वाभास के रूप में ऐसी असंगति का काव्य में कुछ कम प्रयोजन नहीं रहता।

काव्य के अर्थ-बोध के संबंध में एक दूसरे पक्ष पर भी विचार करना है। वाणी पर जब मनोविकारों का प्रभाव पड़ता है तब

उसमें स्वतः ताल और स्वर उत्पन्न होने लगते वाणी पर मनो-

विकार का प्रभाव हैं। यह ताल और स्वर भी अर्थ-बोध की दृष्टि

और अर्थ-बोध से काव्य के पद के समान ही महत्त्वपूर्ण है,

क्योंकि भिन्न-भिन्न मनोविकार प्रेम, हास, द्वेष,

आनंद, आश्र्वय आदि को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को अपनी

वाणी में थोड़ा-बहुत स्वर-ताल का अंतर देना पड़ता है। मनोविकारों की इस स्वाभाविक गति ने विकसित होकर संगीत-शास्त्र के विधान में बड़ी मदद पहुँचाई है। गान को जब पद का रूप दिया जाता है तब पद का महत्व बढ़ नहीं जाता, गान का लक्ष्य पद नहीं रहता, प्रत्युत् वह अर्थ-बोध के द्वारा मधुरता उत्पन्न करने का साधन-मात्र रहता है। जहाँ पद की पहुँच नहीं होती वहीं स्वर के कार्य का आरंभ होता है। अज्ञेय तथा सूक्ष्म भाव को विशद तथा तीव्र रूप में प्रकट करने की शक्ति गान में पाई जाती है। पदों के साधारण अर्थ को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए स्वर के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। काव्यगत प्रभाव को विशेष ज्ञानशाली बनाने के अभिप्राय से छंदों का विधान

राग से पद की किया गया है। धनुष पर चढ़कर जिस प्रकार वाण अधिक शक्ति-संपन्न और तीव्र बन जाता शक्ति-वृद्धि है उसी प्रकार राग के द्वारा पद विचित्र आकर्षण

और शक्ति प्राप्त करता है। अपने सामर्थ्य के बल पर जहाँतक पद नहीं पहुँच सकते, राग की सहायता से वे उस अज्ञात स्थान तक भी पहुँच जाते हैं। राग में मिलकर पद अपने वास्तविक अर्थ का प्रतिपादन करने लगता है। ध्वनि-सामंजरय के कारण छंद-बछ पदों से एक प्रकार का विद्युत् प्रकाशित होने लगता है जो हृदय को विमुग्ध कर देता है। काव्य और राग के विषय में इतना मानना पड़ेगा कि पहले तो राग को काव्य के अधीन रहना पड़ेगा किंतु जब राग की शक्ति विकसित हो जायगी तब काव्य उसके तत्त्वावधान में आ जायगा।

हृदय का भाव जब अपनी अकर्मण्यता को छोड़कर आनंद

और उत्साह से कर्मण्य बनकर जागरित होता है तब उसके कार्य-  
 केन्द्र का स्वरूप निश्चित होता है और फिर वह  
 असीम तथा ससीम जगत् की समस्त अविच्छिन्न वस्तु के संधान की  
 सत्य और अर्थ-बोध इच्छा करता है। इस प्रकार वह भाव असीम  
 की ओर जाने के लिए चेष्टा करता है। असीम से ससीम की  
 ओर भाव-धारा को प्रवाहित होने से काव्यगत सत्य की प्रतिष्ठा  
 होती है और तभी वह अपना अर्थ-बोध भी देता है। इस प्रकार  
 की भाव-धारा सदा नियंत्रित रहती है। नियंत्रण के अभाव में  
 सत्य का स्वरूप प्रकट नहीं किया जा सकता। जगत् के विस्तृत  
 केन्द्र में जो-कुछ है वह सब सत्य है, किंतु उसके द्वारा काव्य में  
 हम सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। जगत् का जो अर्थ-बोध  
 है वह जितना रहस्य-पूर्ण है उतना रहस्य-पूर्ण रहने से काव्य के  
 अर्थ-बोध की समस्या हल नहीं हो सकती। अपरिमित से निकल  
 कर जब हम परिमित की ओर आते हैं तभी हम काव्य में सत्य  
 की प्रतिष्ठा कर अर्थ-बोध दे सकते हैं। अपरिमित में सत्य नहीं  
 रहता, ऐसा कहना भ्रम-पूर्ण ही नहीं है, प्रत्युत् वहाँ हम अपनी  
 परिमित शक्ति के कारण सत्य को देखने की नमता नहीं रखते।  
 परिधि के अंतर्गत आए हुए सत्य में इतनी अधिक रमणीयता  
 उत्पन्न होती है कि वह हमारे हृदय को वरवस आकर्षित करती  
 है। समुद्र में नमक है, यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता,  
 किंतु एक चुल्ल समुद्र का पानी लेकर यदि यह कहा जाय कि  
 चुल्ल-भर नमक ही है तो पूर्णरूप से असत्य न होकर भी वस्तु-  
 स्थिति से यह कथन दूर ही रहेगा। अपरिमित को छोड़कर जब  
 सत्य अपने संकुचित रूप में, काव्य की एक परिधि के अंतर्गत,

आकर पुनः विस्तृत होने लगता है तब उससे अपने परिचय के कारण हम अभिनव आनंद प्राप्त करते हैं। समुद्र के खारे जल से नमक बनाकर जब हम मीठे पानी में घोलते हैं तब स्वाद के रूप में हमको अपनी चेष्टा का ही परिणाम मिलता है। इसी प्रकार समुद्र के जल का जो सत्य है वह तबतक अस्पष्ट रूप से अपना अर्थ-बोध नहीं देता जबतक हम उसको एक परिधि के भीतर न लाकर पुनः विस्तृत होने केलिए उसे छोड़ नहीं देते।

मनुष्य को साधारणतः अपनी वृत्ति, संस्कार या विचार-पद्धति के अनुकूल ही काव्य का बोध होता है। नवीन और तीव्र अनुभूतिपूर्ण काव्य के मर्म को समझने केलिए केवल विद्वत्ता या उच्च शिक्षा की अपेक्षा नहीं रहती, अभिव्यक्त करनेवाले हृदय के साथ जिसकी पूर्ण सहानुभूति रहेगी वही उस कविता के मर्म को अच्छी तरह समझ सकता है। जो कवि केलिए कुछ सहानुभूति नहीं रखता वह उसकी कृति के साथ न्याय भी नहीं कर सकता। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी प्रहण-शक्ति और भाव-व्यंजना-शक्ति बड़ी निम्न कोटि की होती है। उनकी प्रसन्नता और विषण्णता सर्वदा अतिशय मात्रा में होती है। इस प्रकार की मनोरचना वाले व्यक्ति निर्वल मानसिक शक्ति के होते हैं। उनके चित्त पर किसी साधारण बात का प्रभाव भी तीव्र रूप में पड़ता है। इसका कारण यह होता है कि ऐसे व्यक्ति को विचार करने की ज्ञमता नहीं होती। किसी की बात को धैर्य-पूर्वक सुनने पर विचार करने की ज्ञमता के अभाव में वे तत्काल भावावेग से क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसे कवि अपने पाठक या श्रोता को—जो कोई भी हों—काव्य के अर्थ-बोध के संबंध में स्थिति स्पष्ट

नहीं करा सकते। कुछ कवि यही समझ कर प्रसन्न होते हैं कि मेरी रचनाओं के समझनेवाले बहुत थोड़े हैं। वे अपने अस्पष्ट भाव को गम्भीर भाव ही रामझते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसे बहुत कवि हो गए हैं और वे 'वेद्यः सहदयेरथम्'—जो सहदय हैं वे ही इसे समझ सकते हैं—कह कर अपने पत्र का समर्थन करते हैं। ठीक इसके विपरीत कहनेवाले भी हैं जो 'वकुरेवहिदोषः स्याद् यत्र श्रोता न बुध्यते' श्रोता के कुछ न समझने पर वक्ता को ही दोषी बताते हैं। दोनों पक्षों में चाहे जितनी यथार्थता रहे, किंतु इतना तो निश्चित है कि यदि कला आपनी स्थिति में स्पष्ट न रहे तो अपना अर्थ-बोध नहीं दे सकती।

---

## द्वृढ़ा अध्याय

### काव्य की प्रेरणा-शक्ति

जीवन क्या है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर विवेचन तो बहुत हुआ, किंतु कोई एक निश्चित विचार अबतक प्रतिपादित नहीं किया जा सका। यदि जीवन और उसका जीवन और उसका उद्देश्य समझ लिया जाय तो उसकी गतिविधि का भी दिशा-ज्ञान हो जा सकता है। मानव जीवन एक ही साथ सामान्य और विशेष भी है। सामान्य इस दृष्टि से कि चित्त की जितनी वृत्तियाँ हैं उनकी चेष्टाएँ प्रायः

सब में एक रूप हैं और विशेष इस विचार से कि प्रत्येक मनुष्य अपना कुछ निजत्व तथा व्यक्तित्व रखता है। यदि ऐसा न होता तो असंख्य में एक की गणना संभव न होती। वैयक्तिक मनोविज्ञान मनुष्य के समस्त जीवन का निरीक्षण अपने दृष्टिकोण से करता है। इस मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जिस भाव से देखता है और उसका जो प्रयोजन समझता है उसी का साक्षी उसके जीवन का प्रत्येक कर्म होता है। यह एक तथ्य है कि लोग अपने कामों का समर्थन अपने भावों से करते पाये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है तो उसके प्रति सभी कामों में उसी भाव की छाप लगी रहती है। धृणास्पद के प्रति प्रत्येक कर्म के मूल में तदनुकूल भाव ही अंकित रहते हैं। मनुष्य के भाव उसके मूल दृष्टिकोण से सदैव संगति रखते हैं। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य का कोई काम शृंखलाबद्ध तथा युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता।

साधारणतः मनुष्य अपने जीवन का ध्येय लौकिक धन-संपत्ति, मान-मर्यादा, यश-प्रतिष्ठा, सुख-विलास, पुनर-संतान

आदि ही समझता है। इससे अधिक सोचने जीवन का ध्येय— की न उसे चिंता है, न अवकाश और न इच्छा आत्म-विस्तार ही। जीवन की ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं।

मनुष्य की इंद्रियों की बनावट भी बाह्यमुखी है। उनके छिद्र बाहर की ओर हैं। वे सहज ही अंतर्मुखी नहीं हो सकतीं। अतः

१. परांचि खानि व्यतृणत्वंसूक्ष्मात्पराङ् पद्यति नांसरात्मन् ।  
कश्चिद्दीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्त चक्षुसृष्टि त्वपिष्ठन् ॥

—कठोपनिषद्, २।१

अपनी अंतरात्मा के बदले सांसारिक विषयों की ओर वे अधिक प्रलुब्ध रहती हैं। स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जीवन जैसा है उससे निवृत्ति चाहना उसका पारलौकिक उद्देश्य हो जाता है। आध्यात्मिक लक्ष्य—परलोक—को प्राप्त करने के लिए जीवन—लोक—एक साधन-मात्र बन जाता है, और ऐसी दशा में जीवन की परिधि लोक में सीमित न रहकर वृहत्तर—उससे भी बढ़कर असीम—हो जाती है। यही कारण है कि मरणधर्मी मनुष्य अमृतत्व की आकांक्षा करता है, क्योंकि उससे आत्मविस्तार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। औसत मनुष्य को अपने जीवन का न तो कोई अर्थ मालूम होता है और न उसके किसी गूढ़ोद्देश्य का पता रहता है। विचार-बुद्धि का साधारणतः स्पष्ट संबंध न रखता हुआ ही उसका जीवन-व्यापार चलता है। मनोविश्लेषण से भी यह बात सिद्ध होती है । जीवन के पुरुषार्थ-चतुष्टय धर्म,

अर्थ, काम और मोक्ष में काम अपने साथ अर्थ  
विषयानंद और तथा धर्म को समेटता हुआ जीवन के विविध  
ब्रह्मानंद व्यापारों का प्रेरक है और मोक्ष जीवन का निवृत्ति-मूलक लक्ष्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जीवन के दो मुख्य ध्येयों में काम विषयानंद का तथा मोक्ष ब्रह्मानंद के

१. Among my patients from many countries, all of them educated persons, there is a considerable number who came to see me, not because they were suffering from a neurosis, but because they could find no 'meaning of life' or were torturing themselves with questions which neither present day philosophy nor religion could answer ..... I too had no answer to give.

C. G. Jung—Modern Man In Search Of A Soul, pp—266—7

प्रतीक हैं । संस्कृत काम अपना विकास दांपत्य या पारिवारिक जीवन में पाता है और उससे बढ़कर भी वह जीवन की लोकांतर्गत परिधि के भीतर ही रहकर व्यापार करता है । इस काम के पोपण तथा नियन्त्रण के लिए आर्थ और धर्म की प्राप्ति बांछनीय समझी जाती है । इस प्रकार काम धर्म, आर्थ तथा काम के रूप में—त्रिवृत् हो जाता है और भक्ति, योग तथा मोक्ष के समन्वय से मोक्ष भी इसी प्रकार एक दूसरे त्रिवृत् में आ जाता है ।

१. शंकरमत के यशस्वी प्रतिपादक विद्यारण्य स्वामी ने अपनी 'पंचदशी' में आनंद के कई वर्ग ब्रह्मानंद, निजानंद, विद्यानंद, विषयानंद, वासनानंद आदि किए हैं । आनंद का यह वर्ग-प्रपञ्च घस्तुतः कोई सार वस्तु नहीं है । उनकी दृष्टि में भी इसका विभाजन केवल तर्क के प्रयोजन केलिए ही है । उन्होंने लिखा है:—

तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यम् ।

आनंदौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वर्यंप्रभः ॥

—पंचदशी, ११, ८८

स्वर्यं-प्रकाश ब्रह्मानंद ही विषयानंद तथा वासनानंद को उत्पन्न करता है । तत्त्विरीयोपनिषद् (२, ५) के भाष्य में शंकराचार्य ने—'आनंद इति परंब्रह्म । तद्वि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थायमाने पुश्चमित्रादि विषय विशेषोयाधावन्तः करण वृत्ति विशेषे तमसा प्रच्छाद्यमाने प्रसन्नेऽभिव्यं-जते । तद्विषय स्मिति प्रसिद्धं लोके ।' आनंद परमात्मा का ही वाचक है । वही शुभ कर्म द्वारा प्रस्तुत किए हुए पुश्च-मित्रादि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि है उस प्रसन्न अंतःकरण के वृत्ति-विशेष में, जब कि वह तमोगुण से आच्छादित नहीं होता, अभिव्यक्त होता है । वह लोक में विषय-इच्छा के नाम से प्रसिद्ध है—लिखकर विषयानंद की लौकिक प्रधानता स्वीकृत की है ।

मनुष्य की भोग-लालसा अपने जीवन-पर्यंत ही सीमित नहीं रहती। वह अपनी लालसा का विकास-सूत्र अपने पुत्र-पौत्रादि भोग-लालसा तक बढ़ाना चाहता है। स्थूल भोग के बाद और उसके स्थूल सूदम भोग से ही मनुष्य की परिदृष्टि होती है। तथा सूक्ष्म रूप चिरकाल तक शाश्वत कीर्ति को प्राप्त करने केलिए कभी-कभी मनुष्य अपने जीवन का मोह भी छोड़ देने केलिए तत्पर हो जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में भी वस्तुतः जीवन का मोह छोड़ा नहीं जाता। स्थूल जीवन के बाद विश्व में अपने सूक्ष्म जीवन का अस्तित्व कीर्ति के रूप में वह चाहता ही है। ऋग्वेद-जैसे प्राचीन धर्म में भी ऋषियों ने शाश्वत जीवन को प्राप्त करने की प्रार्थना की है—हे इंद्र, तू हमें अन्तिमशब्द अर्थात् अक्षय कीर्ति या धन दे (ऋ० १, ६, ७), हे सोम, तू मुझे वैश्वत (यम) लोक में अमर कर दे (ऋ० ६, ११३, ८)। चिरकालिक भोग की यह कामना मनुष्य की स्वाभाविकता है। हमारी लोक-कल्याणकारी प्रवृत्ति के मूल में भी यही भोग-लालसा छिपी हुई है। मनुष्य सत्कर्म के नाम पर अनेक कष्टों का सहन करता है, जन-कल्याण के नाम पर जीवनोत्सर्ग तक कर देता है और ऐसे उत्सर्ग का, कभी-कभी, किसी महत्तर उद्देश्य से ही ढोल भी पिटवाया नहीं जाता, किंतु इसके भीतर बहुत छानबीन करने पर, अत्यंत प्रचंचन्न और ज्ञीण रूप से ही, एक भावना रहती है जो अपने कष्ट, उत्सर्ग आदि का अनुमोदन चाहती है। यदि यह अनुमोदन या स्वीकृति न मिले तो उत्सर्ग का कोई अर्थ भी नहीं समझा जाता। यदि मनुष्य अपने को प्यार नहीं करे तो जीवन में उसे कोई सौंदर्य नहीं मालूम होगा। उससे

## जीवन और कार्य

६४

कुछ भी लोकोपकारी कार्य नहीं हो सकेगा। “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति”—अपने लिए ही पति, पत्नी, पुत्र, वेद, धन, लोक आदि सब प्रिय मालूम पड़ते हैं । जगत् के किसी भी प्राणी या पदार्थ में जबतक अपनी सत्ता का कोई चिह्न न मालूम हो तबतक उसको प्राप्त करने, उसके संरक्षण या उसके संबंध में किसी प्रकार का भी भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होता ।

स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ तीनों की भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं । स्वार्थ के बिना व्यक्ति का जीवन-धारण असंभव है, परार्थ के बिना समाज-विधान अनिश्चित है और स्वार्थ, परार्थ परमार्थ के अभाव में लोक-कल्याण की भावना और परमार्थ का विकास ही नहीं हो सकता । जीवन के पोषण, बढ़न तथा विकास के सभी तत्त्व हृदय की वृत्तियों के रूप में वर्तमान हैं । स्वार्थ व्यक्तिवाद का उत्पादक है और १. वृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवलक्य-मैत्रेयी-संवाद में इस तथ्य का बड़ा रमणीय प्रतिपादन किया गया है—

‘न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मन्स्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मन्स्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्यात्मन्स्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवत्यात्मन्स्तु कामाय लोकाः प्रिया भवति । न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवत्यात्मन्स्तु कामाय वेदाः प्रिया भवति । न वा अरे सर्वत्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मन्स्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ।’

—दृष्टि० अप०, ४, ५, ६ ।

परार्थ समाजवाद की स्थापना करता है। इन दोनों से बढ़कर परमार्थ है जो हमारी दृष्टि की परिधि को विस्तृत कर विश्वबंधुत्व की सीमा पर पहुँचा देता है। मूल रूप में मनुष्य स्वार्थी है, इसी कारण परार्थ और परमार्थ के अंतर्गत कहीं-न-कहीं स्वार्थ अवश्य छिपा बैठा पाया जाता है। जबतक स्वार्थ की प्रेरणा न हो तबतक जीवन में कोई क्रिया, कोई दृंद्र लक्षित नहीं होता। महत् प्रेरणा-शक्ति पाने के लिए महापुरुष भी स्वार्थ मान कर ही परार्थ का संपादन करते हैं । मनुष्य की यह उत्कोच-प्रियता स्वाभाविक है, चाहे वह स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म में। भूमि, द्रव्य, वस्तु आदि की प्राप्ति स्थूल स्वार्थ है और यश, प्रशंसा, कीर्ति आदि सूक्ष्म स्वार्थ हैं। स्थूल से सूक्ष्म सदा तीव्र तथा व्यापक होता है। भारतीय भावना के अनुसार यशोकांशी महत् माना जाता है, क्योंकि उससे लोक-कल्याण की संभावना बहुत बनी रहती है। जो यश का इच्छुक है उसके व्यापार भी वैसे ही होंगे जिनसे लोक की सुख-समृद्धि बढ़े। यश-लिप्सा में आसन्ति कुछ बढ़ी रहती है, किंतु इसका अतिरेक न किया जाय तो घबड़ाने की आवश्यकता नहीं। घबड़ाने और चिंता करने की बात तब हो जाती है जब जीवन की सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए यश तथा प्रशंसा के व्यापार चलाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वार्थ तो प्रधान लक्ष्य रहता है, किंतु अपने जीवन की सुगमता को ठगकर लेने के लिए लोक-कल्याण का आवरण ओढ़ लिया जाता है। स्वार्थ की यह असाधु प्रकृति है।

१ स्वार्थोऽहि यस्य परार्थः स एव अग्रणी पुमान् ।

सद्‌प्रवृत्ति की भी एक मर्यादा मानी गई है। यदि परार्थ या परमार्थ को ही जीवन-लक्ष्य मान लिया जाय तो गति आगे

नहीं बढ़ सकती। परार्थ या परमार्थ के साधन स्वार्थ—जीवन के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा स्वार्थ पर ही क्रेक और समाज-शास्त्र दिकती है—‘शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्’—सब धर्मों का साधन शरीर ही है। किंतु प्रश्न है पूँजी के उपयोग का। अपनी पूँजी की रक्षा करते हुए लोक-कल्याण में प्रवृत्त होना धर्म-संगत है और प्रकृति-संगत भी।

किसी भी बात की अति न हो, इसको बचाने के लिए मध्यम मार्ग पकड़ना चाहिए। जिस बात, जिस उपाय से अधिकांश लोक का अधिकतम हित हो वही सत्य है १। इस भारतीय भावना की पश्चिमी प्रतिध्वनि मिल के उपयोगितावाद २ के रूप में हुई। व्यक्ति-भेद की दृष्टि से पूर्व और पश्चिम के जातीय संस्कार भिन्न-भिन्न ही बने रहे। भारतीय मनुष्यत्व त्रिमूर्त्यात्मक है। उसमें पति, पत्नी तथा संतान तीनों के समन्वित अवयव की भावना समाज का विधान करती है, परंतु पश्चिमी समाज-शास्त्री व्यक्तिगत सत्ता को ही समाज का आरंभक अणु मानते हैं। भारतीय जीवन की यह विशेषता उसकी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, वैराग्य, मित्रता, शत्रुता आदि सब में पाई जाती है। पूर्व और पश्चिम के मूल में जो अंतर है वह दोनों की विस्तार-

१. आश्रयेन मध्यमां वृत्तिमति सर्वत्र वर्जयेत् ।

यस्तोकद्वितमत्यर्तं तत्सत्यमिति न श्रुतम् ॥

—महाभारत, शांतिं०

2. Mill—Utilitarianism.

परिधियों में भी स्पष्ट है। ऋषि-कल्प भारतीय सामाजिकता समस्त मानवता को अंगीभूत कर लेती है, लेकिन पश्चिमी सामाजिक भावना राष्ट्र के नितिज के बाहर न जा सकी हैं।

समस्त सेंद्रिय जीव को दो आवश्यकताएँ सदा रहती हैं—  
प्रसव और पोषण। प्रसव के लिए एक दूसरे का सहयोग

अपेक्षित होता है और पोषण के लिए जीवन सेंद्रिय जीव की में ढंग्डं करना पड़ता है, एक दूसरे का संहार आवश्यकताएँ—  
प्रसव तथा पोषण होता है। जीवन की सारी विविधताएँ इन दोनों तत्वों पर केंद्रित हो जाती हैं। इनके

अतिरिक्त जीवन में जो भावनाएँ, जो आकांक्षाएँ होती हैं और मानी जाती हैं वे भी प्रसव तथा पोषण के नाना रूपांतर ही मानी जा सकती हैं। अस्तित्व की रक्षा और विकास की दृष्टि से जीवन में अगणित पाप-पुण्य का सूजन-विसर्जन करना पड़ता है। अस्तित्व का निश्चय होते ही उसकी वृद्धि तथा विकास की चिंता होती है। अपने पाँवों पर अच्छी तरह खड़ा होने के पहले ही बालक चलने की चेष्टा करने लगता है। आत्म-विस्तार की यह भावना मनुष्य के प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म में रहती है। व्यापक रूप से जो अपना आत्म-विस्तार करता है वह चराचर में एक आत्मरूप देखता है। समस्त मानव-समाज को विश्व-बंधुत्व की भावना से देखना यही दृष्टिकोण है। जिसमें हृदय की इतनी विशालता नहीं होती, वह एक छोटी-सी मानव-परिधि के भीतर ही ज्ञाना, दशा, स्नेह, कृपा, त्याग, उपकार आदि के द्वारा अपने अस्तित्व की सत्ता को दूसरों पर प्रत्यक्ष कर अपनी वृद्धि और व्यापकता बढ़ाता है।

काव्य में मनुष्य अपने आत्मविस्तार के द्वारा समस्त मानवता को एक सामान्य कोटि के भीतर लाता है। “अविभक्तं अनेकता में विभक्तेपु”—अनेकता में एकता देखना काव्य की अपनी दृष्टि है। साधारणीकरण का यही प्रक्रिया काव्यगत तात्पर्य है। एक जीवन में जो भावनाएँ, कल्पनाएँ, संकल्प, विकल्प हैं वे दूसरों में भी प्रायः उसी प्रकार क्रियाशील रहते हैं। जितने नैसर्गिक भाव हैं वे आत्म-विस्तार की भावना से ही उत्थित होते हैं और जितने बुरे भाव हैं वे आत्म-संकोच करते हैं। पाप एक अनुभव है, किंतु पुण्य एक शक्ति है। क्रोध और लोभ के ही तात्त्विक स्वरूप के विरहेपण से इसका पता चल सकता है। अपने दुख के किसी सजीव कारण को जान कर उसके प्रति मन में जो विकार पैदा होता है उसे क्रोध कहते हैं। अपने दुख से, अपनी प्रत्येक भाव हानि के कारण, हम दूसरों पर उबल पड़ते हैं के दो पक्ष और इस प्रकार क्रोध से हम अपने अस्तित्व को यथावत् रखने की चेष्टा करते हैं। क्रोध का एक और स्वरूप है जो अधिक विस्तृत तथा व्यापक होता है। अपनी व्यक्तिगत कुछ हानि न होने पर भी लोक-कल्याण की दृष्टि से दुष्टों पर क्रोध किया जाता है। ऐसा क्रोध दैवी सम्पद है, किंतु वहाँ भी लोक-कल्याण के साथ आत्म-संबंध लगा हुआ है। यदि लोक में अपना आत्म-विस्तार न किया जाय तो उसके कल्याण की भावना ही कैसे उठ सकती है! क्रोध का यह सात्त्विक रूप जगत् में दुर्लभ रहता है। लोभ अपने जीवन की रक्षा तथा पोषण के लिए किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है। ऐसी इच्छा

संकुचित समझी जाती है, पर होती है बड़ी वेगवती। जगन् के कल्याण के लिए भी किसी वस्तु को प्राप्त करने का लोभ होता है, पर ऐसा लोभ तो विशेषतः दुर्लभ है। क्रोध और लोभ के आलंबन में चेतन और जड़ का भेद आवश्यक है। जड़ पर क्रोध व्यंजित करना जड़त्व का सूचक है और चेतन पर लोभ करना प्रेम का परिचायक। इस प्रकार क्रोध और लोभ के विश्लेषण से उनके दोनों पक्ष दिखाई पड़ते हैं। जितने भी बुरे भाव हैं और जो शास्त्रीय पद्धति से घटूरिपु के नाम से पुकारे जाते हैं उनका उपयोग भी देश-काल-पात्र के अनुसार मंगलमय किया जा सकता है और अच्छे भावों का भी दुरुपयोग तदनुकूल हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर के राग और द्वेष की हृषि से दो विभाग हो जाते हैं। काम, लोभ तथा मोह राग-पक्ष के और क्रोध, मद तथा मत्सर द्वेष-पक्ष के अंतर्गत लिए जाते हैं। प्रकृति में आकर्षण और विकर्षण का जो नियम है वही जीवन में राग और द्वेष के नाम से माना जाता है।

प्रत्येक मानव हृदय की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अधिकतर अपनी व्यापकता बढ़ावे और उसके साथ ही दूसरे जीवन की क्रियाओं से अपने व्यक्तित्व की एकनिष्ठा बचाने व्यापकता और की चेष्टा भी करता रहे। विस्तारण और संकोचात्मक प्रभाव से चन, आकर्षण और विकर्षण के मध्य में मनुष्य अपनी रक्षा का जीवन प्रतिक्रिया अतिवाहित होता है। अपने भाव, अपने विचार से दूसरों को व्याप कर अपनी मर्यादा के विकास की लालसा जितनी तीव्र रहती है, बाह्य प्रभाव से अपनी रक्षा की चिंता भी उससे कम नहीं होती। दूसरे के ऊपर अपना

प्रभाव स्थापित करना अपने अस्तित्व की विजय समझी जाती है। जो दूसरों का आकर्षण करता है वह अपनी प्रतिष्ठा को भी निश्चित रखना चाहता है। जीवन का यह दृष्टि वहुत शमताशील है। जो निर्वल है, अत्म है वह अपने अस्तित्व की रक्षा, अपनी विशेषता की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। महापुरुष के व्यक्तित्व के आकर्षण से स्थिरकर साधारण मनुष्य अपने भाव-विचार को समर्पित कर देता है और इस प्रकार जीवन की सारी कर्मण्यता को ही वह उसी आदर्श की ओर उन्मुख कर देता है। आत्म-विस्तार का यह आध्यात्मिक रूप है। जाति और देश की बढ़ी-चढ़ी शिक्षा, सभ्यता, संस्कार, शक्ति के कारण दूसरी जाति तथा देश अपने विशेषत्व का निर्वाह नहीं कर सकते और अंत में इच्छा या अनिच्छा से उन्हें आत्म-समर्पण करने को बाध्य होना पड़ता है। महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति रहने पर भी राव में वैसी मनीषिता नहीं होती।

साधारण जन अपने जीवन की गति-विधि के लिए ऐसा कुछ बना-बनाया नियम चाहता है जो उसे दिशान्तरुत होकर इधर-उधर भटकने न दे। सब के पास न साधारण जीवन इधर-उधर भटकने न दे। गवेषणा की शक्ति रहती है और न नियम-विधान और नियम-विधान की प्रथाम बुद्धि। नियम भी स्वतः पूर्ण नहीं होता। उसे भी अपनी स्थिति के लिये पिछले अनुभवों का आधार लेना पड़ता है। ऐसी दशा में यह आशा ही कैसे की जा सकती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने वर्त्तने के लिए कुछ-न-कुछ नियम बना लेगा। यदि ऐसा संभव होता तो जातीय जीवन में अभी जो एकरूपता देखने में आती है, वह नहीं दिखाई

देती। जातीय जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य की यह कृपा नहीं, उसकी असमर्थता है। उसे अपने अस्तित्व केलिए दूसरों का आधार लेना ही पड़ता है। आकांक्षा, चिंता, वासना आदि से प्रताङ्गित जीवन में मनुष्य सदैव अपनी विचार-शक्ति को स्थिर नहीं रख सकता। वह अतीत जीवन का कोई ऐसा सूत्र चाहता है जो उसका मार्ग-प्रदर्शन करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार मार्ग-प्रदर्शन के कठिन कर्म से अपनी शक्ति और ओज को बचाकर वह अपने जीवन तथा जगत् के द्वंद्व में लगता है। उसकी एक स्वाभाविक निर्बलता यह भी होती है कि वह अपने तर्क, निर्णय, विचार को सर्वांशतः पुष्ट तथा निर्विवाद नहीं समझता। इसी कारण बहुधा वह अपने निर्णय को आर्ष वचन के अनुकूल या किसी परंपरा से समर्थित समझाने की चेष्टा करता है। मनुष्य अपनी दुर्बलता को भी किसी सिद्धांत पर या किसी महापुरुष के चरित्र-होष की ओट दे देता है। जीवन की इसी असमर्थता से परंपरा चलती है और जातीय जीवन में एकलृपता आती है।

मनीषी और ज्ञमताशील पुरुष को अपने आत्म-विस्तार में ही यथार्थ सुख मालूम पड़ता है। हमारी भावनाएँ जब दूसरे आत्म-विस्तार के हृदय में पहुँच कर स्थान पाती हैं, रमण करती हैं, तब हमें आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार का प्रयत्न अपनी सत्ता को व्यापक बनाकर जगत् के अगु-परमाणु के साथ तादात्म्य कर देने से 'भूमा' सुख मिलता है। जीवन की यह परमावधि और अंतिम लक्ष्य है। सृष्टि के साथ अपनी सत्ता के एकात्म्य का अनुभव ही सत्य है और उसी स्थिति

में जगत् तथा मानवता के लिए आत्मोत्सर्ग करना सरल हो जाना है, क्योंकि उस गमय व्यक्तित्व रांकुचित नहीं, निरसोभ रहता है। मरण से भीत होने का कारण जीवन का मोह है, उसके अंत की अनिच्छा है, किंतु जब इरा मोह का संकुचित आवरण हट जाता है तब न वह भोह रहता है और न वह अनिच्छा ही बनी रह पाती है। अनंत सत्ता के साथ अपने व्यक्तित्व को मिला देने में जीवन का अंत नहीं होता, प्रत्युत् वह भी अनंत ही हो जाता है। मृत्यु सीमा की होती है, असीम तथा अनंत की नहीं। जीवन का परम उद्देश्य ही अभिव्यक्ति करना है। व्यक्ति से यही तात्पर्य है। अपनी भौतिक सीमा को असीम के साथ मिलाना है। भौतिकता के पोषण को ही लक्ष्य बनाना भाषा को केवल व्याकरण-विधान मानना है। व्याकरण की सार्थकता भाषा को गति देने में है, उसे अवरुद्ध करने में नहीं। भौतिक जीवन भी एक साधन है जो सृष्टि में अपनी गति का प्रयत्न करता है।

मनुष्य के अंतःकरण का स्वरूप जैसा होता है उसकी भावनाएँ भी तदनुरूप ही होती हैं। ‘अनंत वै मनः। अनंतः अंतःकरण और विश्वेदेवाः’। मन की अनंत वृत्तियाँ होने के उपर्युक्त कारण इस जगत् में भी अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। उन अनंत मानसिक वृत्तियों के आधार पर ही मनुष्य १ अपनी कलात्मक अभिरुचि का परिचय

१. मनुष्य-संज्ञा के लिए यात्क ने अपने निरूप में जो व्युत्पत्त्यार्थ दिया है वह इस प्रकार है—‘मनुष्यः कस्मान्मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनस्य मानेन सृष्टा’ (निरूप ३।७।१) मनुष्य र्घों नाम पड़ा ? परिणामादि का विचार कर कर्मार्थ फरने के कारण मनुष्य-संज्ञा प्रसिद्ध हुई।

सृष्टि रूप में देता रहता है। यह एक सत्य है कि स्थूल से सूक्ष्म अधिक व्यापक तथा अधिक चिरंतन होता है। काव्य की प्रेरणा एक सूक्ष्म अंतर्वृत्ति है। भाव सूक्ष्म है, कल्पना सूक्ष्म है, इसी कारण उसका प्रभाव भी शाश्वत और अंतर्व्यापी होता है। स्थूल भी जब हृदय पर प्रभाव-संपन्न होता है तब सूक्ष्म भावना के बल पर, सूक्ष्म कल्पना के रूप में ही गतिशील रहता है। काव्य का यही सारतत्त्व है। अनादि से अनन्त जीवन का सम्बन्ध-सूत्र इसी सूक्ष्म तंतु पर अवलंबित रहता आया है। बुद्धि सहजानुभूति से गौण है, सिद्धांत अनुभव से और बाह्य अभिव्यक्ति अंतर्वृत्ति से। काव्य जीवन-प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता-जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव-जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। इसी कारण काव्य किसी देश, जाति या वर्ग-विशेष कर प्रतिनिधित्व नहीं करता। समस्त मानव जीवन की अनुभूति होने के कारण ही वह इतना व्यापक तथा रस-ग्राह्य होता है।

जीवन की गहन अंतर्वृत्ति के मूल में जो द्रंद्व लिपा है उसके विवेचन से ही जगत् के नाना व्यापार की प्रेरणा है। बुद्धि मनोवृत्तियों का नयन है, प्रेरक नहीं। मनुष्य अंतःकरण और चित्त का कोई भी काम बुद्धि की शुद्धता के अभाव में पवित्र नहीं हो सकता। मन और बुद्धि के अतिरिक्त अंतःकरण और चित्त शब्द भी ऐसे हैं जिनसे जगत् के विधायकत्व का परिचय मिलता है। अंतःकरण का अर्थ भीतर की ओर है, अतः उसमें सामान्यतः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार

आदि का समावेश हो जाता है, पर जब मन बाह्य विषयों का ग्रहण या चित्त करने लगता है तब वह चित्त हो जाता है । अहंकार बुद्धि का ही एक भाग है । मानव अहंकार का सूक्ष्म यंत्र रखा ही इसलिए गया है कि मनुष्य इस विलक्षण पार्थक्य और वैशिष्ट्य को दृढ़ तथा केंद्रीभूत करे । मनुष्य में जो कुछ है, अंतःकरण और उसके धर्म, शरीर और उसके धर्म, सब उसकी प्रकृति से ही विहित है । व्यवसायात्मक बुद्धि तथा वासनात्मक बुद्धि दोनों में एक गुण-समीक्षा करती है और दूसरी कर्म की इच्छा उत्पन्न करती है ।

व्यवसायात्मक बुद्धि और अहंकार दोनों व्यक्तगुण जब मूल साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं तब प्रकृति की एकता मूल प्रकृति और बनी नहीं रह पाती और अनेक पदार्थों की इंद्रियाँ उत्पन्नि होने लगती हैं । जब इस प्रकार मूल और अवयव-रहित एक ही प्रकृति में उन गुणों का आविर्भाव होने लगता है तब विविध और अवयव-सहित

१. पातंजल योगदर्शन के अनुसार चित्त का अवस्थान इस प्रकार बताया गया है—नाभि के ऊपर दश अंगुल परिमित देश में अष्टदल रक्त वर्णवाला एक पंच छिद्र-युक्त कमल है । इसी का याम हृदय-पद्म है । इस कमल का मुख नीचे की ओर तथा उसकी मृणालिका ऊपर की ओर है । इस अधोमुख पद्म को प्रथम रेख क्राणाथाम के अभ्यास से ऊर्ध्वमुख तथा प्रफुल्लित किया जाता है । इस ऊर्ध्वमुख पद्म के मध्य में सूर्य-मंडल ‘अ’ कार तथा जाग्रत स्थान है; उसके ऊपर चंद्र-मंडल ‘उ’ कार तथा स्वप्न स्थान है, उसके ऊपर वह्नि-मंडल, ‘म’ कार तथा द्वष्टुसि स्थान है । उसके भी ऊपर आकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद तथा अर्द्धमात्र तुरीय स्थान हैं । हृदय-कमल के बीजकोश में ऊर्ध्वमुखी एक ब्रह्मनाड़ी है जिसे सुष्मना कहते हैं । यद्युचित का निवास-स्थान है ।

द्रव्यात्मक व्यक्तरूप प्राप्त हो जाता है। मूल प्रकृति के अहंकार के कारण दो शक्तियाँ जाग्रत् होती हैं जिनमें सेंद्रिय प्राणी की सृष्टि तथा निरिद्रिय पदार्थ बनते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी शक्ति से जब भिन्न-भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है तब सच्चगुण के उत्कर्ष से पाँच ज्ञानेद्रियों, पाँच कर्मेद्रियों, एक मन कुल ग्यारह और तमोगुण के उत्कर्ष से निरिद्रिय सृष्टि के पाँच तन्मात्राद्रव्य उत्पन्न होते हैं। यदि बुद्धि और अहंकार को निश्चेष्ट रहने दिया जाय तो जगत् के विविध व्यापार की प्रेरणा भी निश्चेष्ट-सी पड़ी रहेगी। सूदम विश्लेषण से यह पता चलता है कि भाव भी बुद्धि की प्रतिक्रिया-मात्र है। ज्ञान ही हमारी सीमा है। मस्तिष्क में जबतक बाह्य जगत् का कुछ विकार उत्पन्न नहीं होता तबतक मन में भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार मानसिक विकार सदा एक प्रतिक्रिया के रूप में ही उत्पन्न होता है । जगत् और जीवन के व्यापार मुख्यतः मनुष्य की बाह्य परिस्थितियों पर अवलंबित हैं।

व्यक्तिगत जीवन की तात्त्विक विवेचना करने पर बहुधा यह पता चलता है कि प्रिय-से-प्रिय मित्र के हृदय में भी कुछ ऐसी

१ बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धिरेवात्मनोगतिः ।

यदा विकुरते भावं तदा सवति सामनः ॥

[म० भा० ज्ञान० २६४]

बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा की गति, आत्मा का स्फुरण, आत्मा की ज्योति का ही नाम बुद्धि है। बुद्धि ही जब किसी विशेष भाव को पकड़ती है तब मन हो जाती है।

भावनाएँ स्थित हैं जो जान लेने पर हमें उससे घृणा करने को वाध्य कर सकती हैं और परम-से-परम शत्रु के हृदय में भी व्यक्तिगत जीवन और प्रचलन कुछ ऐसी भावनाएँ रहती हैं जिनका पता यदि लग जाय तो हम उसे प्यार करने से अपने को रोक नहीं सकते। द्रव्य और भावना से निर्मित जीवन में समान तत्व की स्थिति से ही हमें भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व में भी मूल प्रकृति की एकरसता मालूम होती है। हमारे हृदय में जब कोई मनोविकार उत्पन्न होता है और उसका प्रभाव किसी दूसरे हृदय पर पड़ता है तभी कोई प्रतिविकार उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत जीवन के विकास में जिसकी इच्छा जितनी ही तीव्र होती है वह व्यक्ति उसके अनुरूप ही उतना विशेष बनता है। महत् व्यक्तित्व और कुछ नहीं, महादिच्छा है। मनुष्य-जीवन के उत्थान-पतन का रहस्य उसके मन में ही है। जीवन में सुख-दुख का जो इतना संशय दिखाई पड़ता है वह जीवन के साथ जब अपना संबंध-विच्छेद कर लेता है तब उस सुख-दुख को निराश्रित हो जाना पड़ता है। अपने अस्तित्व को उससे पृथक् समझ लेने पर न दुख रहता है, न सुख। किंतु सामान्य जीवन में ऐसी विदेह-वृत्ति संभव नहीं होती। स्वप्न में हमें जो सुख-दुख भोगना पड़ता है वह जाग्रदवस्था में नहीं होता, क्योंकि स्वप्न का जो अहम् है वह जगने पर बढ़ता जाता है। इसी कारण स्वप्न की सारी भावनाएँ जाग्रदवस्था की भावनाओं के साथ स्पष्ट संबंध नहीं रखतीं। हम जो कुछ करते हैं वह किसी कारण से और जबतक उस कारण से हम मुक्त नहीं होते तबतक उस कर्म के कारण से भी हमारा पिंड नहीं छूट सकता।

मनुष्य के हृदय में जितनी भावनाएँ उठती हैं उनकी परिणति प्रत्यक्ष जीवन में एक दूसरे ही ढंग से हुआ करती है। मनुष्य

कल्पनात्मक  
तथा क्रियात्मक  
भाव

की बहुत-सी उदार भावनाएँ अपनी कल्पनात्मक सत्ता को छोड़कर बहुधा क्रियात्मक रूप प्राप्त नहीं कर सकती। संसार में ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो हृदय के उदार कहे जाते हैं, किंतु उनकी उदारता सर्वत्र और सर्वांशतः जीवन के कठोर सत्य को प्रहण नहीं कर सकती। जिसके हृदय में अगाध करुणा है, अपरिमित ममता है वह भी अपनी करुणा और ममता को जगत् के कल्याण-साधन में प्रवृत्त नहीं कर पाता। उसके सामने ऐसी बहुत-सी वाधाएँ आ खड़ी होती हैं जिनके कारण वह अपनी भावनाओं को क्रिया-तत्पर नहीं कर सकता। बहुत कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाओं को पढ़ने से देश तथा जाति के प्रति अतुल भक्ति भलकर्ती है, किंतु प्रत्यक्ष जीवन-संग्राम में वे कुछ नहीं कर पाते। उनकी रचनाएँ देश-भक्ति, जाति-प्रेम के नाम पर बड़े सम्मान के साथ जनता की जिह्वा पर विराजती हैं, किंतु बाँसुरी बजानेवाला कवि लाठी लेकर खेतों की मेंढ पर नहीं जाता। अपनी वाणी के द्वारा जो कुछ भाव प्रकाशित किया गया रहता है उसके अतिरिक्त कुछ करने की प्रेरणा उन्हें नहीं होती। इस प्रकृति के कुछ अपवाद भी हैं जैसे कुछ और नियमों के हुआ करते हैं। भावों की जो विशिष्टता है वह क्रिया की विशेषता से अलग है। मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान् क्यों न हो, अपने देश, जाति की दुर्दशा का चाहे कितना भी ज्ञान उसे क्यों न हो, किंतु जबतक उसकी क्रियात्मक मनोवृत्तियाँ जाग्रत् नहीं होतीं

तबतक वह कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। कल्पनात्मक भावना से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, परंतु रचनात्मक मनोवृत्ति के आभाव में हम स्वयं प्रेरित नहीं हो सकते।

भावाधिक्य के समय मनुष्य बाणी और किया दोनों रूप से अपने को प्रकट करने की चेष्टा करता है। यदि प्रवृत्ति में तीव्रता नहीं रही तो साधारणतः वह बाणी या किया दोनों में से एक के द्वारा ही अपने मनोभाव को प्रकट करता है। लेकिन तीव्र मनोभाव को इससे परितोष नहीं होता, वह अपने को प्रकट करने के लिए जितने भी साधन संभव हो सकते हैं उनका उपयोग करता है। प्यार या घृणा करना यदि साधारण स्थिति में है तो बाणी के रूप में या अनुभाव के द्वारा दिखलाया जा सकता है, किंतु उसमें थोड़ी-सी भी उष्णता रहने पर चेष्टा बदल जाती है। अनुकूल किया के साथ-साथ जब बाणी के रूप में “मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं तुमसे घृणा करता हूँ” के उद्भार निकल पड़े तब समझना चाहिए कि भाव साधारण स्थिति में नहीं है, उसमें क्रिया-तत्पर होने के लिए पर्याप्त शक्ति आ गई है। क्रोध की साधारण स्थिति में मनुष्य या तो केवल गालियाँ बकता है या मारपीट कर बैठता है, लेकिन क्रोधावेश में वह दोनों ही करता है। उस समय ऐसा मालूम होता है जैसे उसने आसमान का ही अपने सर पर उठा लिया हो।

भाव को जब संचरण का लेने नहीं मिलता तब वह लौट कर हँड़े में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जीवन में घृणा से प्रेम

और प्रेम से घृणा के व्यापार देखे गए हैं। प्रिय में जब भावुकता को विकास का द्वेष नहीं मिलता, उसका वहाँ सत्कार नहीं होता तब तिरस्कृत भावुकता हृदय में वापस आकर विद्रोह करती है। घृणा का भाव घृणास्पद में पहुँच कर जब अपना अनुकूल बातावरण नहीं बना सकता तब वह भी मन में प्रतिविकार उत्पन्न करता है कि उसका उपयोग समुचित तथा यथास्थान नहीं हुआ। एक सीमा तक यदि प्रवृत्ति को अपने विकास के लिए द्वेष नहीं मिला तो शरीर और मन पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उस प्रवृत्ति का संस्कार मलिन होने लगता है। भारतीय शास्त्रों ने इसी कारण धर्म का भी एक प्रवृत्ति-प्रधान रूप माना और जीवन में उसके द्वेष की व्यवस्था कर दी है। जहाँ भाव को क्रिया के रूप में गति नहीं मिलती वहाँ वह आशा, आकांक्षा, उत्सुकता बनकर बौद्धिक चेतना की परिधि के भीतर शक्ति-संचय करता है और इस प्रकार धीरेधीरे जीवन को निष्क्रिय तथा कल्पनाशील बना देता है। आधुनिक मानव जीवन में यह बात अधिकतर देखी जाती है। काल्पनिक भावुकता का यही मूल है। जीवन के बहुत-से सुख-दुःख का अस्तित्व केवल काल्पनिक आधार पर ही टिका रहता है। एक मामूली-सी बात, एक छोटी-सी घटना जो थोड़े-

१. India has known for centuries what Freud is popularising in Europe that repressed desires are more corrupting in their effects than those exercised openly and freely.

Sir S. Radhakrishnan :—The Hindu View of Life. p. 83,

से धैर्य, तनिक-सी शांति के अवलंबन से मिटाई जा सकती है एक बवंडर की तरह फैल जाती है और केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, समस्त देश, जाति, समाज को भी उद्घेगशील बना देती है।

जीवन में कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भावों की विवेचनात्मक समीक्षा करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि काव्य में हमारा

भाव निष्क्रिय तथा आपद्-रहित रहता है, परंतु प्रत्यक्ष जीवन और काव्य में भावों की परिणति क्रियात्मक जीवन में वह सक्रिय और आपद्-संभावित हो जाता है। काव्य के किसी करणापूर्ण अंश को पढ़कर या सुनकर बैठे-बैठे ही हम अपनी विभूति विखेर दे सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में बिना सक्रियता के यह संभव नहीं। अपनी करण की मर्यादा-रक्षा के लिए हमें हाथ-पैर हिलाना पड़ता है, धन-संपत्ति का त्याग भी संभावित रहता है। इसी कारण अपने स्वत्व का त्याग प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येक दशा में मनुष्य नहीं दिखा सकता। यों तो संसार में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कल्पनात्मक करण के आधार पर भी किसी दुखी-विपन्न के साथ मौखिक सहानुभूति नहीं दिखा सकते। यह मनुष्य की सामान्यता नहीं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब भाव का ज्वारआता है और क्रिया-तत्पर होने की प्रेरणा होती है तब मनुष्य अपने को अपनी सीमा के भीतर रखने में समर्थ नहीं हो पाता और वह अपने भाव के अनुसारी परिणाम को भोगने के लिए, अपने स्वत्व का परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। कल्पनात्मक भावों से जिसे संतोष नहीं होता वह क्रियात्मक

पक्ष के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसकी कहणा काव्य में ही सीमित नहीं रह सकती वह बाहर में भी अपना वैभव दिखलाता है। जो अपनी निष्ठुरता को कल्पना-जगत् में ही बँधा नहीं रख सकता वह समर्थ रहने पर प्रत्यक्ष जगत् में भी उसका प्रदर्शन करता है। मनुष्य के हृदय में कुछ भाव विलास के रूप में अलंकृत रहते हैं और कुछ क्रिया की विशेषता के साथ प्रकट होते हैं। जगत् के जितने व्यापार हैं उनमें से एक भी भावना-शून्य नहीं । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यापार के साथ इच्छा का संबंध है। काव्य में हम भावों के उत्थान-पतन के द्वारा अपनी काल्पनिक विलास-वृत्ति को परिषुष करते हैं और जगत् के विविध व्यापार के रूप में हम अपने भावों की क्रियात्मक सत्ता दिखाते हैं।

मनुष्य में कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ भी पायी जाती हैं जो बाह्यतः विचित्र-सी लगती हैं। एक मनोदृशा वह है जब मनुष्य स्वपीड़न और दूसरे को दुख देने में, निष्ठुरता-पूर्वक आघात करने में प्रसन्न होता है और दूसरी प्रवृत्ति परपीड़न वह है जब मनुष्य अपने ऊपर ही पीड़ा का भार लेने में आनंद का अनुभव करता है। काम-वासना के क्षेत्र में ऐसी मनोवृत्तियाँ प्रत्यक्ष रहती हैं। महदुर्देश्य को लेकर परोपकार की भावना से कष्ट सहना, यहाँ तक कि प्राणोत्सर्ग

१. Reason, in other words, cannot accomplish anything by itself; it must be prompted by a preceding desire before it begins to operate; it is engine of the ego and desire is the steam which makes it go.

—C. E. M. Joad:—The Mind And Its Workings. p. 63.

करना, एक भिन्न बात है, किंतु सामान्य जीवन में, साधारण उद्देश्य को लेकर भी, ऐसी मनोदशा पाई जाती है। मनुष्य जब अपने को आधम समझता है, उसका विवेक प्रताङ्गित करता है तब गतानि से अभिभूत होकर अपने को अपराधी जान दंडित होने में आत्म-संतोष प्राप्त करता है। अपनी संतान के सुख केलिए माता-पिता कष्ट सहने को तैयार रहते हैं। आप्रह या हठ के रूप में अपने किसी प्रेमी के सामने जो उसके कष्ट के साथ गंभीर सहानुभूति रखता है, प्रिय अपना शिर फोड़ने की चेष्टा करता है और इस प्रकार की लीला के कारण वह अपना हठ रखने में समर्थ भी हो जाता है। छोटे-छोटे बच्चों के हाथों से कपोलों पर थपकियाँ लगवाना, बाल नौंचवाना आनंद की वासना से खाली नहीं। ऐसी मनोवृत्तियाँ जो प्रत्यक्षतः अपने ऊपर कष्ट लेने की-सी मालूम होती हैं वस्तुतः आनंद की ही एक प्रवृत्ति है। छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसे स्नेह से चूमने का जो अत्याचार किया जाता है उसे वह बच्चा ही जानता है, किंतु चूमनेवाला उसे अपने प्यार की अभिव्यक्ति समझता है। डाढ़ी के बाल, नाक, मुँह सब के आघात से शिशु कष्ट पाता है, प्रताङ्गित होता है, परंतु चूमनेवाला अपने सुख-संतोष केलिये उससे भिड़ा रहता है। परपीड़न या स्वपीड़न, दोनों अपने आनंद की कामना से ही किए जाते हैं। यदि आनंद-भाव की प्रेरणा कर्म के मूल में न रहे तो इस दृश्य जगत् में अभी जो उझास दिखाई पड़ता है वह नहीं रहेगा। मनुष्य का श्वास-प्रश्वास भी इसी आनंद-कामना से है। काठ्य के रस का आनंद भी इससे पृथक् नहीं।

जो कुछ है वह काम की प्रेरणा ही है। वात्स्यायन ने भी अपने काम-सूत्र में इस विषय का उल्लेख किया है कि जीवन का कोई जीवन में काम-प्रेरणा की प्रधानता कर्म काम-रहित नहीं है। पाँचों इंद्रियों—कान, आँख, जिहा, नासिका, त्वचा—अपने-अपने काम मन की प्रेरणा के अनुसार काम की प्रवृत्ति से ही करती हैं १। किसी विशेष कर्म में उच्चतर आनंद की प्राप्ति केलिए जो चेष्टा होती है वह भी काम की प्रधानता के कारण ही २। सूष्टि-विधान के अनुसार उत्पादन की प्रेरणा से जाग्रत् होकर मैदानों में हरी-हरी घासें, खेतों में हरेन्हरे पौधे दिखाई पड़ते हैं। पुष्प अपनी सुगंध और सौंदर्य को प्रकट करते हैं। पक्षिगण मधुर-से-मधुर गीत गाते हैं। फिल्जी की मनकार, कोयल की कूक अपने प्रेमियों के आह्वान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वनों की निस्तब्धता को भङ्ग करनेवाले नाना प्रकार के पक्षियों के जो कलरव सुनाई पड़ते हैं वे सब काम के ही असंख्य गीत हैं। मनुष्य की वर्ण-प्रियता, उसका कला और संगीत के सौंदर्य तथा माधुर्य पर प्रेम, काव्य में लालित्य के प्रति अनुराग, रमणीय चित्रों का भला लगाना, ये सब काम की प्रेरणा से ही संभव हैं। खी-पुरुष जिस शक्ति के कारण आनंदमय विवाह-

१ श्रोत्रत्वक् चक्षु जिहा ग्राणानामात्म संयुक्ते न मनसाऽधिष्ठिताम्  
स्वेषु-स्वेषु विषये स्वानुकूल्योतः प्रवृत्तिः कामः। स्पर्श-विशेष विषये  
त्वस्याभिमानिक छसानुविद्वा फलवत्यर्थं प्रतीतिः प्राधान्यात् कामः॥

—वात्स्यायन कामसूत्र, १, २

२ Eros-kam, in this large sense, is truly the parent of all the gods, and the presiding deity of all Sahitya and literature, which is all only the record of his play.

Dr. Bhagwan Das—The Science of the Emotions. p. 397.

बंधन में आवद्ध होते हैं वह उन मधुर प्रभावों की सत्ता और उद्भव का कारण है जिनसे पवित्र-से-पवित्र और उच्च-से-उच्च वासनाओं तथा कर्मों को बल तथा स्थिति प्राप्त होती है। इन मधुर प्रभावों के द्वारा समस्त प्रकृति में सुधार तथा उच्चता संपादित होती है। जिस मानवता का संबंध प्रत्येक उच्च तथा पवित्र प्रेरणा से है वह इसी प्रेरक शक्ति से जुड़ी रहती है। तन्मयता, मृदुलता, स्वार्थ-नितय, संग्राहकत्व आदि सृष्टि-रक्षा के जितने दिव्यतम भाव हो सकते हैं सब इसी परम शक्ति के प्रेरणा-स्वरूप हैं। सब की उत्पत्ति काम से होती है और काम में ही उनका अध्यवसान हो जाता है। त्रिदेव वस्तुतः काम का ही स्वरूप है, यह सुषुप्ति और जागृति दोनों में वर्तमान रहता है। दिव्य और स्वर्गीय आनंद जिसे ब्रह्म और परमात्मा के नाम से पुकारते हैं वह भी काम का ही विकार है। यह शक्तित्रय ज्ञान, इच्छा और क्रिया है। यह संकल्प, इच्छा और कल्पना है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई और जिसके बिना कोई भी स्पंदन असंभव है ।

१ सर्व भूतात्म भूतख्या त्रिलिङ्गा विश्वरूपिणी ।

कामस्यैवा हि सा मूर्तिर्बह्य विष्णवीश्वरात्मिका ॥

भूता वा वर्तमानावा जनिष्याश्वापि सर्वशः ।

कामात् सर्वं प्रवर्त्तते छीढंत वृद्धिमागताः ॥

कामः सर्वमयः पुंसां स्वसंकल्प समुद्भवः ।

वक्तुं न शक्यते यच्च परं वाचु परं च यत् ॥

आनन्दममृतं दिव्यं परंब्रह्म तदुच्यते ।

परमात्मेति चाप्युक्तं विकाराः काम संज्ञिताः ॥

छसानां जाग्रतां चाथ सर्वधार्यो हृदित्यतः ।

नाना विधानि कर्माणि कुरुते ब्रह्म तन्महाय ॥

त्रिवृद्ध ब्रह्म ततोविष्णुं कामश्चेच्छा त्रयं कुतम् ।

स्पंदीऽपशक्यो यं मुक्षवा कामः संकल्प पुराह ॥

[ विष्णुराण, धर्म संहिता, अ० ८ ]

जीवन में विशुद्ध या अध्यात्मिक प्रेम प्रायः कुछ नहीं है, ऐसा कहने पर शायद कुछ लोग, जो अपने को विशुद्धतावादी कहते हैं, नाक-भौंह सिकोड़ेंगे, किंतु जीवन की काम-वासना और उसका जो वास्तविकता है उसकी समीक्षा से यही पता चलता है कि संसार के सारे व्यापार अपनी कामना के स्वरूप ही है। जिसके साथ हमारा कोई संबंध है या संबंध की इच्छा है वही हमें प्रिय लगता है। रागात्मक संबंध के अभाव में दुनिया की कोई भी बात हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। राग और द्वेष इन्हीं दो तत्वों के कारण जगत् के व्यापार चलते हैं। 'इंद्रियस्येद्रिय स्वार्थं राग-द्वेषौ व्यवस्थितौ' प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय के साथ राग-द्वेष संबद्ध है। सारा जगत् ही इसी प्रकार द्वंद्वमय है। विद्युत् के ऋण-धन की तरह ये दोनों तत्व समस्त विश्व में परिव्याप्त हैं। जबतक यह द्वंद्व न हो तबतक कोई कर्म भी नहीं हो सकता। वैराग्य प्रत्यक्षतः अनुराग का ही दिशा-भेद है। जो राग लोक के साथ संबद्ध रहता आता है वह उससे पराङ्मुख होकर दूसरी ओर आवढ़ हो जाता है। उनमुख राग विमुख हो जाता है। काम-मनोविज्ञान के आचार्यों ने यह प्रमाणित किया है कि संसार के सारे व्यापार काम-वासना के संकेत पर ही संचालित होते हैं। काम-मनोविज्ञान के अतिरिक्त शास्त्रीय विवेचन में भी यह बात पाई जाती है। १। यदि मनुष्य में काम-

१ अनन्मय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय पंचकोषों के उपन्यास में जीवन-विधान का सार है। इन पाँचों की अपनी अलग-अलग स्थिति तथा व्यापार हैं, किंतु आनंदमय कोष मुख्यतः प्रेरणा-स्वरूप है।

वासना न रहे तो जगत् का कोई भी काम वह नहीं कर सकता। परिचमो मनोविश्लेषक अल्बर्ट फ्रायड ने जब से इस तथ्य का प्रतिपादन किया तब से इस विषय पर कई तरह के मत-मतांतर प्रकाशित होते रहे; किंतु भारतीय शास्त्र में इसका प्रतिपादन कोई नई बात नहीं। प्रकृति और पुरुष के समन्वय के परिणाम-स्वरूप सृष्टि-विद्यान को मान लेने पर जगत् के व्यापार के मूल में

काम-प्रकृति को भुलाया नहीं जा सकता। जब-काममय जीवन तक यह सृष्टि प्रकृति-पुरुष समन्वित है तबतक

जगत् में उसकी सत्ता को अस्वीकृत भी नहीं किया जा सकता। वेदोपनिषद् के सारमय शब्दों में इस सृष्टि का मूल कारण यही कहा जाता है—‘एकाकी नारमत आत्मानं द्वेधा व्यभजत्, पतिश्च पत्नी चाभवत्’—एक में वह नहीं रहा, पति और पत्नी के रूप में उसने अपने हो भेद किए। इसके बाद भी आत्म-विस्तार के लिए—‘सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय, तत्सृष्टा तदेवानु-प्रविशत्’—उसने बहुत-सी प्रजा की सृष्टि की और उनमें प्रविष्ट हुआ। मूलरूप में जो पिता है वही पुत्र है। वैद्यक शास्त्र में भी इस बात का विवेचन किया गया है कि माता-पिता के कौन

‘रसो वै सः । रसः द्योवायं लक्ष्यानंदो भवति पथ द्योवानंदयाति ।’ (तैत्ति० २, ७, १,) वह रस ही है। रस को प्राप्त कर ही पुरुष आनंदित होता है। यह रस ही सब को आनंदित करता है। ‘द्यतद्यैवानंदस्या-न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ (बृह०, ४, ३, ३२,)—इस आनंद के अंशमात्र के आश्रय से ही सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस प्रकार रसोऽनु त आनंद ही जगत् और जीवन की प्रतिष्ठा का कारण है। लोक में हस्ती आनंद का रूप वासना-प्रथान हो जाता है।

कौन अवयव संतान में वर्तमान रहते हैं । जाया-रूप स्त्री में शुक्र-ब्रह्म का अवस्थान कर पुरुष ही उभयलिंग में पुनर्जीत होता है । वेदों ने भी उद्घोषित किया—‘कामस्तद्ग्रे समवर्वताधि’<sup>१</sup> सृष्टि की उत्पत्ति काम से हुई । काम-प्रवृत्ति इतनी व्यापक और तीव्र है कि संसार के सामान्य व्यापार के साथ भी उसका संबंध छोड़ा नहीं जा सकता । जगत् में जो कुछ है वह काम की चेष्टा का ही परिणाम है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं<sup>२</sup> । साधारण प्रेमानुराग के मूल में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है । पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन के स्नेह-अनुराग में इसी प्रवृत्ति के रूपांतर

<sup>१</sup> सृष्टुत के शारीरस्थान में माता-पिता के भेद से मनुष्य में रक्त, माँस, मेद, हृदय, स्त्रीहा, अंत्र, यकृत आदि माता के अंग और मज्जातंतु, अस्थि, धमनी, लोम आदि पिता के अंग बताये गए हैं ।

<sup>२</sup> कामस्तद्ग्रे समवर्वताधि मनोरेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो बंधुभसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥

(ऋ० १०, २९, ४)

इसके (ब्रह्म) मन का जो रेत अथोत् बीज प्रथमतः निकला वही आरंभ में काम (सृष्टि-निर्माण करने की प्रवृत्ति या शक्ति) हुआ । ज्ञाताओं ने अंतःकरण में विचार-चुद्धि से निश्चय किया कि यही असत् में सत् का पहला संबंध है ।

<sup>३</sup> अकामस्य क्रिया कवाचिद् दृश्यते नेहकाहिचिन् ।

यद् यद्हि कुरुते किंचित् तत् तत् कामस्य चेष्टितम् ॥

—मनुः

All thoughts, all passions, all delights,  
Whatever stirs this mortal frame,  
All are but ministers of love,  
And feed his sacred flame.

—Coleridge: Ode to Love,

की छाया पाई जाती है। ईश्वर की भक्ति भी काम-प्रवृत्ति से खाली नहीं। मनुष्य-मात्र काममय है, उसकी सारी चेष्टाएँ काम-प्रेरित हैं। वैदिक द्रष्टा ने भी—‘काममय एवायं पुरुषः’—कहकर मनुष्य-मात्र में काम का संबंध बताया है। ब्रह्म के सहशा ही आत्मा चित्तिरूप है। स्थिति के अनुरूप आत्मा के कितने अवांतर भेद हो जाते हैं। बुद्धि से निश्चय करती हुई वह विज्ञान-मय, मन से संकल्प करते समय मनोमय, प्राण से जीवन-रक्षा कर प्राणमय, आँख से देखती हुई चक्षुरमय, कान से सुनती हुई श्रोतमय अर्थात् प्राण तथा इंद्रियों के कार्य में वह तद्रूप प्रतीत होती है। इसी प्रकार हृदय के भावों की अवस्थिति भी उसके काममय रूप के विना संभव नहीं है।

यौन-संबंध एक प्राकृतिक व्यापार है, कितु प्रकृति की मर्यादा रखने केलिए समाज-धर्म के अंतर्गत लाकर उसको आध्यात्मिक

विकास के मार्ग पर ला खड़ा कर दिया गया है।  
यौन-संबंध और ऐपणात्रय—पुत्र, धन, लोक—के विवेचन से जीवन-ध्येय

स्पष्ट है कि जगन् मे आध्यात्मिक प्रेम से सृष्टि-विधान संभव नहीं। प्रेम वासना के रूप मे परिवर्तित होकर ही सृष्टि मे प्रवृत्त होता है। ऐपणात्रय के प्रतिशोध में ऋणात्रय - पितृ, गुरु, देव—है। जीवन की संगति केलिए तप, भोग और यज्ञ का भी अपना विशेष महत्त्व है। विश्व-प्रकृति में इस प्रकार लेन-देन का सवाल भी कुछ कम नहीं रहता। बीज अपने अस्तित्व को मिटा कर जब फूल के रूप मे खिलता है तब फूल को भी अपने अस्तित्व को नष्ट कर बीज वन जाना पड़ता है। तप के द्वारा मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है उसका वह भोग

कर लेता है, पर भोग के बाद यज्ञ के द्वारा भोग-जनित चक्षि की पूर्ति कर देना मनुष्य का एक धर्म माना जाता है। इस प्रकार मनुष्य जिस वस्तु को जिस स्थान पर से उठावे उस वस्तु को उसी स्थान पर रखने का विधान भी उसे बताया गया है।

मानव जीवन में शुक्रब्रह्म और ज्ञानब्रह्म का अत्यधिक महत्त्व है। शरीर-विज्ञान के अनुसार आहार के परिपाक से

**शुक्रब्रह्म और ज्ञानब्रह्म** क्रमशः सात धातुओं का निर्माण शरीर में होता है—रस, रक्त, मांस, मेदस्, अस्थि, मज्जा तथा

शुक्र। इसी सातवीं धातु में नवीन प्राणी शरीर आरंभ करने की शक्ति है। उसका उपयोग प्रजनन में नहीं होने पर, उसके निरोध पर, परिपाक से सूक्ष्म शरीर में अष्टम परिणाम ओज, बल, तेज की अधिकतर प्राप्ति होती है जिससे संसार के नाना व्यापार चलते हैं, काव्य-कला की सृष्टि होती है।

यही शुक्रब्रह्म ज्ञानब्रह्म का उत्पादक है। अन्न से ही शुक्र बनता है। मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है उसमें सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म आप, सूक्ष्म अन्न, ये तीन तत्त्व रहते हैं। इन तीन तत्त्वों से बना अन्न जब शरीर में पहुँचता है तब तेज तत्त्व के कारण स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म परिणाम—क्रमशः अस्थि, मज्जा, वाणी—उत्पन्न होते हैं। जल तत्त्व से मूत्र, रक्त तथा प्राण, अन्न तत्त्व से चुरीष, मांस और मग, ये तीन द्रव्य निर्मित होते हैं। काव्य के प्रयोजन के लिए इन तत्त्वों में प्रमुख वाणी, प्राण तथा मन की रचना मिलती है। उपनिषद् के अनुसार अन्न से ही पुरुष की उत्पत्ति मानी जाती है—पृथिव्या ओषधयः। ओषधिम्योऽन्नम्। अन्नात्पुरुषः। (तै० २, १) अन्न के रस का जो सारतम अंश

है वह सूक्ष्म रूप सनातन ब्रह्म है । इसी कारण भारतीय शास्त्रों में भोजन की प्रकृति से मनुष्य की प्रकृति का संबंध बताया गया है २ । शुक्रब्रह्म की अवस्थिति से यह तो बताया ही गया है कि यदि उसका उपयोग स्थूल शरीर के निर्माण में न किया जाय तो ओज और तेज के परिणाम से वह संसार के अन्यान्य कर्मों का प्रेरक होता है । काम तथा वासना का केवल संकुचित अर्थ लेने से काम नहीं चलता । काम और वासना के व्यापक अर्थ में जीवन और जगत् की सारी सत्ता परिव्याप्त हो जाती है ३ । तत्त्वान्वेषी पुरुषों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि संसार

१ एक ऋषि ने कहा है— पाकेरसस्तु द्विविधिः प्रोच्यतेऽन्न रसात्मकः । रस सारमयो भागः शुक्रं ब्रह्म सनातनम् ।

२ ‘आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः’ (छांदोग्य, ७, २६, २) सात्त्विक आहार से मन और शुद्धि भी सात्त्विक हो जाती है ।

३ चित्त की वासना अनादि मानी जाती है, किंतु वही वासना अभिव्यक्त होती है जो कर्मफल से उन्मुख रहती है । आत्मा के ‘अणु’ या ‘विभु’ मानने के संबंध में वेदांतिकों में बड़ा मतभेद है । वासना के आश्रय-स्वरूप चित्त को महत्परिमाण के कारण मीमांसक विभु मानते हैं, अणु परिमाण के कारण नैयायिक अणु मानते हैं और मध्य परिमाण के कारण सांख्यवादी अणु तथा विभु दोनों से विलक्षण मानते हैं । ‘प्राण-स्पंदन’ और ‘वासना’ दोनों चित्त के समान धर्म हैं । योगवाशिष्ठ के अनुसार भी—‘द्वे बीजे चित्त-ब्रुक्षल्य प्राण-स्पंदन वासने, एकर्मिमश्च तथोः क्षीणे शिरं द्वे अपि चश्यतः’—चित्त-रूप वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण-स्पंदन और दूसरी वासना । इन दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी स्वतः नष्ट हो जाता है । इंद्रियों के साथ भी जबतक चित्त का संबंध न हो तो तबतक चित्पय-बोध नहीं हो सकता । इंद्रियां ज्ञाता नहीं होतीं । केवल अपनी

के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह सृष्टि-कर्म है वह ब्रह्म की ही कोई-न-कोई अतर्क्य लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं । जो निष्काम है वह निष्क्रिय है, केवल इतना कह देने से शायद गीता के कर्म-योगवादी सहमत न हों, क्योंकि वहाँ फलासक्ति-रहित होकर कर्म करने का आदेश बराबर दिया गया है। जो आदर्श है वह यथार्थ नहीं होता। आदर्श प्राप्त होकर ही यथार्थ बनता है। साधारणतः जीवन में उसी कर्म की कामना होती है जिसके परिणाम का भोग प्राप्त हो सके। काम-रहित जीव कोई भी कर्म

नहीं कर सकता, किंतु इतना होने पर भी यह तो कहा ही जायगा कि काम में आपादमस्तक लीन होना श्रेयस्कर नहीं। जिस अग्नि से भोजन पकता है उससे मनुष्य भस्मसात् भी हो सकता है। यही कारण शक्ति से ही उन्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। और कान सुने रहने पर भी हम न तो कुछ देख सकते या सुन सकते हैं जबतक कि नेत्र-द्विय या कण्डिय का संपर्क चित्त के साथ न बना रहे। चित्त की व्यवस्था से ही प्रत्येक हृदिय का विषय-विनियोग किया जा सकता है। जीवन की प्राण-शक्ति ही हृदियों को क्रियात्तपर करती है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, इन सब में बुद्धि के साथ प्राण सञ्चिहित हैं। ध्यान शब्द ही धी=बुद्धि+आन=प्राण से बना है। बोधव्य विषय के साथ प्राण को तन्मय करना ही ध्यान है। एकाग्र और एकचित्त होकर किसी वस्तु को देखने या उसमें तन्मय होने पर शास-प्रश्नास की क्रिया प्रायः निष्ठेष्ट-सी हो जाती है। चित्त और प्राण की यही विशेषता है।

१. What belongs to mere appearance is necessarily sub-ordinated by yeash to the nature of the thing in itself.'

[Kant's Metaphysic of morals, Abbot's Translation, in Kant's Theory of Ethics, Page 81]

है कि काम-चेष्टा के नियंत्रण केलिए धर्म का निरूपण कर दिया गया है। इस प्रकार मनुष्य को प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो बिंदुओं के बीच में ढंग करना पड़ता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के औचित्य का निर्णय लोक-कल्याण की अपेक्षा रख कर ही किया जाता है। गीता में भगवान् ने कहा है—‘धर्मविरुद्धो भूतानां कामोस्मि भरतर्षभः’—हे अर्जुन ! धर्म के अविरुद्ध काम मैं ही हूँ। काम और धर्म दोनों की सत्ता से कला-कौशल की वृद्धि होती है। एक की प्रेरणा होती है और दूसरा उसके स्थायित्व का विधान करता है १। प्रवृत्ति का जो मार्ग है उसे रोकना सरल नहीं है। प्राणिमात्र अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं २। निश्रह से उसे कोई विशेष वाधा नहीं होती ३। अपनी उस्थित शक्ति का व्यय उसे किसी-न-किसी दिशा तथा कर्म में करना ही पड़ता है।

१. ‘Incidentally it may be noted that all the finest products of the fine arts, and some also of the useful arts, poetry, drama, dancing, music, painting, sculpture, architecture, clothing, metal work, town-planning, gardening, tree-planting, road-making etc., have found their greatest patron in, and drawn their most splendid inspiration from religion in all ages and in all countries.

..... Religion has thus secured some of the purest joy to humanity, even in the life of the senses.’

Dr. Bhagwan Das; The Unity of all Religions, p. 465.

२‘प्रकृति यान्ति भूतानि निश्रहः किं करिष्यति’ [ गीता ३, २२ ]

प्रेरणा की दृष्टि से कवियों की प्रवृत्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं। जीवन की प्रत्येक मनोदशा या स्थिति में काव्य-रचना

काव्य-प्रेरणा के नहीं हो सकती। कोई ऐसे आशुकवि हों भी भिन्न-भिन्न रूप जो हर समय काव्य-रचना का दंभ रखते हों तो उनकी रचनाएँ किसी महत्व की नहीं हो सकतीं। प्रत्येक कलाकार, काव्य, चित्र, शिल्प आदि जो कुछ भी विषय हो, अपनी मनोदशा को कला-प्रवृत्त बनाने केतिए किसी-न-किसी विधि का अवलंबन करता पाया जाता है। किसी को सौंदर्योपासना से काव्य-प्रवृत्त होती है तो किसी को संगीत की मीठी स्वर-लहरी से। किसी को विजया की तरंग से, तो किसी को शराब की बोतलों से। किसी को प्रकृति के हरे-भरे दृश्य, जंगल, पहाड़, झरने को देखने से नई सूझ होती है तो किसी को एकांत में ही गति मिलती है। शायद ही ऐसा कोई कलाकार होगा जो किसी-न-किसी प्रकार के वैध, अवैध, पूर्ण, अपूर्ण कारण से अपनी कला-प्रवृत्ति का संबंध न रखता हो। ऐसे अनेक कवि हैं जिनको खी-दर्शन के अभाव में काव्य-दर्शन होता ही नहीं। पञ्चमी कलाकारों में अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कलाभिमुख प्रवृत्ति की रक्षा अवैध प्रेम तथा मदिरा के बल पर की। प्रकृति के रमणीय दृश्य, संगीत की स्वर-लहरी से काव्य के मनोभाव जगते हैं, किंतु उन सब में अनुराग ही प्रधान तत्त्व है। प्रेम के संयोग तथा वियोग, दोनों अवस्थाओं में, काव्य-प्रेरणा होती है, लेकिन वियोग-काल में जितनी मार्मिक कविताएँ लिखी गईं उतनी संयोग-काल में नहीं। प्रेम-दशा भाव-योग की दशा है, इसीलिए अपने प्रेम को व्यक्त करने या उसके

आधार पर जगत् के प्रति अपने जीवन के अनुराग को प्रदर्शित करने में हृदय को जो उल्लास मिलता है वह दूसरी स्थिति में नहीं। अपनी धृणा को व्यक्त करने केलिए काव्य की रचना नहीं हो सकती। प्रेम ने जितने कवि उत्पन्न किए उतने किसी अन्य भाव ने नहीं। यही कारण है कि प्रेम काव्य की प्रेरणा का एक मौलिक आधार है।

काव्य-रचना केलिए जीवन में अनुकूल परिस्थिति तो चाहिए ही, अवस्था-भेद का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। काव्य की प्रेरणा किस अवस्था में होती है, इस पर भी अवस्था-भेद से विचार किया जा सकता है। प्रतिभा के उद्दित होने केलिए न कोई निश्चित परिस्थिति अनुकूल होती है और न कोई खास अवस्था ही उपयुक्त होती है। प्रतिभा किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकती है। जो बाल्यावस्था में मंद रहा वह युवावरथा में तेज हो गया है और जो बचपन में प्रतिभासंपन्न रहा वह जवानी में शिथिल पड़ा है। वहुतों की वुद्धि वृद्धावस्था में तीव्र होते पाई गई है। वुद्धि की सीमा को पारकर ही प्रतिभा का उदय होता है। इस प्रकार उसकी उद्धावना का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। ऐसे भी कुछ कलाकार पैदा हो गए हैं जिनकी प्रतिभा आरंभ से अंत तक एकरस बनी रही है। किंतु इतनी सत्यता रहने पर भी, काव्य-रचना के संबंध में साधारण ढंग से, अवस्था-भेद के अनुसार, प्रेरणा-शक्ति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। कोटेलेट ने अवस्थाक्रम के अनुसार काव्य-रचना की शक्ति की एक तालिका बनाई है। नाटक के संबंध में उन्होंने लिखा है कि इकीस वर्ष की अवस्था

से नाटक लिखने की प्रवृत्ति होती है और पच्चीस से तीस वर्ष की अवस्था तक वह पूरे जोर पर रहती है। पचास या पच-पन वर्ष की उम्र तक उसका सिलसिला बना रहता है। उसके बाद इस प्रवृत्ति का प्रायः अंत हो जाता है। संयोगांत की अपेक्षा वियोगांत नाटक लिखने की प्रेरणा विशेष होती है। केटेलेट ने स्वभावतः अपनी तालिका बनाते समय पाश्चात्य लेखकों पर ही दृष्टि रखी है। इसमें सदैह नहीं कि केटेलेट के अनुसंधान में जितना सत्य है उतना उसका अपवाद भी है। आरंभ में जीवन और जगत् में जो उज्ज्ञास दिखाई पड़ता है वह बाद की अवस्था में उसी रूप में नहीं रहता। साधारणतः किशोर, युवा तथा वृद्धावस्था में क्रमशः भावना, क्रिया तथा स्मृति की प्रबलता रहती है। किंतु इसके अनुक्रम की कोई तालिका नहीं बनाई जा सकती। देश, काल, पात्र के अनुसार एक ही तथ्य का बहुधा रूपांतर हो जाता है। युवावस्था में अनुभूति-मूलक प्रेमोच्छ्रुति को व्यक्त करने की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी बाद में सदैव नहीं रहती, किंतु ऐसी प्रवृत्ति किसी नियम के अंतर्गत नहीं लाई जा सकती। रीतिकाल के बूढ़े हिंदी कवियों ने अपनी वृद्धावस्था में भी यौवन के रस-प्रसंग को न मुलाया और जबतक प्राण रहे, प्रणय ने भी पिंड न छोड़ा।

चित्त की वासना अनादि है। वासना केवल चुरे कर्मों की ही नहीं होती, सत्कार्य की प्रेरणा भी वासना से मिलती है। यदि

वासना और उसके उपयोग चित्त में अच्छे या चुरे कर्म की वासना न हो तो उसके लिए प्रयत्न ही नहीं किया जा सके। नैतिक

दृष्टि से हमारा जीवन विधि और निषेध के प्रति-बंध के अंतर्गत रहता आया है, किंतु मनःशान्ति की दृष्टि में हम

इस संबंध में भूल भी बराबर करते आ रहे हैं। चित्त में जब वासना जगती है तब अपनी प्रकृति के अनुसार वह भाव तथा कर्म के रूप में प्रवृत्त होना चाहती है। सत्कर्म-संबंधी वासना को हम विधि का मार्ग बता देते हैं, किंतु कुवासना का निषेधमात्र करते हैं। 'यह मत करो' मात्र से ही वासना की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती। 'यह मत करो' के बाद 'यह करो' बताये बिना उत्तेजित वासना चित्त को अव्यवस्थित कर देती है और उसके परिणाम-स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, साहित्य, समाज, राजनीति

आदि में बबंदर डाला करते हैं। वासना को उत्तेजित करने तथा उसके दमन से मन तथा शरीर, दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इससे

कई तरह के मरितष्क-संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साधारणतः होता तो यह है कि हम अपनी वासनाओं को किसी प्रकार दबा नहीं सकते। किसी-न-किसी रूप से, भाव से उसकी अभिव्यक्ति हो ही जाती है। हम कहते हैं, हमारे चित्त में बुरी वासना नहीं है, किंतु जिसके चित्त में वैसी कुवासना है उसकी निंदा कर, उपेक्षा कर हम अपनी अंतर्हित कुवासना को व्यक्त कर ही देते हैं। कुवासना-प्रेरित कलाकार की कृतियों पर अपना रोष और क्षोभ प्रकट कर हम सद्वासना का दंभ करते हैं, किंतु यथार्थ में हम अपनी अंतर्हित कुवासना को ही सद्वासना के रूप में दिखाया चाहते हैं। वासना या उसके ओज का आधिक्य यदि एक दिशा में खर्च नहीं हो जाता तो दूसरी दिशा में उसकी

१ 'नोदीर्णन् धारयेत् वेगान् नानुदीर्णनुदीरयेत्'

गति रोकी नहीं जा सकती । सबल मनुष्य के प्रति उन्थित क्रोध को जब उस लक्ष्य के प्रति अभिव्यक्ति का द्वारा नहीं मिलता तब निर्वल पर ही सारा क्रोध उतार लिया जाता है । यदि परिस्थिति उतनी भी अनुकूल न रही तो वह मानसिक ज्वर बनकर अपने ही मन-प्राण को संतप्त कर देता है । इस प्रकार हम अपने चित्त की वासना की अभिव्यक्तिके लिए कोई-न-कोई द्वारा ढूँढ़ ही लेते हैं ।

काव्य-रचना भी अपनी वासना की प्रकृति के अनु-काव्य प्रेरणा के मूल में वासना कूल ही होती है । कोई सत्काव्य लिखता है तो कोई असत् काव्य, पर रचना करने की प्रवृत्ति रखनेवाले को रोका नहीं जा सकता । लोक, समाज, राजनैतिकता पर दृष्टि रखकर जहाँतक संभव हो सकता है, मनुष्य अपनी वासना को नग्न रूप में प्रकाशित करने का साहस नहीं करता । और कुछ नहीं तो सुधार के नाम पर ही ऐसी बहुत-सी रचनाएँ साहित्य में होती रही हैं और होती रहेंगी ।

काव्य की प्रेरणा के मूल में संस्कृत के प्राचीन साहित्याचार्यों के मतानुसार कई कारण पाये जाते हैं । यश, द्रव्य, व्यवहार-ज्ञान प्राचीन साहित्य- दुःखनाश २ आदि कई ऐसी बातें काव्य-रचना शास्त्रियों के मत के मूल में पाई जाती हैं जिनका विवरण उन्होंने से काव्य-प्रेरणा दिया है । सब कारणों का एक ही मूल है और वह है सुख । यश, कीर्ति, प्रशंसा के आवरण के नीचे मनुष्य की

१ It is well known that when energy is aroused in a certain direction, surpluses flow in to other direction.

—Dr. Bhagwan Das; The Science of the Emotions. p. 296.

२ काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये,

सधः पर निर्वृतये कांतासम्मित तथोपदेश युजे ।

—सम्मटः काव्य-प्रकाश

सुख-लिप्सा ही छिपी हुई है। यथार्थ की अतिव्यापि ही प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा से कवियों को जो प्रेरणा मिलती है वह आत्म-विस्तार के परितोष से खाली नहीं रहती। दूसरों द्वारा निर्वाचन स्थप से अपनी वाणी के अवतरण तथा अनुश्रवण की अपेक्षा कवियों को कोई अन्य भाव अधिक सुख नहीं पहुँचा सकता। दूसरों के कंठ में वाणी के व्याज से अपनी भावात्मक सत्ता की प्रतिष्ठा करना एक बड़ी साधना है। द्रव्य-लाभ की प्रेरणा में भी सुख-लोभ ही अंतर्हित है। काव्य-रचना कर जो धन प्राप्त करने की कामना होती है वह धन के वस्तुगत सौदर्य से प्रेरित होकर नहीं, प्रत्युत् उस धन की क्रयःशक्ति में जीवन की जो सुख-सुविधा लगी हुई है वही भावना काव्य-रचना की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। द्रव्य-लाभ की प्रेरणा से जो काव्य-रचना की जाती है उसमें कवि की अनन्यता विशेष मात्रा में नहीं रहती। इसी कारण ऐसी रचनाएँ कवि को द्रव्य-लाभ का सुख जिस मात्रा में दे सकती हैं उस मात्रा में यश का सुख नहीं। किसी भी स्थिति में, अपने सुख की कामना के अतिरिक्त मनुष्य को आत्म-काव्य-प्रेरणा का विस्तार का कोई लक्ष्य दृष्टिगत नहीं होता। कुछ प्रधान कारण—  
आत्म-सुख लोग 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' की पुकार उठा कर काव्य-साहित्य के उद्देश्य को निश्चित करना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न के उत्तर में कोई 'स्वांतः सुखाय' कोई 'जन-हिताय' और कोई कुछ कहते हैं। काव्य की रचना अपने अंतः-करण के सुख-संतोष केलिए की जाय या जन-समाज के हित-विचार से, दोनों ही अपनी-अपनी स्थिति में सत्य हैं। मानव ज्ञान इतना सीमित है कि वह अपनी सारी संवेदनाओं को शायद

ही ज्ञान सके । प्रकट रूप में हम प्रत्येक कर्म का कोई-न-कोई हेतु, उसकी प्रेरणा बतला दिया करते हैं, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह यथार्थ ही होता हो, यह कहना भ्रम से खाली नहीं है । हमारी चेतना में जो हेतु प्रत्यक्ष रहता है उसका उज्जेख कर देते हैं, पर उस प्रत्यक्ष हेतु को उपस्थित करनेवाला कौन-सा अप्रत्यक्ष कारण है, इस संवंध में हमारा मौन ही उत्तर है । अपने हित को

**स्वांतः सुखाय और जनहिताय** जनता के हित से भिन्न देखने की दृष्टि कवि को नहीं होती । संसार में जितने काम होते हैं, प्रायः

सब स्वांतः सुखाय ही किए जाते हैं । कर्म-प्रयत्न में इच्छा का योग एक आवश्यक प्रतिबंध है । यदि भीतरी प्रवृत्ति न हो तो बाहर की पुकार पर दौड़नेवाला शायद ही कोई मिले । अपने अंतःकरण की किसी प्रेरणा के परितोष के लिए भी काव्य-रचना करना वस्तुतः जीवन और जगत् से निरपेक्ष होकर नहीं होता । गोस्वामी तुलसीदास ने 'स्वांतः सुखाय' ही रघुनाथ-गाथा लिखी, यह सच है, पर दो-तीन दर्जन पंक्तियों में देव, ऋषि यहाँ तक कि 'बंदौं संत असंतन चरणा' की गुहार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? वस्तुस्थिति यह है कि जीवन और जगत् से निरपेक्ष रहना मनुष्य के लिए एक कठिन व्यापार है, कवि के लिए असंभव । तुलसी के हृदय में लोक-कल्याण की भावना थी, यही उनकी प्रेरणा है । अपने आत्म-प्रकाश को प्रत्यक्ष करने का रामायण एक प्रयत्नमात्र है । हम दूसरों पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, उपकार करते हैं, दूसरों के दुख के साथ अपनी सहानुभूति रखते हैं, यह सब स्वांतः सुखाय ही होता है । दूसरों के दुख को देखकर जबतक हृदय में संवेदना उत्पन्न

नहीं होती तबतक कोई दया, करुणा, उपकार कर ही नहीं सकता। वस्तुतः हम अपनी संवेदना के ही कष्ट से मुक्ति पाने के लिए, दूसरों का उपकार आदि करते हैं। अपने दोनों का मूल अंतःकरण को जबतक परितोष न हो तबतक जन-वस्तुतः एक ही है हिताय भी कुछ नहीं किया जा सकता। स्वांतः सुखाय और जनहिताय दोनों तत्त्वतः एक ही हैं। प्रत्यक्ष में नहीं तो कल्पना में भी यदि लोक-समुदाय का ग्राहक रूप उपस्थित न रहे तो कवि को तदनुरूप काव्य-रचना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। मनोभाव का यह तथ्य केवल दार्शनिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी है। प्रत्येक भाव का बाध्य अभिनन्दन उसकी प्रकृति तथा विकास पर निर्भर करता है। कोयल की स्वांतः सुखाय कूक पर हम आनंदमत्त हो जाते हैं, पर कौचे के स्वांतः सुखाय काँव-काँव-टाँय पर फिरा होनेवाले कितने मिलेंगे ! केवल स्वांतः सुखाय होने से ही किसी का कोई कर्म अभिनन्दनीय नहीं माना जा सकता, उससे लोक-रंजन या लोक-कल्याण किस सीमा तक हो सकता है, यह भी उसका एक मापदंड है।

---

## सातकों अद्याय

### लय और छन्द

लय और छन्द का संबंध इतना घनिष्ठ है कि हम बहुधा एक से दूसरे का बोध कर लेते हैं। यहाँ वस्तुतः इसका तत्त्वान्वेषण करना चाहिए कि दोनों के संबंध का क्या रहस्य लय और छन्द का संबंध है। इस पर विचार करने के पहले हम यह अच्छा समझते हैं कि छन्द के विषय में कुछ भ्रमात्मक धारणाओं का अंत हो जाय। कुछ लोग समझते हैं कि काव्य में छन्द एक बाह्य संस्कार है जो ऊपर से उस पर आरोपित कर दिया।

जाता है। छंद का स्वतः कोई स्वरूप नहीं होता। वह किसी अभिव्यक्ति के साथ ही प्रकट होती है, न आगे, न पीछे। कुछ लोग छंद को साँचा समझते हैं और इन साँचों के रूप में ही अभिव्यक्तियाँ मानते हैं। यदि हम काव्य को कवि की सहजानुभूति की अभिव्यक्ति मानते हैं तो किसी निश्चित साँचे से काम नहीं चल सकता। एक कवि के अंतर्जगत् की अनुभूति ठीक दूसरे की तरह नहीं होती या हो सकती। ऐसी दशा में एक कवि की अभिव्यक्ति का साँचा दूसरे केलिए उपयुक्त नहीं हो सकता। पर, ऐसा हम नहीं मानते। हमने देखा है कि एक ही तरह के छंद में भिन्न-भिन्न कवियों ने रचनाएँ की हैं। फिर इसमें तथ्य क्या है? वाणी की अभिव्यक्ति का आधार भाषा है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में तरह-तरह के मत-मतांतरों पर ध्यान रखकर भी यह कहना अनुपयुक्त नहीं है कि भाषा एक स्वाभाविक शक्ति है। सभ्यता के साथ-साथ भले ही उसका व्यावहारिक विकास होता गया हो, उसमें तरह-तरह के नियम-अपवाह बनाये गए हों, परंतु तथ्य-रूप में वह प्राकृतिक है। छंद भी कवि के अंतर्जगत्

**छंद का स्वरूप** की वह अभिव्यक्ति है जिस पर नियम का बंधन ढाल दिया गया है। भिन्न-भिन्न स्वाभाविक अभिव्यक्तियों केलिए कोई आदर्श साँचा तैयार नहीं किया जा सकता। जितने प्रकार की अभिव्यक्तियाँ लय के सामंजस्य के साथ हो सकती थीं उनका विधान छंद-शास्त्र में कर दिया गया है। पर, इसका तात्पर्य यह नहीं कि भावों को प्रकाशित करने केलिए जो विधान छंद-शास्त्र में कर दिया गया है उससे अधिक केलिए अब गुंजाइश नहीं। छंदों की संख्या बढ़ायी जा सकती है, किंतु इस

प्रत्येक जाति, अन्यान्य धारणाओं के साथ, लय की भी एक धारणा रखती है और यह धारणा जातिगत, देशगत संस्कार से लय का स्वरूप उत्पन्न होती है। स्वर के आरोह और अवरोह, और जातीय दो गतियों से ही उसके अगणित भेद हो गए हैं। संस्कृति जो धारणा और संस्कार की दृष्टि से भिन्न-भिन्न रूप में बदल गये हैं। भारतवर्ष को यूरोप का गाना जितना विचित्र लगता है उतना ही चीन को भारतवर्ष का। इस प्रकार प्रत्येक देश और जाति की अपनी संस्कृति है, अपनी धारणा है, जिसके आधार पर वहाँ स्वर का विकास हुआ है। यह विकास ही प्रत्येक देश और जाति की धारणागत लय के मूल तत्त्व को काल-ऋग्म से अग्रसर करता रहता है जिससे लय का गत्यात्मक सौंदर्य उद्भासित होता है। मूलतत्त्व की यही विकासोन्मुख नवीनता लय में जीवन और सौंदर्य देती है। लय की विशेषता जीवन के साथ उसका लगा रहना है। प्रकृति के विशाल क्षेत्र में—स्थावर-लय की प्रकृति जंगम सब में, जहाँ जीवन है वहाँ लय अवश्य है। नदी में, निर्भरिणी में, पेड़-पौधे में, लता-गुल्मों में, सर्वत्र लय-ही-लय है। मनुष्य की धमनियों में भी लय है। जीवन-शक्ति का सारतत्त्व ही लय है। इसी कारण मनुष्य के उत्कट विषाद और हर्ष में भी जो उच्छ्वास निकलते हैं उनमें गुरुत्व तथा लघुत्व के कारण लय की तरंगें खेलती हैं। गान के स्वर और लय को सुनकर अंतर की रागिनी इतनी तन्मय हो जाती हैं, भावनाएँ इतनी धनीभूत हो जाती हैं कि वर्तमान के केंद्र में ही हमारी सारी सत्ता रमण करने लगती है, अगले पद की उत्सुकता जाग-रित नहीं होती। गूँजते स्वर की पृष्ठभूमि पर नई-नई सुकुमार

भावनाएँ उठ-उठ कर एक रमणीय विश्व बनाने लगती हैं। काव्य में इसके हृष्टांत बहुत मिलते हैं, क्योंकि वहां जीवन का ही प्रधान व्यवसाय है।

स्पंदन, कंपन या गति का नाम ध्वनि या शब्द है। आकृतियों भी इसी ध्वनि या शब्द की गतियों से उत्पन्न हुआ करती हैं।

अव्यक्त जगत् में प्रत्येक ध्वनि की एक विशिष्ट ध्वनि और उसकी विशेषता आकृति-होती है और देढ़ी-मेढ़ी, सीधी रेखाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण करती हैं।

वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से यह प्रमाणित किया है कि विशिष्ट संगीत-मंत्रों से ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके आधात-मात्र से आकृतियाँ बन जाती हैं। जोर से शब्दोच्चारण न करने पर भी उसकी कल्पना-मात्र से ही स्वर-यंत्र तदनुकूल स्पंदित हो जाते हैं। संगीत में लय की यही विभूति है। हिंदू-संगीत-शास्त्र में राग-रागिनी का विधान इसी प्रकार जीवन के जीवित तत्त्वों के आधार पर हुआ है। अव्यक्त जगत् की ये आकृतियाँ कोई कल्पना नहीं, प्रत्युत् एक प्रामाणिक तथ्य है।

१ कुमारी वाट्स ह्युग्स (Miss Wallis Hughes) ने अपनी 'ध्वनिरूप' (Voice figures) पुस्तक में अपने यांत्रिक प्रयोगों से इस तथ्य का प्रतिपादन किया है। यंत्र का नाम ईडोफोन (Eidophone) है जिसमें एक ध्वनि-ग्राहिणी नली (Receiver) लगी हुई है। नीचे की ओर एक प्रसारण तथा संकुचनशील लचीली क्षिल्ली है। जिस समय ईडोफोन यंत्र पर जो राग या रागिनी छेड़ी जाती है उस समय उस राग या रागिनी की एक विशिष्ट आकृति, ध्वनि-विशेष के अनुरूप, यंत्र पर अंकित हो जाती है।

तन्मात्राओं की दृष्टि से भी इसका विवेचन किया जाय तो यह सिद्ध है कि अन्तःकरण प्रकृति के सूक्ष्म द्रव्य मूलतत्त्वरूप तन्मा-

तन्मात्राओं से बना है । मन वायु तन्मात्रा से बना है, अन्तःकरण और अतः वह वायु की तरह ही शून्य में घूमनेवाला पंच तन्मात्राएँ

अत्यंत चंचल है । बुद्धि अग्नि तन्मात्रा से, चित्त जल तन्मात्रा से और अहंकार पृथ्वी तन्मात्रा से बना है । जो मूलतत्त्व जितना ही सूक्ष्म रहता है वह उतना ही प्रबल होता है । जल अधिक सूक्ष्म होने के कारण पृथ्वी तत्त्व से अधिक तीक्षण है और वह पृथ्वी को बहा ले जाता है । अग्नि जल से अधिक सूक्ष्म होने के कारण उसे सुखा देता है । वायु अग्नि से अधिक प्रबल होने के कारण उसे उड़ा देती है । आकाश उससे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण वायु को अपने में स्थित कर लेता है, क्योंकि आकाश ही वायु का अधिष्ठान है । आकाश का गुण-रूप कार्य ध्वनि या शब्द ही है । लय-पूर्वक सुमधुर ध्वनि से सभी तत्वों पर अधिकार किया जा सकता है और इस प्रकार मन की चंचल वृत्तियों का निरोध कर इच्छित प्रभाव की प्रतिष्ठा की भी जा सकती है ।

हमारे यहाँ के छंद 'घुनाकर न्याय' के अनुसार अटकल पर ही नहीं बनाए गए । उनके भीतर कुछ तथ्य है, और वह तथ्य

जीवन के रक्षणात्मक और मनोरंजनात्मक तत्त्वों छंद का विधान के साथ संबंध रखता है । प्रचलित छंदों का

विधान नाद-सौदर्य की विशेषता पर अवलंबित है । उनके भीतर लय की जो स्थिति है वह कोई बाहरी चीज

<sup>१</sup> छंद का अर्थ वंशन या नियमबद्धता माना जाता है । उपनिषद् में छंद का अर्थ और प्रयोजन एक दूसरे ही रूप में माना गया है ।

नहीं, प्रत्युत् जीवन के ही तत्त्वों के अनुसार निर्माण किया हुआ भाषा का बंधन है। लय-सौंदर्य के अनुरूप ही ये बंधन बनाए गए हैं और इनसे काव्य को दीर्घायु प्राप्त होता है। चलते हुए भरने का जो स्वर है उससे, आधारभूमि को एक व्यवस्थित क्रम से, उच्च, निम्न तथा समतल और विस्तृत तथा संकुचित, बनाकर कई प्रकार के स्वर निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक भाषा का भी एक स्वाभाविक स्वर है और इससे, कई प्रतिबंधों से, भिन्न-भिन्न स्वर उत्पन्न किये जा सकते हैं। भाषा-प्रयोग के ये प्रतिबंध वस्तुतः बंधन नहीं, प्रत्युत् धनुष की चड़ी हुई प्रत्यंचा की तरह उसकी शक्ति को बढ़ानेवाले हैं। नदी की स्वाभाविक धारा से जो काम न चल पाता वह उसकी गति के क्षेत्रों को कमकर, बांधकर, अधिक तेज बनाकर किया जाता है और इस प्रकार शक्ति पैदा करने का वह एक अद्भुत साधन बन जाती है। साधारण वाक्य में जो प्रवाह और ज्ञानता लक्षित नहीं होती वह छंद-व्यवस्था से पैदा कर ली जाती है। परस्पर की बातचीत में विना पूछे ही 'दाल-भात में मूसरचंद बनना' और उपदेश दे बैठना कितनी अशिष्टता है, पर छंदों की ओट में यह कहना—'विन पूछे ही कहत हैं सज्जन हित के बैन'—दोष का कितना परिहार कर देता है।

देवा वै मृत्योर्विभ्यतद्यर्थीं विद्यां प्राविश उस्ते छंदोभिरच्छादयन्यदोभिरच्छादय—उस्तच्छंदसां छंदस्त्वम् । (ठांडोरय, ११४२)

मृत्यु से भय मानते हुए देवताओं ने व्रथीविद्या (वेद) में प्रवेश किया और अपने को छंदों से आच्छादित कर लिया। इसी कारण मंत्रों का नाम छंद है।

काव्य और छंद में जो संबंध है वह अविच्छिन्न और अनिवार्य नहीं है। काव्य का साधारण अर्थ उसके पद्यात्मक रूप से माना जाता है, किंतु काव्यत्व इसी रूप में आवश्यक नहीं, काव्य और छंद वह गद्यात्मक भी हो सकता है। गद्य और पद्य का संबंध का मौलिक भेद बुद्धि और हृदय की क्रिया का है किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव से सर्वथा अलग रहकर ही क्रिया-तत्पर होते हैं। गद्य बुद्धि-प्रधान होता है और पद्य हृदय-प्रधान। यहाँ काव्यत्व की सीमा को हम ने विवेचन की सुविधा केलिए, पद्य में ही सीमित कर दिया है। गद्य-रचना केलिए छंद का कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि छंद से भिन्न रहकर ही उसकी रचना होती है। पद्य की रचना केलिए छंद एक आवश्यक प्रतिबंध है, अनिवार्य भी हम कह सकते हैं यदि दो एक वर्तमान क्रांतिकारी कवि को इसमें विशेष आपत्ति न हो। काव्यत्व का केत्र गद्य और पद्य दोनों है, किंतु पद्य की तरह सर्वांगतः काव्यत्व की पहुँच गद्य में नहीं होती, क्योंकि उसमें अनेक ऐसे विषयों का विवेचन या वर्णन तर्क-संयुत रहता है जो बुद्धि की प्रधानता से ही संभव है। भारतीय काव्य, जिसका श्रीगणेश ही छंद-वद्ध रचना से, अनायास या सप्रयास, हुआ है, गद्य को काव्यत्व की मर्यादा नहीं दे सका। उस समय गद्य का व्यवहार भी शुद्ध काव्य-कृति के नाम पर, नाटक की कुछ गद्यात्मक पंक्तियों के अतिरिक्त, नहीं होता था। आज से काव्यत्व की प्रतिष्ठा प्रायः सबा हजार वर्ष पहले महाकवि वाणभट्ट ने अपनी कादंबरी की रचना कर इस प्रचलित आस्था पर आघात किया और उनकी गद्यात्मक रचना के सौंदर्य पर

विमुग्ध होकर आचार्यों ने गद्य में भी काव्यत्व को स्वीकार किया। उस समय से ही काव्यत्व का देत्र गद्य और पद्य दोनों माना जाता है; किंतु लय और छंद का संबंध पद्यात्मक काव्य के ही साथ है और इस अध्याय में हम इसी विषय का विवेचन करेंगे।

हमें मनुष्य की उन स्वाभाविक वृत्तियों का विवेचन करना है जिनसे लय की उत्पत्ति होती है। जीवन में सुख-दुख का प्रभाव लय की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न रूप से पड़ता है और उससे भिन्न-भिन्न प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती हैं। हृषि के कारण समय नसों में रक्त-संचालन तीव्र हो जाता है और विषाद में वह शिथिल पड़ जाता है। मनुष्य हर्षोत्सुख होकर जो उछल-कूद मचाता है उसकी प्रेरणा नाड़ियों की गति देती है। अपने उज्जास की व्यंजना मनुष्य अपनी उन शारीरिक क्रियाओं से करता है जिसे नृत्त कहते हैं। नृत्त के इसी ताल का आरोप वाद्य पर किया गया है जो अपने सहयोग से मनुष्य की उमंगों को अधिकतर तीव्र कर देता है। नृत्त का यही क्रियात्मक लक्षण वाद्य में ताल की ध्वनि पर उतरा है। अनन्तर वाद्य की इसी लय का

आरोप भाषा पर किया गया है जिसका नियमन लय का आरोप भाषा पर छंद के द्वारा होता है। इतना तो निर्विवाद कहा

जा सकता है कि वाद्य की लय का पूरा सामंजस्य भाषा के साथ नहीं हो सका है। इसके संबंध में दो बातें हैं, एक

१ नृत्त और नृत्य में भेद है। 'भवेन्नावाश्रयं नृत्तं', 'नृत्यं ताललयाश्रयम्' जिसमें भाव मुख्य हो वह नृत्त और जिसमें ताल तथा लय का आश्रय हो उसे नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से नृत्य के १०८ भेद माने गए हैं, किंतु यहाँ उन भेदों के विवेचन का कुछ प्रयोजन नहीं है।

तो भाषा की अपनी स्वाभाविक लय-शक्ति है जो किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव से यथासंभव अपने को मुक्त रखने में समर्थ रही, और दूसरी कोई भी बाहरी शक्ति दूसरे पदार्थ पर पूरी तरह व्याप्त भी नहीं हो सकती। [१८३८] संस्कृत काव्य में श्लोकों की श्रुति-मधुरता बहुत-कुछ भाषा की निजी संपत्ति है। हिंदी के आरंभिक छंदों में भी जो ढंग है वह छंद-विधान से अलग रहकर भी अपनी शक्ति का परिचय देता आया है। डिगल भाषा के काव्य में यह शक्ति बहुत स्पष्ट है। ]

लय के संबंध में पञ्चमी समीक्षकों का जो विचार है वह भारतीय दृष्टि से भी उपेक्षणीय नहीं २। कला के उच्छ्वास भिन्न-

१ डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास' में डिगल के संबंध में लिखा है कि डिगल काव्य पिंगल से अपेक्षा-कृत प्राचीन है। जब ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई और उसमें काव्य-रचना होने लगी तब दोनों में अंतर बतलाने के लिए दोनों में नामकरण हुए। इतना तो निश्चित है कि ब्रजभाषा में काव्य-रचना होने के पूर्व से ही राज-स्थान में काव्य-रचना होने लगी थी। अतएव पिंगल के आधार पर डिगल नाम होने की अपेक्षा, उनकी समझ से, यही उचित ज्ञात होता है कि डिगल के आधार पर ही पिंगल शब्द का उपयोग किया गया होगा। किंतु छंद-शास्त्र के प्रणेता ऋषि का नाम भी पिंगल ही माना जाता है, अतः डा० वर्मा के इस पूर्वापर नामकरण की युक्ति संदेह से खाली नहीं है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका (भाग १४, अंक २, पृष्ठ २२४) के अनुसार एक मत यह भी है कि डिगल शब्द की उत्पत्ति दिम् (दम्) गल से हुई है। दिम् (दम्) का तात्पर्य दमरु ध्वनि से है और गल का तात्पर्य गले से है, गले से दमरु की ध्वनि के समान गुंजित होनेवाली।

२ अंग्रेजी का Ballad (ग्रामगीत) शब्द Ballate, to dance (नाचना) से बना है। विश्व-साहित्य में ग्रामगीत की जो प्रवृत्ति है उससे भी इस तथ्य का प्रतिपादन हो जाता है।

भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त होने हैं। आनंद की सत्ता नृत्त से, वाद्य से, गान से, लय के रूप में प्रकट होती है। नृत्त वाद्य गान लय और संगीत त्रयं संगीतमुच्चयते—नाचना, बजाना, गाना तीनों को संगीत कहते हैं। नाचना मनुष्य की कला-प्रियता का पहला विकास है। पद में यही तत्त्व पीछे विकसित होकर आ मिला है। पद या काव्य का संवध गान से कुछ बातों में अपेक्षाकृत अधिक निकट मालूम पड़ता है। किंतु, लय की उत्पत्ति गान से नहीं है। लय गान से पहले की अवस्था है। बिना पद की सहायता से भी लय की गति व्यक्त की जा सकती है। विना अर्थ जाने हुए ही संस्कृत के श्लोकों को गुन-गुनाते हुए मैंने बहुतों को देखा है। बाँसुरी की तान या बीणा की भंकार में पद तो अव्यक्त रहता है, किंतु उसकी लय की गतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। ताल पर नाचने की क्रिया से भी यह प्रकट है कि लय अपनी अभिव्यक्ति केलिए पद को कोई अनिवार्य साधन

पद और लय नहीं समझती। मनुष्य की यही लयात्मक प्रवृत्ति स्वरैक्य तथा समरूपता को पद पर आरोपित कर देती है और इस प्रकार पदावली अधिक भावुकतापूर्ण तथा स्मरणीय हो जाती है। इसके साथ यह भी याद रखने की बात है कि भाषा का जो अपना बोधात्मक पक्ष है वह स्वतः लय-संपन्न रहता है। मनुष्य की लयात्मक प्रवृत्ति उसको अधिकतर श्रुति-मधुर तथा प्रभविष्युतापूर्ण बनाने की इच्छा से ताल के ढंग पर पद-विन्यास करती है और उससे इच्छित स्वर-साधन कर छंद की मुहर बैठा देती है। इस प्रकार छंद एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का कृत्रिम बंधन है। यह कृत्रिमता स्वाभाविक लय के स्वरैक्य तथा

समरूपता की रक्षा के प्रयत्नस्तरूप होती है। भाषा की जो स्वाभाविक लय-प्रवणता है, वह कभी-कभी छंदों का बंधन ढीला पाकर स्वतः गतिमय हो जाती है। जैसे—

कहीं पै स्वर्गीय कोई बाला सुमन्त्र वीणा बजा रही है।  
छरों के संगीत की सी कैसी उरीली गुजार आ रही है॥  
हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है।  
निराली लय है औ लीनता है अलाप अङ्गुत मिला रहो है॥

—श्रीधर पाठक

इस प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी है, जहाँ भाषा की स्वाभाविक लय-शक्ति छंद में आवद्ध होकर उसकी लय के साथ-साथ गतियाँ उत्पन्न करती है—

ब्रज नव तहनि कदंब मञ्जुष-मनि स्यामा आजु बनी ।  
नख - सिख लौं अँग-अंग माझुरी मोहे स्याम धनी ॥  
यों राजति कवरी गृथित कच कनक-कंज-घदनी ।  
चिकुर चंद्रिकन बीच अधर बिधु माजौ ग्रसित फनी ॥  
सौभग रस सिर ल्वत पनारी प्रिय सीमंत ठनी ।  
भ्रुकुटि काम-कोढंड नैन - सर कजल रेख - अनी ॥  
भाल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी ।  
दसन कुंद सरसाधर पल्लव पीतम - मन - समनी ॥  
हित हरिवंश प्रसंसित स्यामा कीरति बिसद धनी ।  
गाघत स्वननि छुनत छुखाकर विस्व-दुरति-द्वनी ॥

—हित हरिवंश

भारतीय साहित्य में पद्यवद्ध काव्य का मूल आदिकवि बालभीकि की उस कस्णा-प्रेरिते अभिव्यक्ति से माना जाता है जो इन्होंने तमसा नदी के किनारे काम-प्रमत्त क्रौंच-दंपति में से एक

नर क्रौंच का वध व्याघ-द्वारा होते देख तथा वियुक्त क्रौंची के विद्रध विलाप को सुनकर निकाली थी ।

“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः ।

यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्” ॥

यह कह चुकनेपर इसका अर्थ मन ही मन विचारने के बाद ऋषि वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई और तब उन्होने अपने समीपस्थ शिष्य भरद्वाज से कहा—

“पादवद्वोऽक्षरामस्तंत्रीलय समन्वितः ।

शोकात्मक्य प्रवृत्तो मे शोको भवतुन्यात्यथा” ॥

देखो, यह श्लोक मैंने शोकात्म हो उच्चरित किया है । इसमें चार पद हैं, प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और यह वीणा पर भी गाया जा सकता है । अतः यह मेरा यशोरूप हो ।

अनुष्टुप् छंद में प्रतिष्ठित यह वाणी वीणा पर भी गेय है । इससे यह सिद्ध होता है कि वीणा की लय छंद-विधान से पहले

लय और छंद-विधान ही निश्चित हो चुको थी । सारी रामायण ही लब-कुश ने वीणा पर गाई है । कवि की वाणी ने स्वयं अपना लक्षण साधारण रूप से बता दिया है और ‘तंत्री-लय-समन्वित’ कर श्लोक की रागात्मक विभूति बढ़ा

१ अंग्रेजी में लीरिक कविता (Lyrics) का छंद-विधान Lyre (वीणा) शब्द से ही प्रतिपादित होता है जिससे प्रमाणित हो जाता है कि उक्त ढंग की रचना वीणा का स्वर निश्चित हो जाने के बाद ही हुई । हिंदी में ऐसी कविताएँ मुक्तक कही जाती हैं । रस-पद्धति के अनुसार नामकरण बहुत उपयुक्त है, किंतु लय की दृष्टि से अंग्रेजी लीरिक कविता की तरह इन्हें वैणिक कहना भी अनुपयुक्त न माना जायगा ।

दी है। छंद-शास्त्र के अनुसार श्लोक अनुष्टुप् के चारों चरणों में पाँचवाँ वर्ण लघु तथा छठा दीर्घ होता है। समपदों में सातवाँ भी लघु रहता है। अन्य वर्णों केतिए अपवाद रखकर इसमें विशेष नियम-विधान नहीं किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी वंदना के रूप में इस श्लोक अनुष्टुप् का उपयोग किया है—

“वर्णनामर्थं संधानां रसानां छंदसामपि ।

मंगलानां च कर्त्तरौ धंदे वाणीविनायकौ” ॥

[छंदों का विधान दो पद्धतियों के अनुसार किया गया है, एक वर्णिक दूसरा मात्रिक। वर्णिक छंद में वर्णों का, लघु-गुरु के अनुसार क्रम और संख्या, आदि से अंत तक, समरूप है। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की संख्या, यति-नियम के साथ, निश्चित रहती है, अचर न्यूनाधिक हों तो हानि नहीं।] इसमें एक-एक निश्चित स्थान पर लय की गति मुड़ती है, किंतु वर्णिक का प्रत्येक चरण, आदि से अंत तक, स्वरैक्य होकर चलता है। यति और गण के नियमों से छंदों में लय की तरंगों का तारतम्य रखा जाता है। ये नियम मनुष्य की श्वास-प्रश्वास की स्वाभाविक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ऐसे लंबे पद् या चरण नहीं खींचे जाते जिनसे श्वास-क्रिया की सुगमता में कोई वाधा हो और पद का क्रम भी अनायास भंग हो जाय। इसी दृष्टि से वर्णिक में २६ तथा मात्रिक में ३२ से अधिक वर्णों या मात्राओं के छंद दंडक कहलाते हैं। दंडक का तात्पर्य श्वास-क्रिया को दंड देने या आधात पहुँचाने से ही है।

वर्णिक छंदों में द्रुतविलंबित, शार्दूलविक्रीड़ित, मंदाक्रांता,

वंशास्थ आदि तथा मात्रिक में हरिगीतिका, सार, वीर, सरसी आदि वर्णिक छंद का उयादा उपयोग में लाए जाते हैं। अब कुछ लय-विन्यास उदाहरण केलिए लय के अनुरूप छंदों की सूक्ष्म परीक्षा कर देखना चाहिए—

भावों भरा मुरलिका स्वर मुराधकारी,  
आदौ हुआ महत साथ दिगंतव्यापी ।  
पीछे पड़ा श्रवण में बहु भादुकों के,  
पीयूष के प्रसुद्वर्धक विदुओं सा ।

—हरिओध

यह वसंततिलका छंद है और गण-विचार से 'त भ ज ग ग' का समन्वय माना जाता है। ध्वनि-विश्लेषण करने पर लघु-गुरु के अनुसार इसकी लय-तरंग इस प्रकार चलती है—

55—॥1—॥1—॥1—॥1—5—5

विशेष स्पष्टीकरण केलिए वर्णों के साथ गुरु-लघु का तारतम्य इस प्रकार देखा जा सकता है—

भावों भरा मुरलिका स्वर मुराधकारी ।

55 15 |||5 ॥ 555

आदौ हुआ महत साथ दिगंत व्यापी ।

55 15 ||| ॥1 ॥1 55

इस प्रकार लय की तरंग एक निश्चित नियम के अनुसार एक-रूप होकर चलती है और ध्वनि के पारस्परिक सामंजस्य के कारण जो लय निस्सृत होती है, उसका नाम वसंततिलका रखा गया है।

सुखा जाता कमलमुख था हॉंठ नोला हुआ था ।

दोनों आँखें विपुल जल में हूबती जा रही थीं ।

शंकाएँ थीं विकल करतों कॉपता था कलेजा ।

खिलना दीना परम मलिना उन्मना राधिका थी ॥

—हरिओध

यह मंदाक्रांता नाम का वर्णिक छंद है और गण-विचार से 'म भ न त त ग ग' का समन्वय है। इसका ध्वनि-विश्लेषण इस प्रकार है—

SSS—S||—|||—SS|—SS|—SS

ध्वनि-सामंजस्य के साथ पद-योजना इस प्रकार की जाती है—

सूखा जाता कमलमुख था हौंड नीला हुआ था ।

SS SS ||||| S S| SS IS S

दोनों आँखें विपुल जल में डूबती जा रही थीं ।

SS SS ||| || S S|S S IS S

एक और वृत्त का उदाहरण ले लीजिए—

विसुग्धकारी मधु मंजु मास था

वसुंधरा थी कमनीयतामयी

विचिन्ता साथ विराजिता रही

वसंत वासंतिकता वनांत में

नवीनभूता वन की विभूति में

विनोदिता वेलि विहंग वृंद में

अपूर्वता व्यापित थी वसंत की

लिङुंज में कृजित कुंज-पुंज में

—हरिभौध

यह वंशस्थ नाम का वर्णिक छंद है। गण-विचार से यह 'ज त ज र' का समन्वय है। इसका ध्वनि-विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है—

I|—SS|—I|—I|

लघु-गुरु के अनुसार पदावली के वर्ण इस प्रकार खपते हैं—

विसुग्धकारी मधु मंजु मास था ।

IS SS || S| I| S

वसुधरा थी कमनीयता मयी ।

।।१५५ ॥१५६ ।।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्णवृत्त लय की एक निश्चित प्रणाली पर वैधे हुए चलते हैं। एक पंक्ति के साथ लय का विवेचन दूसरी पंक्ति का लयात्मक संबंध रहता है। नदी के बज्ज़ःस्थल पर हवा के झोके से जो कभी हल्की तरंगें और कभी उत्ताल तरंगें उठती हैं वे एक-दूसरे से अपनी समानता रखती हैं। यदि तरंगों में किसी प्रकार की एकता न रहे तो वे न तो अपनी सत्ता प्रकट कर सकतीं और न मनोमुग्धकर बन सकती हैं। पद-योजनाएँ भी लघु-गुरु के अनुसार अगणित रूप से की जा सकती हैं और उनके अनेक नामकरण किए जा सकते हैं, किंतु छंद-शास्त्र में कुछ सर्वमान्य निश्चित योजनाएँ ही रखी गई हैं। लयात्मक वृत्ति के आधार पर पद-विधान का भविष्य खुला हुआ है। कृतविध कवि, जिन्हें मनुष्य की उन वृत्तियों की पहचान है जो आकर्षण के तत्त्व पर केंद्रित होती हैं, किसी प्रकार की प्रणाली को निश्चित कर वर्णिक छंद की प्रतिष्ठा कर सकते हैं।

मात्रिक छंद का विधान भी मूल-रूप से लघु-गुरु वर्ण या मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, परंतु वर्णिक की तरह इसमें एक

पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति का क्रमागत लयात्मक मात्रिक छंद का संबंध नहीं रहता। इसमें भी ध्वनि की मात्राएँ लय-विन्यास निश्चित रहती हैं, किंतु एक-एक ध्वनि-समूह का बाह्य खंड मानकर लघु या गुरु मात्रा को अनिवार्य कर प्रत्येक पंक्ति की लयात्मक समानता प्रतिभासित कराई जाती है। प्रत्येक चरण में निश्चित स्थल पर, निश्चित मात्रा, लघु या गुरु, रखी जाती

है। ऐसे दो निश्चित स्थलों के मध्य की ध्वनि का व्यतिक्रम इसमें उल्लेखनीय नहीं माना जाता। निश्चित क्रम के अनुसार पद में लघु-गुरु का सञ्चिवेश स्वतः एक ऐसा लयात्मक स्वर उत्पन्न कर देता है जो अपने आवरण में कुछ ध्वनियों की अनियमितता को छिपा लेती है।

क्षत्राणियों के अर्थ भी सब से बड़ा गौरव यही—

सज्जित करें पति-पुत्र को रण के लिये जो आप ही।

जो वीर पति के कीर्तिपथ में विघ्न-वाधा ढालती—

होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती।

—मैथिलीशरण गुप्त

यह मात्रिक छुंद हरिगीतिका है। इसमें कुल अट्टाइस मात्राएँ होती हैं, किंतु सोलह और बारह मात्राओं पर विराम पड़ते हैं। प्रत्येक चरण में लय के संचरण के लिए पाँचवीं, बारहवीं, उन्नीसवीं तथा छब्बीसवीं मात्राएँ लघु रहती हैं। अंतिम दो मात्राओं में पहली लघु और दूसरी दीर्घ होती है। इस प्रकार इस छुंद का लयात्मक रूप ऐसा होता है—

क्षत्रा णि यों के अर्थ भी सब, से बड़ा गौरव य ही।

सज्जि त करे पति पुत्र को रण, के लिए जो आप ही

जो वीर पति के कीर्ति - पथ में; विघ्न वाधा ढालती

होकर सती भी वह कहाँ क, त्त व्य अपना पालती

उपर के विश्लेषण से यह प्रकट है कि अट्टाइस मात्राएँ होने से ही हरिगीतिका छुंद का सारा काम नहीं चल जाता, प्रत्युत् निश्चित स्थान पर लघु-दीर्घ तथा विराम के अवस्थान अनिवार्य

हैं। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की संख्या ही निश्चित कर देना काफी नहीं है, लय-विधान केलिए उसमें स्वर के कुछ नियमों का पालन भी आवश्यक है। इसको अधिकतर स्पष्ट करने के विचार से अट्राइस मात्राओं का ही एक दूसरा मात्रिक सार छंद देखिए—

कँटों के पथ में भी कैसा है आलोक निराळा,  
जिससे क्लेश न पाता है वह दौड़ लगानेवाला,  
है कोई जो जरा दयाकर सुझको यह बतला दे,  
कैसे अमर बनाता उसको विष का तीता व्याळा।  
क्या देखा उसने जो जग की ममता को बिसराया,  
निकल पड़ा लू की लपटों में तजकर शीतल छाया।  
जग की मोहकता ने उसको चाहा खूब रिहाना,  
रोक न सके मिले सब जाकर अपना और पराया।

—‘कैरव’

सार छंद में भी हरिगीतिका की तरह अट्राइस मात्राएँ होती हैं और उसी प्रकार सोलह और बारह मात्राओं पर विराम होते हैं, किंतु चरण के अंत में दो दीर्घ वरणों के अतिरिक्त हरिगीतिका जैसा मध्यवर्ती लघुत्व के निश्चित नियम नहीं है। ये नियम लय पर कितना आधिपत्य रखते हैं, यह बात दोनों छंदों को मिलाकर पढ़ने या सुनने से स्पष्ट हो जाती है। हरिगीतिका में अट्राइस मात्राओं के आदि-अंत दो विदुओं के बीच कई लयात्मक तरंगें उठती हैं जो स्वर की मध्यरेखा के ऊपर-नीचे जाकर लचक उत्पन्न करती हैं, परंतु सार छंद में स्वर की मध्यरेखा लगभग एक तरह से ही विराम पर कुछ रुकती हुई चली जाती है। अंतिम विराम के स्थान पर दो दीर्घ वरणों के उच्चारण से, श्वास-संपत्ति का, जो

मध्यवर्ती न्यायिक विराम से थोड़ी शक्ति संचित कर लेती है, हास हो जाता है। लय-विज्ञान की यही विशेषता समान मात्राओं के छंदों में भी भिन्न स्वर उत्पन्न कर देती है। अब एक तीसरा मात्रिक वीर छंद का उदाहरण लीजिए—

कभी लोभ-सी लंबी होकर कभी तृप्ति-सी होकर पीन,  
क्या संसुति की अचिर-भूति तुम सजनि नापती हो स्थिति हीन।  
श्रमित, तृष्णित अवलोक पथिक को रहती हो यों दीन-मलीन,  
ऐ विद्यो की व्याकुल प्रेयसि विश्व-वेदना में तल्लीन।

\* \* \* \*

गाझो-गाझो विहग-बालिके तख्वर से मिल मंगल-गान  
मैं छाया में बैठ तुम्हारे कोमल स्वर में कर लूँ स्नान।  
हाँ, सखि आझो, बाँह खोल हम लगकर गले जुड़ावें प्राण  
फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जावें द्रुत अंतर्धान।

— उमिन्नानंदन पंत

यह इकतीस मात्राओं का वीर छंद है। इसमें आठ-आठ तथा पंद्रह मात्राओं पर विराम और अंत में गुरु तथा लघु मात्राएँ होती हैं। इसमें भी स्वर की मध्यरेखा लय की दो-तीन तरंगें ऊपर-नीचे देती हुई अंतिम विराम पर उच्छ्रूसित हो उठती है। ढोल की गंभीर चोट पर फड़कता हुआ अलहैतों का यह गीत कितना वीरदर्पपूर्ण है—

बारह बरिस लै कूकर जीएँ और तेरह लै जिएँ सियार।  
बरिस अदारह छन्नी जीएँ, आगे जीवन के धिक्कार॥

बुर्जिक तथा मात्रिक के अतिरिक्त एक प्रकार का और छंद है जिसे पूर्वापर विरोध के रूप में मुक्त छंद कहा जाता है। यह एक

पद्य-हीन व्यवस्था है। एक क्रांतिकारी योजना के रूप में हिंदू में यह प्रविष्ट कराया गया है<sup>१</sup> शुरू-शुरू हिंदी में जयशंकर प्रसाद

मुक्त छंद का ने मुक्तवृत्त के अनुसार रचना की थी, किंतु अब श्रीगणेश निराला इसके मुख्य पुरोहित माने जाते हैं<sup>२</sup> यह पश्चिमी बीज का पूर्वी अंकुर है। अमेरिकन कवि वाल्ट विहटमैन ( Walt Whitman ) ने छंद-बद्धता की प्रतिक्रिया से छंदहीन कविता का श्रीगणेश अंग्रेजी में किया और अपनी आरंभिक कविताओं का एक संग्रह ‘धास की पत्तियाँ’ ( Leaves of grass ) के नाम से प्रकाशित कराया। ‘धास की पत्तियाँ’ जैसे सब बराबर नहीं होतीं, कोई बड़ी और कोई छोटी, वैसे ही ऐसी कविताओं की पंक्तियाँ सब समान नहीं होतीं, कोई बड़ी और कोई छोटी होती हैं। इस संग्रह के प्रकाशन के बाद भी उनकी काव्य-रचना अपने ढंग पर चलती रही। स्वेज-नहर खुल जाने पर उन्होंने ‘भारत का पथ’<sup>३</sup> शीर्षक एक लंबी पद्य-हीन कविता रची। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से इस स्वच्छ-छंदता

१. Passage to India एक लंबी रचना है। उदाहरण केलिये उसकी कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर दी जाती हैं।

Passage to India !

Struggles of many a captain, tales of many a sailor dead,  
Over my mood steaming and spreading they come,  
Like clouds and cloudlets in the unreacted sky.

\* \* \* \*

O we can wait no longer,  
We too take ship, O Soul,  
Joyous we too launch out on trackless seas,  
Fearless for unknown shores on waves of ecstasy to sail.

\* \* \* \*

की हवा बंगला को लगी और फिर उसकी पड़ोसिन हिंदी भी प्रभावित हुई।

जीवन में प्रतिक्रिया क्रांति होती रहती है। काव्य का द्वे त्रय भी इससे भिन्न नहीं। मनुष्य में साधारणतः दो तरह की प्रवृत्तियाँ

पाई जाती हैं। कुछ लोग भले-बुरे से निरपेक्ष दृढ़-विधान में क्रांति की प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्योंकि सापेक्षता

उनकी समझ से परिवर्तन अतीत का अपमान है। दूसरे ढंग के लोग नवीनता के नाम पर विवेक-शूल्य होकर

सर्वग्राही बनते हैं। इनकी समझ में नवीनता ही जीवन है। इन दोनों से भिन्न एक तीसरी प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो हिताहित के

विचार से ही प्राचीनता तथा नवीनता का स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में कुछ क्रांतियाँ ऐसी होती हैं जो धीरे-धीरे परिवर्तन

करती जाती हैं और हम उनका तीव्र विरोध नहीं करते, कुछ कर भी नहीं सकते। इच्छा या अनिच्छा से अपने सामने वैसा ही

बातावरण देखकर उसमें प्रवाहित हो जाते हैं। वैज्ञानिक सभ्यता ने हमारी रहन-सहन, वेष-भूषा, खान-पान यहाँ तक कि कुछ

अंशों में भाव-विचार की वाह्य-अभिव्यक्ति में भी इतनी क्रांति कर

Passage to more than India,  
Are they wings plumed indeed for such far fights ?  
O Soul, voyagest thou indeed on voyages like those ?  
Disportest thou on waters such as those  
Soundest below the Sanskrit and the Vedas  
Then have thy bent unleash'd.

—Walt Whitman.

दी है कि परंपरागत प्राचीन मानव के साथ जब हम अपने आधुनिक जीवन की तुलना करते हैं तब अंतर स्पष्ट हो जाता है। परंपरा या परिपाठी को अधिक दिनों तक यथासंभव एकरस चलाने केलिए यह आवश्यक है कि उसके नियमों का विधान कर उसपर धार्मिकता का आवरण बढ़ा दिया जाय । धर्म की स्थिति सत्य पर है, और सत्य चिरंतन है, अतः धार्मिकता जिस

परंपरा या नियम के साथ लिपटेगी उसे अपनी छंद-विधान में शक्ति से बहुत दूर तक वह खींचती चली जायगी। धार्मिकता

पिंगल ने छंद-शास्त्र का विधान किया और उस पर धर्म की मुहर लगाकर कवि-समाज के सामने रख दिया। जिस वस्तु में कुछ तथ्य रहता है उसी को धर्म अपनी शक्ति के साथ खींचकर बढ़ा सकता है, किन्तु, तथ्यहीन वस्तु को धर्म रुद्धि बनाकर भले ही खींचता चला जाय, उसमें जीवन की प्रांजलता नहीं भलकेगी। छंद में जहाँतक लय-तत्त्व का संबंध है वहाँतक वह रुद्धिप्रस्त नहीं माना जा सकता। वह जीवन की चिरंतन उद्घावना है। क्रांति वही सफल होती है और समझी जाती है जो जीर्ण रुद्धि के स्थान में नवीन जीवन अनुप्राणित करने में समर्थ हो। मनुष्य की कृति में परिवर्त्तन करना संभव है और समयानुसार उसमें संशोधन, परिवर्द्धन या परिवर्त्तन करना भी

<sup>१</sup> It is essential to every religion that its heritage should be treated as sacred. A society which puts a halo of sanctity round its tradition gains an incalculable advantage of power and permanence. The Vedic tradition became surrounded with sanctity and so helped to transmit culture and ensure the continuity of civilisation.

Sir S. Radhakrishnan: The Hindu View of Life, p. 18.

आवश्यक हो जाता है, किंतु इसी अभ्यास के अनुसार यदि प्रकृति के द्वेष में भी क्रांति का शंख फूँका जाय तो, प्रकृति की विभूति को भस्म करने की ज्ञमता के अभाव में, मानव-प्रयत्न ही नष्ट हो जायगा। जीवन में जो तत्त्व प्राकृतिक है उसे कोई क्रांतिकारी आंदोलन हिला नहीं सकता, लेकिन जो बाह्य और प्रक्षिप्त है उसमें क्रांति सफल हो सकती है।<sup>१</sup> इसी हृषिकेण मे-

हम मुक्त छ्रंद की समीक्षा आवश्यक मानते हैं।

मुक्त छंद और लय      छ्रंद से लय की स्वाभाविकता को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि छ्रंद में प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाला यही तत्त्व है। वंधी हुई योजना को तोड़कर, लय के अवस्थान को विस्तृत तथा संकुचितकर, नया विधान बनाया जा सकता है, निश्चित प्रणाली के रूप में लय के आधार पर नये-नये छ्रंद बनाये जा सकते हैं, लेकिन छ्रंद के मूल तत्त्व—लय—के वहिष्कार से स्वयं प्रकृति—मानव प्रकृति—विद्रोह कर उठेगी! मुक्त छ्रंद की पंक्ति में मात्रा या बगँका न्यूनाधिक्य कोई खास बात नहीं है। पर उसके उच्चारण या अभिव्यक्ति की कोई ऐसी मर्यादा अवश्य रहनी चाहिए जो जन-साधारण, कम-से-कम संस्कृत रुचिवाले को भी, रमा सके। केवल अनोखा या विस्मयकारक पदार्थ हृदय को प्रलुब्ध नहीं कर सकता। इससे उस वस्तु का महत्त्व भी बढ़ता नहीं। जब हमारा विस्मय या जिज्ञासा दूर हो जाती है तब हमारे लिए उसमें कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता। गाँव में ऊँट आया ऊँट! चलकर देखा, उसके डील-डौल, उसकी वृत्तियाँ, बस इसके साथ ही उस अद्भुत जीव का सारा अनोखापन जाता रहा। जीवन की इसी प्रवृत्ति के परितोष से काव्य का काम नहीं चल सकता।

उसे कुछ ऐसी वस्तु चाहिए जो रमणीय हो, जिसमें चेतनता प्रवाहित हो सके और जो प्रत्येक ज्ञान नवीनता का संदेश सुना सके।

कीर्ति-शोष आचार्य रामचंद्र मुक्त के अनुसार 'पद्म-व्यवस्था' से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत-काव्यों के

अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत मुक्त छंद का विवेचन में वैधी हुई राग-रागिनियाँ हैं, पर योरोप में

संगीत के बड़े-बड़े उस्ताद अपनी अलग-अलग नाद-योजना या स्वरमैत्री चलाया करते हैं।<sup>१</sup> उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ। वहाँ की देखा-देखी हिंदी में भी चलाया गया।<sup>२</sup> मुक्त छंद, भिन्न तुकांत या अतुकांत कविताओं की रचना प्रत्येक कवि ने अपने ढंग से की है। एक की रचना के साथ दूसरे की समानता नहीं है। इसका कारण यही है कि किसी निश्चित विधान के अभाव में प्रत्येक कवि ने अपनी इच्छा के अनुकूल रचना-विधान माना है। मुक्त छंद के स्वच्छंद उन्नायक निराला के अनुसार 'जहाँ मुक्ति रहती है वहाँ बंधन नहीं रहते, न मनुष्यों में, न कविता में। मुक्ति का अर्थ ही है बंधनों से छुटकारा पाना। यदि किसी प्रकार की शृंखलावद्व नियम कविता में मिलता गया तो वह कविता उस शृंखला से जकड़ी हुई ही होती है, अतएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते, न उस काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैं'।<sup>३</sup> किंतु यह तो कहने की बात है। वस्तुतः मनुष्य की कोई भी रचना शृंखला से खाली नहीं होती। अपने भाव, विचार, क्रिया सब में एक तारतम्य है, सामंजस्य है। एक

<sup>१</sup> शुक्ल—हिंदी साहित्य का इतिहास—पृष्ठ ७७४।

<sup>२</sup> निराला—परिमल, भूमिका, पृष्ठ २१।

व्यक्ति के साथ दूसरे का सामंजस्य स्पष्ट रूप में भले ही दिखलाया न जा सके, पर व्यक्तिगत ढंग से प्रत्येक का कर्म शृंखलावद्वा होता है। विराट् प्रकृति के भी निश्चित नियम हैं, फिर छुट्र मनुष्य उससे पृथक् कैसे हो सकता है ! अपनी भावना की अभिव्यक्ति के लिए यदि किसी नियम या शृंखला का आश्रय न लिया जाय तो वर्ण, पद या वाक्य के द्वारा हुए अपने को व्यक्त ही नहीं कर सकते और यदि करें भी तो दूसरों के निकट उस विशृंखला अभिव्यक्ति का अर्थ ही क्या होगा । नियम ही अर्थ है। कविता केलिए तो प्रकृत अर्थ के अतिरिक्त स्वर और लय का विशेष अर्थ भी आवश्यक है। निराला भी सामंजस्य की आवश्यकता को मानते हुए कहते हैं कि 'जिस तरह बेदों के बाद मुक्त भाषा व्याकरण में बँधती गई और अनेकानेक रूपों से बेदों से भावजन्य सामंजस्य रखती गई है उसी प्रकार संगीत संस्कृत में आकर, छंद-ताल-वाद्य आदि में बँध गया है और इस तरह संगीत के अर्थ से समवेत सभ्यजनों के पवित्र आनंद का साधक हो गया है' ।<sup>१</sup>

कृत्रिमता तथा परंपरा के बंधन के नाम पर छंद के त्याग की बात चलती है। जिनमें प्राकृतिकता न हो, यदि ऐसी सभी वस्तुओं के बहिष्कार का अंदोलन चल निकले तो, कुछ कृत्रिमता और नम्रतावादियों के अतिरिक्त, कृत्रिम परिधान के परंपरा नाम पर बस्त्राभूषण का संहार करनेवाले कितने शुद्ध प्रकृतिस्थ मिलेंगे, यह कल्पना की बात है। इस कृत्रिमता का संबंध अब सभ्यता के नाम पर मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति के साथ हो गया है। सतत नियम-भेंग केलिए भी किसी नियम-

<sup>१</sup> निराला—गीतिका: भूमिका, पृष्ठ २।

विधान की आवश्यकता पड़ जाती है। मुक्त छंद को यदि निर्बंध छोड़ दिया जाय, तो वह काव्य के प्रयोजन का नहीं रह सकेगा, क्योंकि किसी निश्चित प्रणाली के अभाव में प्रत्येक कवि अपनी-अपनी सूचि के अनुसार ही उसकी रूप-रेखा बनावेगा। उसका ऐसा कोई सर्वमान्य या बहुमान्य रूप नहीं रह जायगा जो उसे काव्य के द्वारा तक पहुँचा सके। काव्य का परिधान सर्वमान्यत्व से रंगा होना चाहिए। गम्य छंद-व्यवस्था से मुक्त है, किंतु सभी

प्रकार की व्यवस्थाओं से वह मुक्त नहीं हो सकता।

**मुक्त छंद का विधान** उसमें वंधुत्व नहीं है, यह ठीक है, पर निर्बंधत्व के बिना भी उसकी कोई रूप-रेखा नहीं बन सकती। समीक्षा केलिए कुछ उदाहरण देखिए—

दिवावसान का समय  
मेघमय आसमान से उत्तर रही है  
वह संध्या सुंदरी परी-सी  
धीरे धीरे धीरे  
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास,  
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर—  
किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें दास-विलास,  
हँसता है तो केवल तारा एक,  
गुँथां हुआ उन धुँधराले काले बालों से,  
हृदय-राज की रानी का वह करता है अभियेक।

—निराला

इसमें संध्या का वर्णन एक नारी के रूप में किया गया है, परंतु हमें यहाँ वर्णन की समीक्षा न कर वर्णन करने की प्रणाली की समीक्षा करना है। इसमें न वर्णवृत्त है और न मात्रा-बंधन, है केवल दोनों प्रणालियों का मूलोच्छेद !

इस प्रकार का एक और उदाहरण लें—

सोती थी

जाने कहाँ कैसे प्रिय आगमन वह ?

नायक ने चूमे कपोल,

डोल उठी बलुरी की लड़ी जैसे हिंडोल ।

इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा माँगी नहीं,

निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूँदे रही,

अथवा मतवाली थी

यौवन की मदिरा पिये कौन कहे ?

निर्दय उस नायक ने निपट निदुराई की

कि शोंकों की झड़ियों से

सुंदर सुखमार देह सारी झकझोर डाढ़ी,

मसल दिये गोरे कपोल गोल

चौंक पड़ी युवती—

चकित चितवन निज चारों ओर फेर

हेर व्यरे को सेज पास

नम्रमुखी हँसी—खिली

खेल रंग प्यारे संग ।

—निराला

ऐसी पद्य-व्यवस्था-हीन कविताओं में छंद-बंधन के त्याग का साहस तो है, किंतु रीतिकाल की परंपरागत प्रवृत्ति से पुष्ट विभावत्व

ज्यों-के-स्यों हैं। कवि का यह दावा है कि ऐसी

सुरक्षित की लयात्मक प्रवृत्ति पद्यहीन रचना में भी लयात्मक संबंध रहता है

और रखा जा सकता है। प्रायः दस-बारह वर्ष

हुए काशी में कवि के मुख से गाया जाकर मुझे इसे सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उस समय की धारणा अब ताजा

नहीं है, परंतु कवि की प्रतिभा में कोई संशय नहीं। तीन-चार पंक्तियों के छंद में भी विचारपूर्वक यदि स्वर-मैत्री रखी जाय तो लयात्मक प्रवृत्ति की बहुत-कुछ रक्षा संभव हो सकती है, अन्यथा अभी जां कुछ है वह कवि को परितोष भले ही दे, लेकिन समरूपता के अभाव में काव्य-जगत् में इसका व्यवस्थित प्रसार संदिग्ध ही बना रहेगा। ध्यान से विचार करने पर उपर्युक्त रचना में भी कहीं-कहीं छंदवद्वता का सौंदर्य देखा जा सकता है। जहाँ कवि के हृदय में भावना निगृह हो गई है वहाँ स्वाभाविक रूप से मित्राक्षर आ गए हैं और एक लय उत्पन्न हो गई है। कहीं अनावश्यक स्वरपात देकर, रुक-रुक कर पढ़ना पड़ता है और कहीं एक ही सॉस में पंक्ति पूरी हो जाती है। यदि पद-व्यवस्था के समय हिंदी उच्चारण की वैज्ञानिक विशेषता को ध्यान में रखकर स्वर का गति-भंग न होने दिया तो मुक्त छंद की लोक-प्रियता बढ़ सकती है।

सुमित्रानंदन पंत भी मुक्त छंद के उच्चायकों में गिने जाते हैं। राग या स्वर की गति को पहचानने का विवेक निराला से पंत में पंत का विचार ज्यादा है। उनके अनुसार 'अन्य छंदों की तरह मुक्त छंद भी हिंदी में हस्त-दीर्घ मात्रिक-संगीत की लय पर ही सफल हो सकता है।' छंद का राग भाषा के राग पर निर्भर रहता है, दोनों में स्वरैक्य रहना चाहिए। जिस प्रकार गवैया तानपूरा के स्वरों से कंठ-स्वर मिलाकर गाता और स्वतंत्रता-पूर्वक तान तथा आलाप लेने पर भी उसके कंठ का तंबूरे के स्वरों के साथ सामंजस्य बना ही रहता तथा ऐक्य-भंग होते ही बेसुरा हो जाता, उसी प्रकार छंद का राग भी भाषा के तारों पर भूलता और

जहाँ दोनों में मैत्री नहीं रहती वहाँ छंद अपना स्वर खो बैठता है' । यदि लय के साथ इतनी सहदयता दिखाई जाय तो वस्तुतः मुक्त छंद से घबड़ाने की कोई बात नहीं, प्रत्युत् हिदी कविता को एक नई और रमणीय भूमिका मिलेगी जिसपर उसके नवजीवन का विकास उद्घासित हो सकेगा । ।

किसी पुस्तक को पढ़कर सुनाने की अपेक्षा हमें मौखिक भाषण ही अच्छा लगता है। इसका प्रधान कारण यह है कि पढ़ पाठक और श्रोता कर कुछ बोलने में लय या स्वर की स्वाभाविक व्यवधान के बीच स्वर का गति में वाधा पड़ जाती है, उसका प्रकृत माधुर्य उद्घासित नहीं हो पाता। पुस्तक की मध्यस्थिता के कारण पाठक और श्रोता के बीच स्पष्ट संबंध नहीं रहता। जब पाठक एक पाठक के रूप में नहीं, प्रत्युत् एक वक्ता के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी वाणी का स्वाभाविक स्वर श्रोता तक पहुंचता है और उससे श्रोता को विषय-बोध के अतिरिक्त स्वर का आनंद भी मिलता है। यह वाणी के स्वर का ही माहात्म्य है कि बहुत से मनुष्य संस्कृत के श्रुति-मधुर झोकों को, बिना उनका अर्थ समझे भी, गुनगुनाया करते हैं। 'सद्यः प्रीतिकरो रागः'—राग से सहज ही प्रीति उत्पन्न होती है। यही उसकी विशेषता है।

यूरोप साहित्यिक वाद-प्रवादों का अखाड़ा है। काव्य के जितने भी मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं, भव को अलग-अलग खींच कर प्रवादी बना दिया गया है। इसी प्रकार प्रांस छंद-विधान में के एक साहित्यिक उत्थान का संवेदनावाद (Impressionism) है। फिल्ट (F.S. Flint)

१ छमित्रानंदन पंत—पछव : भूमिका, पृष्ठ ४५-४६ ।

के मूर्तविद्यानवाद (Imagism) के साथ प्रथि-बंधनकर कमिंग्ज (E. E. Cummings) ने काव्य को एक नई विलक्षण भूमिका दी है। संवेदनावाद का प्रयत्न काव्य को लय के अधिकतर निकट लाना है, पर शब्द की नाद-शक्ति का अवलंबन कर उससे बलात् अर्थ-व्यक्ति का काम लिया गया है। नादानुकृत शब्दों में जो ध्वनि है उससे हृदय में तदनुकूल संवेदना उत्पन्न होती है, यही

उनकी काव्य-प्रणाली का मूल माना जाता है।  
उसकी विशेषता

इस प्रणाली के अनुसार छंद के चरण-विन्यास का कोई निश्चित क्रम नहीं रहता। एक अक्षर का भी एक पूरा चरण माना जाता है। अक्षर-विन्यास, पद-भंग, पद-ल्लोप आदि इसकी विशेषताएँ हैं। पाठकों के लिए सब से कठिन प्रश्न दूरारूढ़ अर्थ-यात्रा है, अर्थात् व्याप्ति है। भाववाचक संज्ञा तथा यदि, किंतु, परंतु, और, फिर आदि अनेक अर्थ-व्यंजक उपसर्ग, अव्यय आदि का कोई महत्व नहीं रखा गया। समापिका किया तथा कृदंत का मूल्य कुछ है। हिंदी के पुराने अमृत-ध्वनि-छंद के साथ इसकी समानता केवल शब्द-विन्यास के रूप में, और वह भी बहुत थोड़ी, मानी जा सकती है। विशेषण-विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश-काल में कृदंत विशेषणों से ऊपर जा चुका था, किंतु प्राकृत की काव्य-प्रणाली में कृदंत विशेषण को एक निश्चित स्थान था। संवेदनावाद की प्रकांड विशेषता तो उसका चरण-विन्यास है। आधुनिक हिंदी कविता में भी अब इस विशेषता को बड़े सम्मान के साथ स्थान मिलने लगा है। कीर्ति-शेष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवेदनावाद की एक

अंग्रेजी कविता १ का जो हिंदी-रूपांतर किया है वह उदाहरण केलिए दिया जाता है २। किसी भाषा की लाक्षणिकता तथा विलक्षणता दूसरी भाषा में ठीक-ठीक उतारी नहीं जा सकती। अधिक-से-अधिक एक भाषा का जो प्रभाव दूसरी पर पड़ सकता है उसके अनुसार ही काम लिया जा सकता है। आवश्यक परिवर्तन के साथ इसका भारतीयकरण कर दिया गया है।

## सूर्यास्त

सं—दृश

स्वर्ण 'गुन' जाल

१ Sunset.

Stinging  
Gold swarms  
upon the spiros  
Silver  
Chants the litanies the  
great bells are ringing with rose  
the lewd fat bells  
and a lull

wind  
is dragging  
the  
sea  
with  
dream

—s.

२ चौबीसवें हिंदी साहित्य-सम्मेलन, इंदौर (संवत् १९९२) की साहित्य-परिवद्व के अध्यक्ष-पद से दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिभावण—पृष्ठ ९८-१०२।

शिखर पर

रजत

पाठ करता है  
बड़े-बड़े धंटे बजते हैं गेरु से  
मोटे निठले नगाड़े  
और एक उत्तुंग

पवन

खींचता है

सागर

को

स्वप्न

से

‘समुद्र के किनारे सूर्यास्त का यह वर्णन है। समुद्र की खारी हवा काटती-सी है। छूटते सूर्य की किरणों ऊँची उठी तरंग की श्वेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीली मधुमक्खियों संवेदनावाद की के फैले हुए भुंड-सी लगती हैं। वह ऊपर उठी अर्थ-यात्रा लहर देव-मन्दिर के मंडप-सी जान पढ़ती है जिस के भीतर पाठ होता है, बड़े-बड़े घटे बजते हैं, गेरु-से पुते दरवाजे होते हैं, नगाड़े बजते हैं, बड़ी तोंदवाले मोटे निठले पुजारी बैठे रहते हैं। हवा संमुद्र के जल को वैसे ही खींचती-सी जान पढ़ती है जैसे मछुआ। सूर्यास्त हो जाता है। फिर अंधकार होता है। लोग सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार द्राविड़ी प्राणायाम-जैसी अर्थ-यात्रा संवेदनावाद में कैसे की जाती है, इसका विवरण यह है कि ‘सं’ से सनसनाहट अर्थात् हवा चलने की और ‘दंश’ से चमड़ा फटने, पानी की ठंडक और मधुमक्खी के छंक भारने

की संवेदना उत्पन्न की गई है। ‘स्वर्ण’ से सूर्य की किरणों और मधुमक्खियों के पीले रंग का आभास दिया गया है। ‘गुन’ से गुनगुनाहट और गुंजार का संकेत किया गया है जो ‘दंश’ के साथ मिलकर मधुमक्खियों की भावना उत्पन्न करता है। ‘जाल’ भुंड का व्योतक है। ‘पाठ’ ‘घटे’ और ‘नगाड़े’ को मिलाकर मंदिरों में होनेवाले शब्द तथा समुद्र के गर्जन और छीटों की कल-कल का आभास दिया गया है। लटके हुए ‘घटे’ की मूर्त्ति भावना में लहरों के नीचे-ऊपर भूलने का भी संकेत है। ‘गेरु’ में संध्या की ललाई भलकाई गई है। ‘नगाड़े’ में निकली हुई ‘तोंद’ का भी संकेत है। रचना के प्रथम खंड में ‘सूर्य’ और ‘समुद्र’ शब्द नहीं रखे गए हैं, किंतु ‘स्वर्ण’ में तपे सोने के ताप और दमक की भावना रखकर सूर्य का और ‘रजत’ में शीतलता और स्वच्छता की भावना रखकर जल-राशि या समुद्र का संकेत कर दिया गया है। इसमें ‘स’ के अनुप्रास से भी सहायता ली गई है। यह अनुप्रास पहले खंड में ‘स’ अक्षर से आरंभ होनेवाले सूर्य और समुद्र शब्दों की ओर भी संकेत करता है। \*

संवेदनावाद का यह स्वरूप संकेतवाद या तथाकथित मूर्त्ति विधानवाद के ऊपर टिका हुआ है। संवेदना में जो प्रतीति होती है उसका कोई चिह्न इसमें नहीं, प्रत्युत् साहश्य या उसके सूक्ष्म सूत्र को पकड़कर कल्पना कितनी दूर भिड़ाई जा सकती है, यह स्पष्ट है। हिंदी कविता पर इसके रम्भ का प्रभाव बहुत ही कम पड़ा है, किंतु पद-भंगी चरण-विन्यास ने वस्तुतः अपना चरण-प्रसार कर दिया है।

बाल्ट हिंटमैन ने परंपरागत काव्य-पद्धति में क्रांति का जो संदेश दिया वह प्रोफेसर मैरिनिटी (Prof. Marinetti) के

भविष्यद्वाद की अपेक्षा बहुत कुछ सौम्य तथा भविष्यद्वाद

सरल कहा जा सकता है। इटली के प्रोफेसर ने काव्य-पद्धति का जो नया संप्रदाय भविष्यद्वाद के नाम पर चलाया उसमें छंद का संपूर्णतः मूलोच्छेद ही कर दिया गया है। कोई रूप नहीं, कोई विधान नहीं। इस काव्य-संप्रदाय के संचालन केलिए उसके उद्देश्यों का एक लंबा घोषणा-पत्र भी, नियमाचली के साथ, प्रकाशित कराया गया है<sup>१</sup>। मैरिनिटी का यह प्रयत्न रोमन (Italian) काव्य-प्रणाली की उस रूढ़ि-प्रियता के प्रतिक्रिया-स्वरूप है जो एकबार यूरोपीय साहित्य में रोमांस (स्वच्छंदता या वैचित्र्यवाद) के नाम पर उच्छ्वसित हो चुका है। यह प्रयत्न यांत्रिक सभ्यता से प्रेरित हुआ कहा जाता है।

भविष्यद्वाद का आधार, मैरिनिटी के आनुसार, हमारी उस इंद्रियगम्यता पर है जो वैज्ञानिक सभ्यता से उत्पन्न है। जो भविष्यद्वाद का टेलिग्राफ, टेलिफोन, ग्रामोफोन, रेल, मोटर, आधार और कारण हवाई जहाज, सिनेमा तथा बड़े-बड़े दैनिक पत्रों का व्यवहार करते हैं वे नहीं जानते कि उनके मनोविज्ञान पर ये कितना प्रभाव रखते हैं। साधारण आदमी भी इन यंत्रों की सहायता से क्या-से-क्या कर डालता है। इनसे हमारे चित्त में ये विकार उठते हैं—जीवन में शीघ्रता, प्राचीन तथा ज्ञात के प्रति भय और नवीन तथा अज्ञात के प्रति प्रेम, शांत

<sup>१</sup> Futurist consciousness and manifesto ( vers'-libristes ) Epitomised from the translation by Mr. Harold Munro, in Poetry and Drama,

जीवन से घृणा, परोक्ष के भाव का विनाश तथा वैयक्तिकता की वृद्धि, मनुष्य की इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं की अव्यवस्था, अननुभव्य तथा अप्राप्यता का सब्बा ज्ञान, स्त्री और पुरुष का समानाधिकार, प्रेम का दुर्भाव, व्यवसाय में वासना, कला तथा आदर्श का योग, आर्थिक चेतनता, कूप-मंडूकता तथा दूरता का हास, विश्व-भाव की वृद्धि, वक्र तथा चक्र के प्रति घृणा, सरल तथा अंत्यरेखा से प्रेम, विवरण की मंद गति, प्रपञ्चित विशेषण तथा व्याख्या से भय, गति, संक्षेप, सार तथा आध्यात्मिक क्रिया में गंभीर अंतर्वृष्टि का अनुराग । प्रोफेसर मैरिनिटी ने उदाहरण-स्वरूप बताया है, यदि आपका कोई घनिष्ठ मित्र, जिसके पास वाणी की शक्ति है, किसी कांति, युद्ध, नौका-दुर्घटना, या भूकंप में जीवन के प्राण-संशयमय झणों को बिता चुका हो और दौड़ता हुआ आपके पास आवे तो वह अपने अनुभवों को बताने तथा प्रभावशाली बनाने केलिए वाक्य-विन्यास पर ध्यान नहीं देगा, विशेषण तथा विरामों को छोड़ देगा । वह शैली की किसी रीति को नहीं मानेगा, ज्यों-त्यों क्रमहीन तथा संमिलित सबेदनाओं से आपके मस्तिष्क को हिला देना चाहेगा, अपनी भावना के अनियमित तथा अनियंत्रित आवेग के कारण वह कुछ इन्ने-गिने महत्वपूर्ण शब्दों का ही उपयोग करेगा । उसका प्रधान लक्ष्य यही रहेगा कि वह अपने सारे संघातों और विकारों को आप पर उतार दे ।

मैरिनिटी का विचार है कि तथ्य की प्रधानता केलिए चुने हुए मुख्य-मुख्य शब्दों का व्यवहार, जिनमें अधिकांश नादानुकृत ही हों, कल्पना की एकसूत्रता रखे बिना किया जाय । शब्द नये

नये गढ़े जायें। स्वर-व्यंजन की कठरव्योंत आवश्यकतानुसार की जाय। गाणितिक चिह्नों का उपयोग भी, विषय की स्पष्टता

भविष्यद्वाद की प्रकृति और उसका एक उदाहरण केलिए, यथासंभव किया जाय। इस प्रकार मैरिनटी का काव्य पागल के प्रलाप से बढ़कर कुछ न होगा, किंतु, उनकी समझ से आधुनिक काल के उपयुक्त ऐसा ही काव्य हो सकता है।

वर्तमान में भविष्यद्वाद का काव्य-संप्रदाय चलाने का तात्पर्य वह इतना ही समझते हैं। उदाहरण केलिए हिंदी के एक यशस्वी कवि की रचना १ यदि वे भविष्यद्वादी होते तो ऐसी हाँती—

### १ अंतर्दृष्टि से—

अयि अमर शांति की जननि जलन !  
अक्षय तेरा शंगार रहे  
जीवनधन - स्मृति - सा अमिट,  
निरंतर तेरा मेरा प्यार रहे।

धब्बके लप्टे अंतरतर में,  
तेरे चरणों पर शीश छुके,  
तूफान उठे अंगारों के  
उर-प्रलय-सृष्टि का खोत रुके।

हाँ, खूब जला दे, रहन जाय  
अस्तित्व; और जब 'वे' आवें—  
चरणों पर दौड़ लिपट जानेवाली  
मेरी विमूर्ति (ही) पावें—

—‘द्विज’

अमरता+शांति जननी जलन, श्रृंगार  
 अक्षय जीवनधन+सृति = अभिट्ठा  
 प्यार मैं तुम निरंतर धधक लपट  
 अंतर=चरण+शीश झुकना, अंगार+  
 तूफान उठना, उर प्रलय सृष्टि सोत  
 रुकना, जल+जल=अनस्तित्व, आना  
 चरण लिपटना=पाना विभूति ।

मुझसे जहाँतक संभव हो सका है और जहाँतक भविष्य-द्वादी घोषणा-पत्र के उद्देश्यों को समझा पाया, मैंने तथाकथित पद-व्यवस्था का एक निर्व्याज प्रयत्न किया है। दूसरा उदाहरण इटैलियन भाषा की सांस्कृतिक अनभिज्ञता मेरी कठिनाइयाँ बढ़ाती हैं सही, परंतु यह अनुकरण एक शुद्ध प्रयत्न के रूप में ही है। मूल कविता से पूर्व परिचित रहने के कारण, संभव है, पाठकों को इसमें कुछ कल्पनात्मक सूत्र भी लक्षित हो। यदि किसी मौलिक वर्णन का पद-निर्देश भविष्यद्वादी पद्धति से किया जाय तो पाठकों को उसमें ग्राहक कल्पना का आक्षेप यत्नतः करना पड़ेगा। किसी भूकंप-पीड़ित नगर का वर्णन भविष्यद्वादी कविता में कुछ ऐसा हो सकता है।

भूकंप, गड़गड़ाहट, हड्डहड़ाहट=ध्वंस, प्रलय,  
 चीत्कार, महानाश, महाक्रांति, महाभीषणता,  
 स्त्रीपुरुष+बालबृद्ध, कंपन, तूफान, ओला,  
 आग, पानी, महल; अट्टालिका=ईंट पत्थर,  
 खड़हर, संपत्ति विलास हास्य=रुदन सर्वनाश।

ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मैं पाठकों के धैर्य के साथ खिल-बाड़ कर रहा हूँ। किंतु, विवशता यही है कि हिंदी साहित्य में भी भविष्यद्वादी काव्य-प्रणाली का प्रवेश होने लगा

समीक्षा

है। गद्य में इस प्रणाली का अनुगमन यत्र-तत्र होता रहता है और वह प्रसंगानुसार बहुत-कुछ अर्थबोधक भी रहता है, किंतु पद्य के नाम पर यह चेष्टा बड़ी शोचनीय है। ऐसी काव्य-प्रणाली, जो समरत भानव-जीवन को आवेग और उद्घेग में ही केंद्रित कर चलनेवाली हो, कितनी निस्सार है, यह कहना ही व्यर्थ है। भविष्यद्वादी कवि अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने का जो उपाय सरल समझे हुए हैं, वह वक्त ही नहीं, प्रत्युत् चक्र है। कवि की विधायक कल्पना का एकांत अभाव हो जाने के कारण जो इसकी अभिव्यक्ति के लक्ष्य को रूप देती है, गति देती है, पाठक या ओटा की ग्राहक कल्पना विमूढ़ हो जाती है। उसे कोई मार्ग स्पष्ट नहीं मालूम होता जिस पर उसकी कल्पना अग्रसर हो सके। इसके विपरीत उसकी कल्पना निश्चित संकेत न पाकर 'यह हो सकता है, वह हो सकता है' के चक्र में पड़कर रुद्धनगति हो जाती है। सरस्वती की मूर्त्ति के उद्देश्य से पत्थर के टुकड़े के बदले संगमरमर या सोने के ही टुकड़े को सामने रखकर वर्णन के सार रूप में मैरिनिटी साहब चिल्लाकर 'बीणा' 'पुस्तक' 'हंस' कहते रहे, किंतु ऐसे पाठकों के चित्त पर, जिन्हें भारतीय संस्कृति से कुछ संबंध नहीं, कोई बिंब नहीं स्पष्ट हो सकेगा। उनकी ग्राहक कल्पना भटकी ही रहेगी। कवि का कौशल केवल द्रव्य या तथ्य उपस्थित कर देने में ही नहीं, प्रत्युत् उसको एक रूप, एक आकार देकर जीवन की गतियों से अनुप्राणित करना भी है। भविष्यद्वादी

कवि इस दृष्टि से बहुत पंगु हैं। वे काव्य न कर तमाशा खड़ा करने का ही हौसला रखते हैं।

उपर्युक्त प्रकार के छंदों या काव्य-रूपों के जो विवेचन किए गए हैं उनमें से वर्णिक तथा मात्रिक छंदों में अंत्यानुप्रास का

**अंत्यानुप्रास** विवेचन भी आवश्यक समझ पड़ता है।

लय पर शासन करने केलिए ही साधारणतः उसका व्यवहार किया जाता है। पद के चरणों के अंत्याक्षरों को तुकांत कहते हैं और इसी का नाम अंत्यानुप्रास भी है। इसके छः भेद हैं—सर्वांत्य, समांत्य विषमांत्य, समांत्य, विषमांत्य, सम विषमांत्य तथा भिन्न तुकांत। स्वर-मैत्री के विचार से चरणों के अंतिम वर्णों की समरूपता रखी जाती है। तुकांत का प्रभाव भी कुछ ऐसा होता है कि वह चरण के मध्य की रवर-भिन्नता को दबाकर अंत में स्वर को एक ताल पर बैठा देता है। हृदय की लयात्मक प्रवृत्ति से अंत्यानुप्रास या तुकांत का इतना सामंजस्य है

**उसकी प्रकृति और महत्व** कि पदोन्नारण के पहले ही विविच्चित पदांत की कल्पना से सम पर मस्तक मुक जाता है, ऐसा

नहीं कि पाठक या श्रोता थके मजदूर की तरह घर पहुँचकर सर का बोझा धम्म-से पटक देते हैं! वर्णवृत्त छंद में प्रत्येक चरण की क्रमागत समरूपता के कारण भिन्न तुकांत कर्णेकदु नहीं मालूम पड़ता, किन्तु मात्रिक या अक्षर छंद में तुकांत से पद की शोभा, लय और ताल से संयुत होकर, बढ़ जाती है। हिंदी केलिए मात्रिक तथा संस्कृत केलिए वर्णिक छंद भाषा की प्रकृति के अनुकूल होते हैं। छंद में तुकांत का जो महत्व है वह एक सहृदय कवि के शब्दों में ही अच्छी तरह प्रतिपादित

किया जा सकता है। 'तुक राग का हृदय है जहाँ उसके प्राणों का स्पंदन विशेष रूप से सुनाई पड़ता है। राग की समस्त छोटी-बड़ी नाड़ियाँ मानो अंत्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केंद्रित रहतीं जहाँ से नवीन बल तथा शुद्ध रक्त ग्रहणकर वे छंद के शरीर में स्फूर्ति-संचार करती रहती हैं। जो स्थान ताल में सम का है वही स्थान छंद में तुक का। वहाँ पर राग शब्दों की सरल-तरल ऋजु-कुचित 'परनो' में घूम-फिकर कर विराम ग्रहण करता, उसका शिर जैसे अपनी ही स्पष्टता में हिल उठता है। जिस प्रकार अपने आरोह-अवरोह में रागवादी स्वर पर बारबार ठहरकर अपना रूप-विशेष व्यक्त करता है उसी प्रकार वाणी का राग भी तुक की पुनरावृत्ति से स्पष्ट तथा परिपुष्ट होकर लय-युक्त हो जाता है।<sup>१</sup>

पद्य में तो तुकांत का प्राचुर्य है ही, गद्य में भी इसका प्रवेश प्रायः करा दिया जाता है। जो भाषा की तड़क-भड़क और चमक-

दमक में अनुराग रखते हैं, वे वृत्त-गंधि गद्य खूब वर्णिक और मात्रिक छंद तथा लिखते हैं, किन्तु है यह पद्य-जगत की योजना अंत्यानुप्रास और उसी में इसका व्यवहार समुचित है। भिन्न तुकांत का व्यवहार भी पद्य में देखा-देखी खूब होने लगा है और वह भी सफलतापूर्वक। संस्कृत वृत्तों में लय की समरूपता कुछ ऐसी वंधी चलती है कि अंतिम पद समरूप हो या न हो, चित्त को वर्ण-भिन्नता खटकने नहीं देती, पर मात्रिक छंद में इस कौशल की थोड़ी-सी कमी रही तो भिन्न तुकांत अप्रिय मालूम होने लगता है। हिन्दी-काव्य भी जब तुक और बंधन के भीतर व्याकुल-सा होने लगा तब उससे मुक्ति का उपक्रम होने लगा।

<sup>१</sup> छमित्रानंदन पंत—पल्लव : भूमिका, पृष्ठ ४०

वस्तुतः यह व्याकुलता जितनी उसके स्रष्टाओं में लक्षित हुई, उतनी उसके पाठक या श्रोता में नहीं। इस व्याकुलता की विराट् व्यंजना हरिचौध के महाप्रबंध प्रिय-प्रवास में हुई, और दूसरे ढंग से बहुत काल के बाद कुछ कवियों ने भी इसका परिचय अनोखे ढंग से दिया। पाठकों के परंपरागत संस्कार पर, जो अंत्यानुप्रास तथा नियमित छंद पर टिका आ रहा था, जोर का झटका लगा। जिस बीणा पर हिंदी-भारती गूंजती चली आ रही थी उसको हटाकर दूसरे स्वर पर हृदय को बैठाना सहज काम न था। इसके लिए कुछ विशेष संस्कार अपेक्षित हैं। पर वह हुआ और इसलिये हुआ कि अंत्यानुप्रास ने चाहे भारती का दामन छोड़ दिया हो, पर लय के बिना उसकी गति ही संभव न थी।

शुरू-शुरू में जब हिंदी में विविध विषयों का समाचेश नहीं हो सका था, उसके दृष्टिकोण का विस्तार व्यापक नहीं हुआ था, तब उपसंहार छंद भी प्रायः वे ही काम में लाये जाते थे जिनका प्रयोग पहले से ही हो रहा था। नवीन दृष्टिकोण ने नए छंद तथा भाषा का सुष्टु रूप काम में लाना शुरू किया। प्राचीन छंदों में खड़ी बोली को समाविष्ट होने में अधिक कठिनता तो नहीं मालूम पड़ी, किंतु कवियों को ही अपने उज्ज्वास की अभिव्यक्ति में नवीनता नहीं मालूम पड़ने लगी। संस्कृत के बहुत पुराने वृत्त, जो हिंदी में प्रचलित नहीं थे, जनता का विनोद करने लगे। सिद्धहस्त कवियों ने मात्रिक छंदों के अतिरिक्त हिंदी में संस्कृत वर्ण-वृत्त का भी व्यवहार किया। उदूँ के छंदों का व्यवहार भी इधर-उधर होने लगा। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी भारत-भारती के

उपसंहार में—मोहनी के रूप में जो गजल लिखी है वह विशुद्ध हिंदी भाषा में है और अपनी स्थिति में अनुपम है। 'हरिओंध' तथा 'दीन' ने उद्दृष्ट बहों में बहुत ज्यादा रचनाएँ कीं और उनके प्रयोग-प्रताप से वे हिंदी-पिंगल में वेठने की जगह भी पा गए, परंतु अपने संस्कारों से पूरी मुक्ति उन्हें नहीं मिल सकी। कहीं-कहीं हङ्सव-दीर्घ के नियम का व्यक्तिक्रम बना ही रहा। नई पीढ़ी के कवियों ने जो रचनाएँ की हैं उनमें छंद के नियमों का यथातथ्य पालन नहीं हो सका है। एक ही शीर्षक में छंदों के भेद बदल गए हैं। कहीं-कहीं तो ऐसा भी है कि एक ही पद्य में भिन्न-भिन्न छंदों के प्रयोग हो गए हैं। इसका कारण यही है कि कवि की प्रतीति को जिस ओर अनुकूल मार्ग मिला है उसी ओर वह चल पड़ी है। जो भाव जैसे हों उनके लिए छंद भी वैसे ही उपयुक्त चुनने का विधान तो है, परंतु विधान का पालन जहाँ कहीं कवि की स्वच्छछंदता में वाधक हुआ है वहाँ कवि ने असमर्थतावश दूसरा ही मार्ग पकड़ा है। वस्तुतः छंद-शास्त्र काव्य-रचना की सुगमता केलिए है, उस पर कोई प्रतिबंध डालने केलिए नहीं। महाकाव्य में भिन्न-भिन्न प्रकार के छंदों के व्यवहार की जो परिपाटी है वह कवि के पांडित्य-प्रदर्शन केलिए नहीं, प्रत्युत् जीवनव्यापी भिन्न-भिन्न भाव-विचार की अभिव्यक्ति को अनुकूल मार्ग देने। लय और छंद के सारे तारतम्य पर विचार कर यदि उनका प्रयोग किया जाय तो उससे काव्य की आयु और शक्ति बढ़ती है और कवि को अनुरूप कीर्ति प्राप्त होती है।

---

## अष्टावृक्ष अष्टव्याधि

### ग्रामगीत का मर्म

किसी भी देश के काव्य का उद्घव साधारणतः वहाँ की दंत-  
कथाओं या ग्रामगीतों से होता है। उसके उत्तरोत्तर कलात्मक  
विकास में मानव जीवन के महत्त्व की सहित तथा  
उसकी विविधता का आलोचन रहता है। सामाजिक  
जीवन और काव्य, दोनों, को मिलाकर देखने  
से यह पता चलता है कि समाज की धारणाओं  
के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में, कितनी दूर तक, जा-  
सका है, परिस्थिति की परवशता के कारण जीवन किस सीमा-  
तक पंगु बना है और कहाँतक उसने परिस्थिति तथा समाज की  
रुद्धियों पर विजय पाई है। ग्रामगीतों में मानव जीवन के उन  
प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी

ग्रामगीत का  
उद्घव और  
उसकी प्रकृति

लालसा, वासना, प्रेम, धूरणा, उज्ज्वास, विपाद् को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हँड़त भावनाओं को प्रकट करने में कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिवंध भी नहीं माना है। उनमें सबौत्र स्फुटिगत जीवन ही नहीं है, प्रत्युन् कहाँ-कहाँ प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर्विरोध दिखाया गया है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्रामगीतों में मिलता है उतना परवर्ती कलागीतों में नहीं।

जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कलागीत का ग्रामगीत है। ग्रामगीत संभवतः वह जातीय आशुकवित्व है जो कर्म

ग्रामगीत का तात्पर्य या क्रीड़ा के तात्त्व पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्त्वपूर्ण समाधन के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है, ऐसा कहना

अनुपयुक्त न होगा। मनोरंजन के विविध रूप और विधियाँ हैं। छो-प्रकृति में गार्हस्थ्य कर्म-विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अद्भूत संबंध है। चक्षी पीमने समय, धान कटने समय, चर्वा कानते समय, आपने शरीर-श्रम को हलका करने के लिए खियाँ गीत गाती हैं। उम समय उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में वित्त संलग्न किया जा सके। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी हैं जो भाव की उमंग में गाये गए हैं। जन्म, मुँडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्वत्याहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें उज्ज्वास और उमंग की ही प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य

विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विरह, तथा सपत्नी सास-सुरक्षा के वर्चोव, माँ, भाई, बहन का स्नेह आदि वातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती हैं। खी-प्रकृति का अनुकरण ग्रामगीत की स्त्रैण प्रकृति और जातीयता पुरुषों ने भी किया। हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाये जाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए। किंतु सब मिलाकर ग्रामगीतों की प्रकृति स्त्रैण ही रही, पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। छियों ने जहाँ को मल भावों की ही अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध-घोपणा भी की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियों - प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्रामगीतों में मिलता है। तत्त्वतः ग्रामगीत हृदय की वाणी हैं, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इनकी उद्घावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास-विवाद को लेकर भले ही हुई हों, किंतु मानव जातीयता में उनकी सारी वैयक्तिक विशेषता अंतर्हित हो गई है। उनकी अपूर्वता इसी बात में है कि वे व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको, प्रधान न रख, उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्भिकता के साथ अप्रसर हुए हैं।

कलागीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रवंध काव्य, दोनों, का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्रामगीतों ग्रामगीत से कलागीत की उद्घावना पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्रामगीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्य-पूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्रामगीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कलागीत के रूप में

विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अबतक वर्तमान है। ग्राम-  
गांत भी प्रथमनः व्यांकगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत  
किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व  
किया कि उनकी सारी वैयक्तिक सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो  
गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा ग्राम हुई। ग्रामगीत  
को कलागीत के रूप में आते-आते कुछ समय तो लगा ही, पर  
उसमें सब से मुख्य बात यही रही कि कलागीत अपनी रूढ़ियाँ  
बनाकर चले। कलागीत का द्वेष भी जितना व्यापक तथा विस्तृत  
हुआ और उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़ि-  
प्रियता न रहती तो उसके सम्बूपत्व का निर्वाह भी संभव न होता।  
ग्रामगीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था,  
कलागीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया।  
अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत के होने वाले भी कलागीत अपने  
मूल ग्रामगीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका और  
यह उस समय तक संभव भी नहीं जबतक मानव प्रकृति को ही  
विषय मानकर काव्य-रचनाएँ की जाती रहेंगी। ग्रामगीत से  
कलागीत के परिवर्त्तन में एक बात उल्लेखनीय रही कि ग्रामगीत में  
रचना की जो प्रकृति स्वैरण थी वह कलागीत में आकर कुछ पौरुष-  
पूर्ण हो गई । स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो

१ 'Thus will the development of the folk-poetry into art-poetry the whole nature and function of poetic activity undergoes a change. What begins as a spontaneous accompaniment to work or play largely feminine in inspiration, develops into deliberate product of a conscious art, predominantly masculine in origin.'

—David Daiches Literature and Society, p. 36

सूदम और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह प्रामगीत तथा कलागीत की अंतर्प्रकृति में बना रहा। प्रामगीत में खी की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी वह कलागीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी।

राजा-रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य-रचना की जो प्रणाली

बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और प्रामगीत में जिसका संस्कृत-साहित्य में विशेष महत्व था पात्र-विवेक

उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों केलिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्ता, दक्षता, तेजस्विता, रक्त-लोकता, रूढ़वंशता, वार्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रभावोत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य-रचना करने में रसोत्कर्ष का काम, बहुत-कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही, चल जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत-सा अंश, अपने चरित्र-नायक में विशिष्टता प्राप्त करने की चेष्टा में ही, खर्च हो जाता है। प्रामगीत की अब यह प्रवृत्ति काव्यगीत में भी चलने लगी है। एक दुखी भिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है, इसकी कल्पना तक उस समय हमें न थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने लगी त्यों-त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों को सम्मानीय

स्थान प्राप्त होने लगा। हृदय की उच्चता—विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि-कर्म है। ग्रामगीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनसे जन-समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। श्वसुर केलिए दशरथ, पति केलिए राम या कृष्ण, सास केलिए कौशल्या या यशोदा, देवर केलिए लक्ष्मण आदि सर्वमान्य माने गए हैं। इसका कारण हमारा वह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है। एक दूरदूर गृहिणी भी, जिसके घर में भोजन केलिए थोड़ा-सा अन्न है, सोने के ही सूप में फटककर उसे साफ करती है। हमारी दूरदूरता के बीच में भी संपत्तिशालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्धीस करने केलिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कलागीत में चाहे विशेष महत्त्व प्राप्त न करें, किंतु ग्रामगीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं।

बचे अब भी राजा, रानी, राज्ञि, भूत, जानवर, आदि की कहानियाँ सुनने को ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। नानी की कहानियाँ

ग्रामगीत का एसी ही हुआ करती हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष अनुद्विवाद जीवन में जो घटनाएँ होती रहती हैं उनके अति-

रिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष हैं उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। बच्चों की भाँति उन मनुष्यों को भी, जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता, वैसी कहानियाँ ज्यादा रुचिकर मालूम होती हैं। ग्रामगीतों की रचना में ऐसी प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध-सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि

जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेने हैं। जिस वैचित्रियवाद को हमने अवृद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया। वही परिचमी काव्य-जगत् में रोमांस के नाम पर फल-फूलकर अपने सौरभ से पूर्व को भी आकर्षित करने लगा।

प्रेम-दशा जितनी व्यापकत्व-विवायिनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के

साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह  
ग्रामगीत में क्रोध, शोक, उत्साह, विरमय, जुगुप्सा आदि में  
प्रेम-दशा नहीं।

विरहाकुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम सब से अपनी वियुक्तिया का पता पूछ सकता है, किन्तु कुद्द मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि-व्यायिनी भावना से जीवन और जगत् की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यह उत्कर्ष तथा विकास प्रेम-दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ भी नहीं। वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जीवन के अनादि सहचर हैं। प्रकृति का यह साहचर्य अब सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है, लेकिन गमले के पौधों और पिंजड़े के पक्षियों का साथ शायद नहीं छूट सकेगा। अपने सुख-दुःख के भावों को उनपर आरोपित कर हम उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। काव्य में भी जीवन की ऐसी व्यापकता के अभाव में मानो हम विह्वल-से बने रह जाते हैं।

रक्षक समझने की शक्ति प्रेम में ही है। ग्राम-  
बहुत हैं, जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में  
घ, भालू, साँप आदि से उसका पता पूछती  
जाती है। आदिकवि बालभीकि ने विरह-विहळ  
म के मुख से सीता की खोज केलिए, न जाने  
तने प्रकृति के पशु-पच्ची, लता-दुम आदि से पता  
अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उनके पास  
। पहुँचाने केलिए जो हनूमान को दूत बनाकर  
व्य में इस परिपाटी का मार्ग-दर्शक ही हो  
। मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, ध्रमरदूत, आदि,  
दृत प्रेम-संभार केलिए आ धमके। अब तो  
पीफोन, टेलीग्राम, रेडियो आदि यंत्रदूत बने ही,  
। मर्यादा मिलनी चाहिए। कलागीतों में पशु-  
दे से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः  
यह का मेघदूत भी मौन ही रहा है । किंतु  
न महीं रहा है ।

देवों भौंरा दूध भात खोरवाँ ।

आगे खबर जनाऊ, त फागुन आई ॥

उड्ल भौंरा गङ्गले उहे देसवाँ ।

बैठे हरी जी के पाग, त फागुन आई ॥

उ डरले हरी जाँधे बड़सलवे ।

लाँग धन कुसलात, त फागुन आई ॥

संस्करण अब ऐसे भी लगे हैं जिनमें मेघ ने उत्तर दिया

तोरी धना ए हरी वेदने बेआकुल ।

अरे झोही गुने मोरा भेजह, त फागुन क्षाई ॥

[स्त्री कहती है—हे भौंरा, मैं तुमको कटोरे में दूध-भात खाने को दूँगी। तुम जाकर मेरे प्राणनाथ को खबर जना दो कि फागुन आ गया।

भौंरा उड़ते-उड़ते: उस देश में पहुंचा जहाँ उस स्त्री का प्रियतम था और उसकी पाग पर बैठ गया।

प्रियतम ने पाग पर से उतारकर उसे जाँघ पर बैठा लिया और उससे अपनी प्रिया का कुशल-समाचार पूछा।

भौंरे ने कहा—हे हरि, तुम्हारी प्यारी बहुत व्याकुल है। फागुन आ गया, यह कहने के लिए ही उसने तुम्हारे पास सुझे भेजा है।]

अरे अरे इयाम चिरइया झरोखवै मति बोल्हु ।

मोरी चिरई! अरी मोरी चिरई! सिरकी भीतर बनिजरवा,

जगाह लह आवउ—मनाह लह आवउ ॥

कारिक पियरि बदरिया शिमिकि दैव बरसहु ।

बदरी जाइ बरसहु उही देस जहाँ पिया कोड करै ॥

भीजै आखर बाखर तम्हुआ कनतिया ।

अरे भितराँ से हुलसै करेज समुक्ति घर आवै ।

ऐसे दूतों का उपयोग केवल प्रिया-प्रेमी के प्रणय-संदेश को भेजने के लिए ही नहीं किया गया है, विलिक माता ने भी ऐसे दूत से अपने पुत्र के योग-क्षेत्र की कामना की है।

सवना भद्रवना क दिनवा धुमरि घन बरसहुँ ।

रामा राम लखन दूनों भद्रया कतहुँ होहुँहैं भीजत ॥

रिमिकि शिमिकि दृथू बरसहु मोरे नाहीं भावहु ।

दैवा ओहि बन जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोरलरिकन ॥

[कौशलया कहती है—सावन-भादो के दिन हैं। बादल धूम-धूमकर बरस रहे हैं। हाथ, राम-लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ भीजते होंगे।

यह बादल रिमझिम बरस रहा है। सुझे अच्छा नहीं लगता। हे बादल, तुम उस वन में जाकर मत बरसना जहाँ मेरे कड़के हैं।]

अं अं कारी बदरिया तुहँ भोरि बादरि ।  
बादरि जाइ बरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये ॥  
बाड बहइ पुरखइया त पहुचाँ झकोरह ।  
बहिनी दिहउ केवडिया ओठँगाह सोवउ सुख नीदरि ॥  
कि तुहँ कुकुर बिलरिआ सहर सब सोबइ ।  
कि तुहँ ससुर पहरिआ किलरिआ झड़काबहु ॥  
ना हम कुकुर बिलरिआ न ससुर पहरिआ ।  
धन ! हम अही तोहरा नथकवा बदरिया तुलायसि ॥

[हे काली घटा ! तुम्ही मेरी प्यारी घटा हो । हे घटा, वहाँ जाकर  
बरसो जहाँ मेरे प्रियतम हैं ।

पूरबा बहा बह रही है । कभी-कभी पछवा भी झकोरता है । हे ननद !  
तुम किंवाड़ बंद कर देना, मैं सुख की नींद सोऊँगी ।

तुम कुत्ते हो, या बिली हो, या मेरे ससुर के पहरेदार हो ? सारा  
शहर तो सो रहा है, तुम कौन हो जो मेरी किंवाड़ खटखटा रहे हो ?

न मैं कुत्ता हूँ, न बिली और न तुम्हारे ससुर का पहरेदार हूँ । हे  
प्यारी ! मैं तुम्हारा पति हूँ । सुझे घटा बुला लाई है ।]

नवदंपती केलिए सुहाग-रात का आर्कषण कैसा होता  
है, इसका वर्णन अनेक कलाविद् कवियों ने किया है । उस समय  
प्रेम-संभार में दंपती के हृदय में लालसा, उत्कंठा, प्रणय, उत्साह,  
काल-दीर्घत्व कार्य, मद, उन्माद, हर्ष का समबाय वसा रहता है ।  
की कामना जीवन का यह मधुर उन्माद, उपरांत जीवन में  
गंभीर परिस्थितियों के साक्षात्कार से, धीरे-धीरे उत्तर जाता है  
और जीवन एक साम्य, स्थिति में आ जाता है । कितु जबतक  
अनुराग और प्रणय रहता है तबतक अतृप्ति बनी ही रहती है ।  
सुहाग-रात में संयोग के इस अपूर्व अवसर के दीर्घत्व की प्रार्थना  
करती हुई एक नवपाणिगृहीता कहती है—

आजु सोहाग के रात चंदा तुम उझहौ ।  
 चंदा तुम उझहो सुरज मति उझहौ ॥१॥  
 मोर हिरदा बिरस जनि किहेड़ मुखा मति बालेड़ ।  
 मोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेड़ ॥२॥  
 आजु करहु बड़ि राति चंदा तुम उझहौ ।  
 धिरे धिरे चलि मोरा सुरज बिलम करि अझहौ ॥३॥

[आज सुहाग की रात है । हे चंद्र ! तुम उदित होना । पर हे सूर्य !  
 तुम उदित मत होना ॥१॥

हे सुर्ग ! तुम आज न बोलना । बोलकर मेरे हृदय को बिरस मत  
 करना । हे पौ ! तुम आज न फटना । कहाँ मेरी छाती न फट जाय ॥२॥

हे चाँद ! तुम आज बड़ी रात करना और उदित होना । हे मेरे सूर्य !  
 तुम आज धीरे-धीरे चलकर देर से आना ॥३॥]

इसी संबंध का एक गीत और है । बारह वर्ष के बाद परदेश  
 से पति आया है और पत्नी के साथ सोया है ।

आधि राति बीति गई बतियाँ नियाई राति चितियाँ ।  
 बारह बरस का सनेहिया जोरत सुर्गा बोलह ॥  
 तोरवेड़ मैं सुर्गा के ठोर गटह्या मरोरवेड़ ।  
 सुर्गा काहे किहेड़ भिनुसार त पियहि बतायउ ॥

[आधी रात बातों-ही-बातों में बीत गई । बारह वर्ष के भ्रेम को एक  
 करने में सारी रात बीत गई । इतने में सुर्गा बाँग देने लगा ।

स्त्री ने कहा—हे सुर्गा, मैं तुम्हारी चौंच तोड़ डालूँगी, तुम्हारी गर्दन  
 मरोड़ दूँगी । तुमने भोर क्यों किया और प्रियतम को क्यों बतलाया कि  
 सबेरा हो गया ।]

माहेश्वरो सिह 'महेश' ने भी अपनी 'सुहाग' नामक कविता-  
 पुस्तक में ऐसा ही कहा है—

आज है प्रथम मिलन की रात  
वायु ! कर दे छरभित मंसार ।  
दिशाओं ! गाओं मंजुल गीत  
प्रकृति ! सज मंजु मनोहर थार ॥  
निशा ! धर ले छर-मोहक वेश  
तारिका ! तन दो गुब्र वितान ।  
अगे नीरवते ! देखो जरा  
मूक हो मधुमय चुंबन-दान ॥  
कगे झकझोर तनिक करुराज  
छधाकर ! चन्द्रमयी कर रात ।  
सूर्य ! मत करना आज प्रभात  
आज है प्रथम मिलन की रात ॥

<sup>x</sup> बरिसहु <sup>x</sup> बरिसहु देव है आजु केर रतिया ।  
आरे पिया के जतरवा सेहु बिलमावहु रे की ॥  
जब तु मनवलू है धनी है मेव है मनवलू ।  
आरे छतवा वेसाहि के हमें पथ जाएब रे की ॥  
देवहु <sup>२</sup>रे डोमवा रे भैया रे ढाला भरी रे सोतवा ।  
अरे आज की रैनिया छाता जनि बीनहु रे की ।  
अरे पिया के जतरवा तुहु बिलमावहु रे की ॥

[झी कहती है—हे बादलो, आज को रात खूब बरसो। मेरे प्राणनाथ परदेश जा रहे हैं। उन्हें यात्रा से रोक दो।

पति कहता है—यदि तुम बादलों को मनाती हो तो मैं आता खरीद कर चला जाऊँगा।

झी डोम से कहती है—हे डोम भाई, आज की रात तुम छाता मत बिनो। मैं तुम्हें ढाला भरकर सोना ढूँगी। मेरे प्राणनाथ की यात्रा में देर कर दो।

यह कैसी अदृष्टि है ! संयोग की अवधि अधिक-से-अधिक बढ़े, हृदय में यह भाव कुछ ऐसा तन्मय-सा रहता है जो प्रकृति

सुख-दुख की  
अवधि में मानव  
प्रयत्न

के नियम से निरपेक्ष हो जाता है। सुख का

समय कितनी जल्दी उड़-सा जाता है, इसके लिए

किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन

की यह एक प्रगति है कि हम दुख में इतने चिंताशील हो जाते हैं कि उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का हमें कटु अनुभव होता रहता है, किंतु सुख के समय जीवन का प्रत्येक क्षण हमें इतना मधुर, सरल और लघु मालूम होता है कि उसका कुछ भी भार हमारे चित्त पर नहीं पड़ता और वह अपनी स्वाभाविक गति से अधिक तीव्र होकर चलता-सा मालूम होता है। घड़ी की सूई को ध्यान से आँखें गड़ाकर देखने से पंद्रह मिनट का समय, जो बात-बात में अन्यथा उड़ जाता है, एक युग के समान मालूम पड़ता है। सुख के समय हमारा ध्यान सुख में ही संलग्न रहता है, किंतु दुख के समय हम केवल दुख में ही लिप्त रहकर उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का अनुभव किया करते हैं। इसी कारण वह इतना असह्य होता है। नायिका ने अपने सुख की अवधि को बढ़ाने के लिए जो नक्त्रों से प्रार्थना की है, वह स्वीकृत हो या न हो, प्रार्थनी की निष्कपटता तथा निश्चल भाव के कारण एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो उसे अपनी प्रार्थना की स्वीकृति का संतोष दिला देती है। जीवन का यह भाव प्राकृतिक नियम की अटलता के तर्क को भी अचलन कर देता है। जैसे सुख में उसकी अवधि को बढ़ाने की इच्छा बनी रहती है वैसे ही दुख में उसकी अवधि को समाप्त

करने की चेष्टा भी होती है। जायसी और सूर ने एक ही तथ्य को अपने-अपने ढंग से कहा है।

(१) गहे बीन मङ्कु रैन विहाई ।  
ससि बाहन तँह रहै ओनाई ॥  
पुनि धनि मिह उरै है लागै ।  
ऐसिहि विथा रैन सब जागै ॥

—जायसी

(२) दूर करहु बीना कर धरिबो ।  
मोहे मृग नाही रथ हाँक्यो, जाहिन होत चंद को ढरिबो ॥

—सूर

(३) मन राखन को वेनु लियो कर मृग थाके उड़पति न चरै ।  
अतिआतुर छूँ सिंह लिल्यो कर जेहि यामिनि को कहन दरै ॥

—सूर

इन तीनों उद्घरणों का प्रायः एक ही तात्पर्य है कि विरहिणी अपने मनोरंजन केलिए, किसी तरह विरह की रात काटने, वीणा या वेणु लेकर बजाने बैठी। उसके मधुर स्वर पर मुख्य होकर चंद्रमा के रथ का हरिन अङ्ग गया। हरिन के अङ्ग जाने के कारण चंद्रमा का रथ आगे बढ़ न सका और रात बढ़ गई। इससे घबड़ाकर विरहिणी ने सिंह का चित्र बनाना शुरू किया जिससे भयभीत होकर हरिन भाग चले और रात कट जाय। घटना के रूप में यह बात सत्य नहीं, परंतु काव्य-जगत् में इसकी सत्यता को कौन अस्वीकृत करेगा!

विरहिणी के प्रेम-दौत्य के अतिरिक्त ग्रामगीतों में पक्षों से ग्रामगीत में पक्षी पुत्री के विवाह केलिए वर खोजने का काम भी का घरानुसंधान किया गया है और उसने वह काम पूरा किया है। एक माता सुगो से कहती है—

सावन सुगना मैं गुर विड पाल्यों चैत चना के दालि ।  
 जब सुगना तू भयउ सजुगावा बेटीक बर हेरह आव ॥१॥  
 उड़त उड़त तू जायो रे सुगना बैठउ डरिया ओनाय ।  
 डरिया ओनाय बैठा पखना फुलायउ चितया नजरिया धुमाय ॥२॥  
 जे बर सुगना तु देखेड सुन्दर जेकरि चाल गम्हीर ।  
 जेहि घरा सुगना तु सम्पति देख्यो वोही घर रचेउ विअह ॥३॥  
 हेरेउ बर मैं सजुग सुछुच्छन भद्र-भद्र मुंह-जोति ।  
 साठि बरद मैं चन्नि मैं देखेउं वोही घर रचहु वियाह ॥४॥

[ हे सुआ ! तुमको मैंने सावन में गुड़ धी और चैत में चने की दाल खिलाकर पाला । अब तुम समझदार हुए । जाओ, बेटी केलिए बर द्वाँद्वाँ लाओ ॥१॥

हे सुआ ! तुम उड़ते-उड़ते जाना और पेड़ की डाल सुकाकर बैठना । डाल सुकाकर बैठना, पंख फुलाना और इधर-उधर दृष्टि दौड़ाकर देखना ॥२॥

हे सुआ ! जिस बर को तुम सु-दृद्ध देखना, जिसकी चाल मैं गंभीरता देखना और जिस घर मैं धन देखना, वहीं विवाह ठीक करना ॥३॥

सुआ कहता है—मैंने अच्छे लक्षणोंवाला बर द्वाँद्वाँ लिया । उसके मुख पर ब्रह्मचर्य की आभा दमक रही है । उसके घर मैं साठ बैल मैंने चन्नी या चरनी (बैल जहाँ पर बाँधकर खिलाए जाते हैं) मैं देखे । उसी घर मैं विवाह करो । ]

मनुष्येतर ग्राणी के साथ भी आत्मीयता का संबंध ग्रामगीतों की खास विशेषता है । कन्या की माता ने सुगो को बड़े स्नेह के साथ, वाटसल्यभाव से, सावन चैत में रुचिकर भोजन खिला-खिलाकर पाला है । अब उसे वह बेटी केलिए बर खोजने भेजती है । उड़ते-उड़ते जाना, वृक्ष की डाल को मुकाकर बैठना, पंख फैलाकर इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना, इस प्रकार के धर्णन से सुगो का कितना सुन्दर विवरण हो जाता

है। पक्षियों की स्वाभाविक चेष्टाओं से जो परिचित हैं वे इस वर्णन के माधुर्य का रम ले सकते हैं। वर की कसौटी भी कितनी मनोविज्ञानिक है । वर की सुंदरता पुत्री की कामना है। चाल की गंभीरता पिता की और संपत्ति माता की इच्छा है। माता, पिता तथा पुत्री, तीनों, के संतोष के लिए वर में जो-जो गुण अपेक्षित थे वे माहा ही गुणशाल वर सुगे ने साज निकाला। पारिवारिक जीवन का यह एक मनोरम भावना-चित्र है।

ऐसे ही एक प्रसंग में पिता-पुत्री का एक मार्मिक संलाप कन्या-दान पितृत्व है। कन्या दान पितृत्व का कितना बड़ा अरण का क्रण है, यह बात किसी भुक्तभोगी पिता को ही मालूम हुआ रहता है।

कोन गरहनवाँ बाबा साँझे जे लागै कोन गरहन भिन्नुसार,  
कोन गरहनवाँ बाबा ओघट लागं कबधौं उगरह होइ ॥१॥  
चन्द्र गरहनवाँ वेटी साँझे जे लागं छरुज गरहनवाँ भिन्नुसार।  
धोरिया गरहनवाँ वेटी ओघट लागं कबधौं उगरह होइ ॥२॥  
कौपइ हाथी रे कौपइ घोड़ा कांपइ नगरा के लोग।  
इथ में कुस लिहे कौपइ बाबा कबधौं उगरह होइ ॥३॥  
रहँसहँ हाथी रे रहँसहँ घोड़ा रहँसहँ सकल बरात।  
मढ़पे मुदित मन समधी रे बिहँसइ भले घर भयहु विवाह॥४॥

१. विवाह के संबंध में संस्कृत का एक मनोविज्ञानमूलक श्लोक है—  
कन्या काम्यते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्।

वांथवा: कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥  
कन्या रूपवान् पति चाहती है, माता धनी और पिता विज्ञान दामाद चाहते हैं। गोत्रीय बंधु अच्छे कुल-शील का संबंध चाहते हैं और अन्यान्य कोग मिठाइयाँ चाहते हैं।

गंगा पैठि बाबा छहज से विनवँ हूँ मोरे बूते धिरिया जिनि होइ ।

धेरिया जनम तब दीहा विधाता जब घर संपत्ति होइ ॥१॥

[कन्या पूछती है—हे पिता ! कौन ग्रहण रात में लगता है और कौन दिन में; और कौन ग्रहण वेवक्त लगता है ? और कब छुट्टा है ? ] ॥१॥

पिता कहता है—हे वेटी ! चंद्र-ग्रहण रात में लगता है और सूर्य-ग्रहण दिन में । कन्या-ग्रहण का कोई ठिकाना नहीं कि कब लगे और कब छुटे ॥२॥

हाथी काँप रहे हैं, घोड़े काँप रहे हैं, नगर के लोग काँप रहे हैं, हाथ में कुश लिए बाबा काँप रहे हैं । न जाने कब छुट्टी मिलेगी ॥३॥

हाथी प्रसन्न हैं, घोड़े प्रसन्न हैं, सारी बारात प्रसन्न है, माँड़ों के नीचे बैठा हुआ समझी प्रसन्न है कि अच्छे गृहस्थ के यहाँ मेरे पुत्र का विवाह हुआ है ॥४॥

पिता गंगाजी में खड़े होकर सूर्य से विनय करते हैं—हे सूर्य ! मेरे बल पर कन्या न देना । कन्या का जन्म तभी हो जब घर में संपत्ति हो ॥५॥]

इस गीत में कन्या अपनी बाल-सुलभ सरलता से ग्रहण के संबंध में पिता से जिज्ञासा करती है । कन्या की जो सरलता है वह पिता की मार्मिकता है । जबतक कन्या किसी सुयोग्य बर के हाथ सौंप नहीं दी जाती तबतक पिता की दशा राहु-प्रसित-सी बनी रहती है । हिंदू-परिवार में कन्या के पिता की मुक्ति इतने से ही नहीं हो जाती । यदि घर में संपत्ति न रही तो उसके मानसिक संताप का अंत नहीं । पिता की आर्थिक दुरवस्था का परिणाम कन्या को भी समुराल में श्वसुर, सास, नन्द, और कभी-कभी पति के दुर्योगहार के रूप में सहना पड़ता है । । ग्रह और उनके

१ वैदिक काल में कन्या को गोपालन तथा दोहन के कारण दुहिता कहते थे, लेकिन उस समय भी इसका दूसरा अर्थ लिया जाता था । यास्क ने अपने निरुत्त में दुहिता की व्युत्पत्ति—दुहिता दुर्दिता दूरे द्विता भवतीति—दुहिता द्वित करनेवाली नहीं होती, उसके दूर रखने में ही हित है—के रूप में की है । कन्या के दुर्भाग्य को बढ़ाने में हिंदू-समाज ने अपने ऊपर कितना बड़ा उत्तरदायित्व लिया है ।

दो संपात, राहु तथा केतु, कुल मिलाकर नवग्रह माने जाते हैं। यह नो ज्योतिष-शास्त्रियों का कथन है, किंतु हिंदू-परिवार की शोचनीय स्थिति का ध्यान रखकर संस्कृत के एक कवि ने—‘जामाता दशमोग्रह’—दामाद को दशबाँ ग्रह माना है। इस सांपत्तिक ग्रह की निष्ठुरता से अधिकांश हिंदू माता-पिता परिचित हैं।

ग्रामगीतों में छांटे-छोटे करणा जनक वर्णनात्मक उपाख्यान भी बहुत हैं। करणा का प्रसार केवल मनुष्य तक ही परिमित

ग्रामगीतों में  
करणा का प्रसार

नहीं, पशु-पक्षी यहाँ तक कि लता-दुमों के साथ भी दिखाया गया है। भाव-संपर्क की इतनी विशाल परिविगीतों की रचयित्रियों की उदार भावुकता है। पशु-पक्षियों के मन में, कम-से-कम उनके अव्यक्त मन में, सुख-दुख की जो भावनाएँ उठती हैं उनका अनुमान हम साधारणतः अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा ही करते हैं। परिचय के सूक्ष्म आधार पर ही बहुधा हम अपनी भावनाओं को मनुष्येतर प्राणियों में भी कल्पित कर देते हैं। किसी चेष्टा का हेतु जब प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं रहता तब उसकी कल्पना से ही काव्य में अनुकूल सौंदर्य उत्पादित कर लिया जाता है। हेतु की अतिथ्यता, परोक्ष होने के कारण, रस की प्रतीति में कोई वाधा नहीं ढालती। एक हरिनी का किनना मर्मस्पर्शी वर्णन है—

✓ छापक पड़े छिउलिया त पतबन गहबर।

भरे रामा, तेहि तर ठाड़ी हरिनियाँ त मन अति अनमनि ॥१॥

बरते चरत इरिन बात हरिनी से पूँछइ।

हरिनी ! की तोर चरहा हुरान कि पानी बिनु मुरझिड ॥२॥

नाहीं मोर चरहा झुरान न पानी बिनु सुरक्षितँ ।  
 हरिना ! आज राजा जी के छट्ठी तुहैं मारि डरिहैं ॥३॥  
 मचिये बैठी कौशलया रानी हरिनी अरज करह ।  
 रानी ! मसवा त सिंजहि० रोसइयाँ खलरिया हमें देखितँ ॥४॥  
 पेड़वा से टाँगतिडँ खलरिया त हेरिफेरि देखितिडँ ।  
 रानी ! देखि देखि मन समझाह जनुक हरिना जीतह ॥५॥  
 जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देबह ।  
 हरनी ! खलरीक खँजड़ी मिढ़उबह त राम मोरखेलिहैँ ॥६॥  
 जब जब बाजह खँजड़िया सबद सुनि अनकह ।  
 हरिनी डाढ़ि ढंकुलिया के नीचे हरिन क बिसूरह ॥७॥

[ढाक का एक छोटा-सा बने पत्तेवाला पेड़ है। उसके नीचे हरिनी खड़ी है। उसका मन बहुत बेचैन है ॥१॥

चरते-चरते हरिन ने पूछा—हे हरिनी ! तु उदास क्यों है ? क्या तेरा चारागाह सूख गया है या तेरा मन पानी की कमी से सुखा गया है ? ॥२॥

हरिनी ने कहा—हे प्रियतम ! न मेरा चारागाह दी सूखा है, और न पानी की ही कमी है। बात यह है कि आज राजा के पुत्र की छट्ठी है। आज तुम मारे जाओगे ॥३॥

रानी कौशलया मचिया पर बैठी है। हरिनी ने उनसे विनती की—हे रानी ! हरिन का मांस तो आपको रसोई में सीक्ष रहा है, उसकी खाल आप सुन्दे दिलवादें ॥४॥

मैं हरिन की खाल को पेड़ से टाँग ढूंगी और उसे घूम-फिरकर देखूँगी। हे रानी ! उसे देख-देखकर मैं मन को समझाऊँगी मानो हरिन जीता ही है ॥५॥

कौशलया ने कहा—हे हरिनी ! अपने घर जाओ। खाल नहीं मिलेगी। खाल की खँजड़ी बनेगी। मेरे राम उसे बजाकर खेलेंगे ॥६॥

उस खाल से बनी हुई खँजड़ी जब-जब बजती थी तब-तब हरिनी कान उठाकर उसका शब्द सुनती थी और उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर वह हरिन को बिसूरती थी ॥७॥

इस मार्मिक गीत को मैंने पहली बार रामनरेश त्रिपाठी के मुँह से ही प्रायः नेरह-चौदह वर्ष पहले काशी में सुना था। उस समय वे वृषभ-वृषकर ग्रामगीतों का संग्रह कर रहे थे। इस गीत ने सर्वत्र सहृदय-समुदाय को तो विमुख किया ही, त्रिपाठीजी को भी गीतों के संग्रह-कार्य में विशेष प्रोत्साहित किया। इस गीत में जो भाव-संलग्न है, जो मार्मिक व्यथा है, उस पर कुछ भी टिप्पणी करना मेरी भावुकता परमद नहीं करती। मुझे विश्वास है, मेरे पाठक त्रिपाठीजी के शब्दों से अवश्य सहमत होंगे। 'हरिनी हरिन की खाल इसलिए माँगती थी कि उसे वह देख-देखकर हृदय को ढाढ़स देगी और हरिन जीता है, इस भ्रम को सत्य समझकर एक कल्पित सुख का अनुभव करेगी। मनुष्यों में कितनी ही ऐसी ख्यायाँ हैं जो अपने मृत पति या पुत्र की चीजें बड़ी सावधानी से रख छाड़ती हैं और एकांत में उन्हें देख-देख कर एक अङ्गूष्ठ प्रकार का सुख अनुभव किया करती हैं। अंत में हरिन की खाल की खँजड़ी बनी। खँजड़ी जब-जब बजती थी तब-तब उसकी ध्वनि से हरिनी के हृदय में प्रेम का एक इतिहास जाग्रत होता था और वह उसी इतिहास में लीन हो जाती थी।'

जीवन में विरह का भाव जितना व्यापक होता है उतना अन्य कोई नहीं। संयोग में हमारी कल्पना का द्वेष मुख्यतः

आलंबन तक ही सीमित रहता है, कितु वियोग ग्रामगीत में उसकी कोई सीमा नहीं रहती। एक नव-वियोग-मिलन में उसकी युवती खी, सावन में कजरी खेलने के लिए, नेहर जाने की अनुरागि अपने प्राणजाथ से मांगती है। इस पर उसका प्रियतम कहता है—

जो तू बारीधना जाएउ नैहरवा,  
प टीका धरि जाएउ रे सेजरिया ।  
टिकवा के पतिया चमाकै सारी रतिया,  
प जनु धना बाटी रे सेजरिया ॥१॥

जो तू बारीधना जाएउ नैहरवा,  
तिलरिया धरि जाएउ रे सेजरिया ।  
तिलरी के जुगुनी चमाकै सारी रतिया,  
प जनु धना बाटी रे सेजरिया ॥२॥

जो तुम बारीधना जाएउ नैहरवा,  
बेसरिया धरि जाएउ रे सेजरिया ।  
बेसरि के छुलनी चमाकै सारी रतिया,  
प जनु सुंदर बाटी रे सेजरिया ॥३॥

जो तुम बारीधना जाएउ नैहरवा,  
बाजुइया धरि जाएउ रे सेजरिया ।  
बजुआ के चुन्नी चमाकै सारी रतिया,  
प जनु रानी बाटी रे सेजरिया ॥४॥

जो तुम बारीधना जाएउ नैहरवा,  
पछेलवा धरि जाएउ रे सेजरिया ।  
पचेला केर रउआ चमाकै सारी रतिया,  
प जनु रानी बाटी रे सेजरिया ॥५॥

जो तुम बारीधना जाएउ नैहरवा,  
पायल धरे जाएउ रे सेजरिया ।  
पायल केर बच्ची बाजे सारी रतिया,  
प जनु धना बाटी रे सेजरिया ॥६॥

जो तुम बारीधना जाएउ नैहरवा,  
कड़ा धरे जाएउ रे सेजरिया ।  
कड़वा के धुंडी चमाकै सारी रतिया,  
प जनु धना बाटी रे सेजरिया ॥७॥

[ हे मेरी किशोर अवस्थावाली प्यारी रानी ! तुम नैहर जाना तो सेज पर ढीका छोड़े जाना जिमसे सारी रात उसकी पत्ती चमकती रहे और मैं समझता रहूँ कि मेरी स्त्री सेज पर ही है ॥१॥

हे मेरो प्यारी कामिनी ! तुम नहर जाना तो तिलड़ी सेज पर छोड़े जाना । तिलड़ी का जुगन् सारी रात चमकता रहेगा तो मैं समझूँगा कि मेरी स्त्री सेज पर ही है ॥२॥

हे मेरी लाडिली ! तुम नैहर जाना तो देसर छोड़े जाना । उस पर जड़ी दुई चुन्नी सारी रात चमकेगी तो मैं समझूँगा कि मेरी प्यारी स्त्री सेज पर ही है ॥३॥

हे मेरी हृदयेश्वरी ! तुम नैहर जाना तो हाथ का कड़ा छोड़े जाना । उसके रखे की चमक सारी रात देखकर मैं समझूँगा कि मेरी स्त्री सेज पर ही है ॥४॥

हे मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नैहर जाना तो पाजेव छोड़े जाना । उसकी ध्वनि छुनकर मैं समझूँगा कि मेरी स्त्री यही है ॥५॥

हे मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नैहर जाना तो कड़ा रखे जाना । कड़े की धुंडी की चमक देखकर मैं समझूँगा कि मेरी स्त्री यही पर है ॥६॥

इसमें पक्की के प्रति पति का जो आगाध प्रेम है वह बुद्धिवादी पति के भाग्य में कहाँ ! अपनी प्रिया की किसी प्रिय वस्तु में

उसके सारे अस्तित्व की कल्पना करना स्मृति-  
प्रेम में बुद्धि विधायक मनोवैज्ञानिक सत्य है । बुद्धि को यहाँ  
का पराभव

चुप रहना पड़ता है । रामायण में सीता-हरण  
के उपरांत राम का विद्युध विलाप इसी प्रकार बुद्धि का पराभव  
है । कवि और प्रेमी, अपनी इसी वृत्ति के कारण, पागल समझे

जाते हैं। वियोग में हृदय की साम्यावस्था नहीं रहती। अपने प्रेमी या प्रिया के मिलन की चिंता बराबर बनी रहती है। इसी कारण बाहा जगत् में उसके समान या असमान, अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी है उसको देखते ही हृदय में विसव उपस्थित हो जाता है। यदि कल्पना में सजीवता नहीं रहती तो भावुकता को भी अपने प्रसार केलिए चेत्र नहीं मिलता। जिस बात की कल्पना हम सदैव किया करते हैं वह स्वभावगत हो जाती है और उसका प्रभाव भी मानव शरीर पर तदनुकूल पड़ने लगता है। सतत कल्पना सत्य का आभास देने लगती है। जब कभी कोई भावना हमें प्रिय मालूम होती है तब, प्रतिकूल कारण उपस्थित रहने पर भी, उसको बलपूर्वक हृदय में छिपाये रखने की इच्छा होती है। इसी कारण मनोदशा को अनुकूल रखने केलिए तर्क की प्रवृत्ति भी तदनुकूल हो जाती है। संकल्प की ऐसी प्रकृति रहती है तर्क उसी का अनुगमन करता है। पत्नी के आभूषणों को देख-देखकर पति उसकी अनुपस्थिति का निर्वाह मन को सुलाकर कर ले सकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी सुख-सुविधा का विचार कर कभी-कभी आत्म-प्रवंचना भी करता है। मन भी, यदि उसमें वैसा संकल्प हो तो, बड़ी सरलता से सुलाया जा सकता है। मन अपने संतोष केलिए स्वयं ऐसा प्रबंध कर लिया करता है। जिस सीमा तक मनुष्य के सुख-दुख मानसिक हैं उस सीमा तक मन ही प्रधान है।

भारतीय साहित्य के अतिरिक्त दूसरे 'उन्नत साहित्य' में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं। मुझे अभी एक रूसी कहानी की नायिका थैरेसा की याद आ रही है। उसने अपनी मानसिक शक्ति का

ज्वलंत परिचय दिया है। थेरेसा का प्रेमी संसार में नहीं है, किंतु अपने मानसिक संतोष केलिए वह अपने प्रेमी के पास प्रेम-पत्र लिखाकर भेजती है और फिर उसका उत्तर भी, कुछ दिनों की

प्रतीक्षा के बाद, स्वयं लिखाती है। प्रत्यक्ष जगत् प्रेम-दशा की तर्कहीनता में ऐसी बात अद्भुत मालूम होती है, किंतु जीवन की भावुकता-पूरण स्थिति में इसमें भी अधिक आश्चर्यजनक काम होते देखे गए हैं। प्रेमिका तथा प्रिया, नायिका के ये दो भिन्न रूप हैं। जब नायिका सक्रिय प्रेम-तत्पर होती है तब वह प्रेमिका बनती है और जब उसमें केवल प्रेम को ग्रहण करने की पात्रता ही होती है तब वह प्रिया बनी रहती है। तुल्यानुराग में यह भेद बहुत-कुछ मिट जाता है। जीवन के ये क्रियाकलाप भावों की गति-विधि की सूचना देते हैं। ग्रामगीतों में जो स्वाद है वह आजकल के तथाकथित सभ्य पुरुषों को प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्धि-व्यवसाय ही जिनके जीवन का ध्येय है उनके लिए कविताएँ नहीं रची जातीं। ग्रामगीत की ही बात क्यों, कविता-मात्र के आस्वाद केलिए जिस सहृदयता, जिस रसिकता की अपेक्षा होती है उसमें बुद्धि का पराभव रहता है। हृदय सनानन है, बुद्धि गतिशील है। बुद्धि की सत्ता को एकांतरूप से अस्तीकृत कर देने पर हृदय को अपनी गति केलिए हेत्र नहीं मिल सकता, किंतु बुद्धि की प्रबलता भी रस-परिपाक में एक बाधा है। बुद्धिमान रहने हुए भी जो तर्कहीन होकर ग्रामगीत या कलागीत का स्वाद लेता है वही वस्तुतः काव्य-रसिक है।

ग्रामगीतों में काल की अवधि को बताने केलिए साधारण इतिवृत्तात्मक ढंग का प्रयोग न कर, गोचर प्रत्यक्षीकरण रूप

का व्यवहार प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। काल-बोध की ऐसी ग्रामगीत में काव्योपयुक्त प्रणाली से ग्रामगीत की रचयित्रियों काल-बोध की भावुकता तो फलकती ही है, साथ ही ग्राम-जीवन के अनुकूल मौघत्व का निर्वाह भी हो जाता है।

कवनी उमिरिया सासू निविया लगायेन,  
कवनी उमिरिया गये बिदेसवा हो राम ॥१॥  
खेलत कूदत बहु बरि निविया लगाये,  
रेखिया भिनत गै बिदेसवा हो राम ॥२॥  
फरिनै निविया लहसिनै उरिया,  
तबहु न आये तोर बिदेसिया हो राम ॥३॥

[बहु कहती है—हे सास जी ! तुम्हारे परदेशी पुत्र ने किस उन्न में यह नीम लगाया था और किस उन्न में वे परदेश गए ?

सास ने कहा—खेलने-कूदने की उन्न में उसने नीम लगाया था और रेख भींजते वह परदेश गया ।

बहु कहती है—नीम कलने भी लगा । डाल लहलहा उठी । हाय ! फिर भी तुम्हारा परदेशी नहीं आया ।]

बीदिन बटी बटवा पलटी नीचायो हौ,  
सिलंग ढाबी लगै गयो भरफूले हैं गे हौ ।  
मैं रूपा हूँ गयो भरजोबन बटवा लोग,  
बीदिन बटी बोले पलटी नीचायो हौ ॥

[पाणिप्रहण के बाद वह विदेश गया था तब से नहीं लौटा । उसके लगाये सिलंग के पेड़ में फूल लग गए हैं ।

मैं, अब, हे पथिक ! युवती दो चुकी हूँ, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा ।]

इतिहास और काव्य, दोनों की शौलियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं । संख्या से कालांशों के दीर्घत्व का जो बोध होता है वह इतिहास

की शैली है और जो उमका एक गोचर समन्वय उपस्थित करता है वह काव्य है। नीम या नीबू का बृक्ष रोपकर जो पति विदेश गया वह अवतक न लौटा, पर वह बृक्ष अब फूलने-फलने लगा है। काल के मापदंड की यह प्रणाली काव्य-कला का कौशल नहीं, हमारी आरण्यक संरक्षित का प्रनिकल्प है। प्रकृति का यह साहचर्य सनातन है। पेड़-पौधों में प्राण-प्रतिष्ठा, विज्ञान ने चाहे उसे आज प्रमाणित किया हो, मानव जीवन के साथ ही कल्पत की गई है। बोध और रम्य में तात्त्विक अंतर है। बोध बुद्धिगत प्रतीति है और रमण हृदयगत। इसी कारण गीत में हृदयगत प्रतीति केलिए, वर्षों की संख्या के रूप में बुद्धिगत काल-बोध न कर, एक छोटे बृक्ष के बड़े होने का इंद्रियग्राह विधान उपस्थित किया गया है। ऐसे रमणीय वर्णन से विगत काल जीवंत तथा प्रत्यक्ष हो उठता है। प्रतीति की इस पद्धति पर चलने से काव्य में सजीवता भज्जकती है। अंगरेजी में भी ऐसे लाज्जणिक प्रयोग बहुत होते हैं। इसी प्रकार 'उसकी अवस्था पंद्रह वर्ष की है' के बदले 'उसने अपने जीवन में पंद्रह वसंत देखे हैं' ऐसा प्रयोग अब साधारण काव्य-कौशल समझा जाने लगा है।

खी और पुरुष रचयिताओं के हृष्टिकोण एक दूसरे से कुछ भिन्न-से रहते हैं। मानवता के नाते भावनाओं में कुछ विशेष ग्रामगीत में अंतर नहीं होता, किन्तु कुछ ऐसी बातें रहती हैं खीत्व और जो जीवन के भावना-भेद को स्पष्ट करती हैं। पुरुषत्व प्रणाय-भाव को बनाए रखने केलिए खी और पुरुष, दोनों के हृदय में दोनों की प्रतिष्ठा बनी रहती है। परंतु साधारणतः खीयाँ अपने हृदय में पुरुषों को रखने की अपेक्षा

स्वयं उनके हृदय में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। ग्रामगीत और कलागीत दोनों ढंग की रचनाओं में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त कवयित्रियों ने अपने गीतों में स्वकीया के प्रेम, विरह, उच्छ्वास को जितनी प्रतिष्ठा दी है उतनी पुरुषों ने नहीं। ग्रामगीतों में स्वकीया के सरल प्रेम की मार्भिक व्यंजना है। कुछ ऐसे गीत भी हैं जो स्वकीया की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं पड़ते, किन्तु ऐसे गीत जीवन की विधि नहीं, निषेध के सूचक हैं। शृंगारिक कवियों ने अपनी विलासवृत्ति के परितोष केलिए खियों से कौन-कौन-सी चेष्टाएँ न कराई हैं। इसका यही कारण है कि उन काव्यों की रचना करनेवाले पुरुष हैं। इसकी प्रतिक्रिया खियों में भी होती रही है और अवभार मिलने पर पुरुषों के संध्रम तथा श्रेष्ठता को उन्होंने नीचा दिखाया है। किन्तु, विडंबना की बात यही है कि खी और पुरुष, दोनों अपने-अपने स्थान पर ही हैं और रहेंगे। नदियाँ समुद्र में न गिरें तो जायँ कहाँ! विलासिता का लद्य एक ही है, खी और पुरुष दोनों अपने-अपने मार्ग से एक ही केंद्रविद्धि पर पहुँचते हैं। कहीं पुरुष ने खी को विरह से पगली बना दिया है तो कहीं खी ने ही पुरुष की खूब धजियाँ उड़ाई हैं। एक ग्रामगीत में रसिक कन्हैया की अच्छी खबर ली गई है—

मारे पिछवरवाँ कुम्हरवा की बखरी,

अच्छी-अच्छी मेदुको भँवायो जी ॥१॥

असकै चाक चलाये रे कुम्हरवा,

दहिया वेचन हम जाह्ब जी ॥२॥

असकै चाक चलैहों गुजरिया,

दाह्या लेदैया लोभि जाहै जी ॥३॥

एक वर नांवि दूसर वर नांवियों,  
तिसरे में मिले हैं कन्हैया जी ॥९॥  
छोड़ो कन्हैया बहिँयाँ हमारी,  
हमरे सचुर बड़े जालिम जी ॥१०॥  
तुमरे सचुर को मैं हथिया पठैहौं,  
तुमको बेटिहौं अपने राजहिं जी ॥११॥

× ×                    × ×                    × ×

छोड़ो कन्हैया बहिँयाँ हमारी,  
सद्याँ हमरे दुख दाहन जी ॥१६॥  
तुमरे बलम का मैं करिहौं वियहबा,  
एक गोरी एक साँवर जी ॥१७॥  
तनियक पिँछवड़ होइ जाओ कान्हा,  
जसुना मैं खेलिहौं हुबैया जी ॥१८॥  
एक छुड़ी मारिन दुसर छुड़ी मारिन,  
गोरिया उतरि गई पारै जी ॥१९॥  
पूछन लागे गड्या चरहरवा,  
बखरी गुजरिया बताओ जी ॥२०॥  
जाहैके बैठे कान्हा कुआँवाँ जगत पर,  
बखरी गुजरिया बताओ जी ॥२१॥  
जेहिके दुआरे कान्हा आँधे हैं पैंडरवा,  
वही गुजरिया की बखरी जी ॥२२॥  
हाथ में चुबिला पाँच में बिछिया,  
फहिरिन चटक चुनरिया जी ॥२३॥  
निहुरे निहुरे गुजरी अंगना बहारैं,  
पीछे ढाढ़े कन्हैया जी ॥२४॥

लागी कहन परोसिन उनसे,  
 पीछे बहिन तुमरी ढाढ़ी जी ॥२५॥  
 ना तो चचा के ना तो बबा के,  
 दुसरी बहिन कहाँ पावा जी ॥२६॥  
 तुमरा विधाह बहिन हमरा जनमदा,  
 दुसरी बहिन तुम पायो जी ॥२७॥  
 दूनों बहिन मिलि पिसना जो पीसें,  
 मूसर घुमावें मरदाने जी ॥२८॥  
 दूनों बहिन मिलि कुटना जो कूटें,  
 मूसर उठावें मरदाने जी ॥२९॥  
 दूनों बहिन मिलि रोटिया बनावें,  
 थपकी चलावें मरदाने जी ॥३०॥  
 दूनों बहिन मिलि जेवन जो बेठीं,  
 कौर उठावें मरदाने जी ॥३१॥  
 एक दिन बीता दूसर दिन बीता,  
 कान्हा कहेन मुसकाई जी ॥३२॥  
 जीजाजी खटिया बरौठा में ढारौ,  
 हम तुम सुतब महलिया जी ॥३३॥  
 खटिया बहुठि कान्हा रसभरि चितवें,  
 भौंहाँ चलावें मरदाने जी ॥३४॥  
 समुक्षि समुक्षि मन हँसी गुजरिया,  
 इपटि के भागि दुधारे जी ॥३५॥  
 भागो कन्हैया जियरा बचाओ,  
 आइगे सछर बड़ जालिम जी ॥३६॥

भागो कन्हैया जियरा बचाओ,  
आहं सैयो छड़ दाहन जी ॥३९॥  
ओढ़नी उतारि कान्धा अँगना में फेकेनि,  
लहुँगा उतारि जतसारी जी ॥४०॥  
हालाहाली टिकुली उतारे न पावनि,  
कृदि गयेन डँड़वारी जी ॥४१॥  
हथवा बजायक हँसी गुजरिया,  
ठहरौ न कान्धा रस लट्ठौ जी ॥४२॥

[मेरे पिछवाड़े कुम्हार का घर है। हे कुम्हार! तुम बहुत अच्छी तरह चाक चलाना और सुंदर मटुकी बना देबा। मैं दही बेचने जाऊँगी ॥१,२॥

कुम्हार ने कहा—हे गृजरी! मैं ऐसा चाक चलाऊँगा और ऐसी सुंदर मटुकी बना दूँगा कि दही लेनेवाला लुभा जायगा ॥३॥

गृजरी दही बेचने निकली। एक घर में बेचकर दूसरे घर में गई। तीसरे में गई। वहाँ उसे कन्हैया मिल गए। उन्होंने गृजरी की बाँह पकड़ ली। गृजरी ने कहा—हे कन्हैया! मेरी बाँह छोड़ दो। मेरे सहर बड़े क्रोधी हैं ॥९,१०॥

कन्हैया ने कहा—मैं तुम्हारे सहर केलिये हाथी भेजूँगा और तुमको राजगद्दी पर बैठा दूँगा ॥११॥

× ×                    × ×                    × ×

गृजरी ने फिर कहा—हे कन्हैया, मेरी बाँह छोड़ दो। मेरे स्वामी बड़े ही कठोर स्वभाव के हैं ॥१६॥

कन्हैया ने कहा—मैं तुम्हारे स्वामी का दो विवाह करा दूँगा। एक साँवली होगी, दूसरी गोरी ॥१७॥

गृजरी ने छुटकारे का जब कोई उपाय न देखा तब उसने कहा—हे कन्हैया, जरा तुम सुँह उधर कर लो। मैं यसुना मैं एक हुबकी ले लूँ ॥१८॥

कन्हैया ने उसे हुबकी मारने केलिए छोड़ दिया। एक हुबकी के बाद दूसरी हुबकी मारकर वह पानी ही पानी मैं उस पार हो गई और अपने घर चली गई ॥१९॥

कन्हैया उसका घर खोजते हुए चले । उन्होंने गोरु चरानेवालों से पूछा—है भाई ! दही बेचनेवाली गूजरी का घर सुझे बता दो ॥२०॥

कन्हैया कुँएँ की जगत पर जाकर बैठे । उन्होंने पनिहारिन से पूछा—है पनिहारिन ! मुझे गूजरी का घर बता दो ॥२१॥

पनिहारिन ने कहा—है कन्हैया, जिसके द्वार पर भैंस के पंडवे बधे हैं वही गूजरी का घर है ॥२२॥

कन्हैया ने हाथों में चूड़ियाँ, पाँवों में लिछुबे और शरीर पर चटकीली जुनरी पहन ली ॥२३॥

गूजरी छुकी हुई अपने आँगन में झाड़, लगा रही थी । पीछे सुढ़कर वह देखती है तो कन्हैया खड़े हैं ॥२४॥

पड़ोसिन ने गूजरी से कहा—देखो, तुम्हारी बहन खड़ी है ॥२५॥

गूजरी ने कहा—न तो मेरी कोई चचेरी बहन है, न कोई सगी । यह बहन कहाँ से आई ? ॥२६॥

कन्हैया ने कहा—है बहन ! तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद मेरा जन्म हुआ था । इस प्रकार मैं तुम्हारी दूसरी बहन हूँ ॥२७॥

दोनों बहनें मिलकर आँटा पीसने लगीं । दूसरी बहन का हाथ मर्द की तरह चलता था ॥२८॥

दोनों बहनें मिलकर कूटने लगीं । दूसरी बहन की शपकी मर्द की तरह उठता था ॥२९॥

दोनों बहनें मिलकर रोटी बनाने लगीं । दूसरी बहन की शपकी मर्द की तरह चलती थी ॥३०॥

दोनों बहनें मिलकर भोजन करने वैरीं । दूसरी बहन मर्द की तरह कौर उठाती थी ॥३१॥

एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता । तीसरे दिन कन्हैया ने सुसकुरा कर कहा—॥३२॥

जीजाजी की खाट बरौंटे(बरंडे) में डाल दो । हम तुम महल में सोवें ॥३३॥

खाट पर बैठकर कन्हैया रसीली चितवन से देखने लगे और मर्द की तरह भौंह चलाने लगे ॥३४॥

गूजरी को पहले ही से शक था । वह ताड़ गई । कन्हैया की चतुराई समझकर वह मन ही मन सुसकुरा रही थी । इतने में ज्ञप्तकर वह दरवाजे की ओर भागी ॥३५॥

उसने कहा— हे कन्हैया, भागकर अपनी जान बचाओ। मेरे महा-  
कोधी सहर आ गए ॥३६॥

कन्हैया ने ओढ़नी उतारकर आँगन में केंक दिया और लड़ा जाँत के  
घर में। पर जल्दी में डिकुली (बेंदी) उतारने का मौका न मिला। वे  
हँड़वार (पाल) कूदकर घर से बाहर हो गए ॥४०, ४१॥

कन्हैया को भागते हुए देखकर गूजरी ताली बजाकर हँसने लगी और  
बोली—कन्हैया, भागे कहाँ जाते हो ? आओ न ? रस लट्ठो ॥४३॥]

ऐसी ही एक कविता पद्माकर की है—

फागु की भीर, अभीरिन में गहि गोर्खिदै लै गई भीतर गोरी ।  
भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी ॥  
छीनि पितंबर कमर तें छ विदा दई भीड़ि कपोलन रोरी ।  
नैन नवाय कही मुसकाय “लला फिर आह्यो खेलन होरी” ॥

[फागु की उमांभरी घड़ी में गोर्खियों ने कन्हैया को गिरफ्तार किया  
और एक कमरे में बंदकर इच्छानुसार अबीर-गुलाल से उनकी मरम्मत  
की। कपोलों में अबीर खूब मलकर कमर की घोती छीन उन्हें नंगा कर  
दिया और मुसकानभरी चित्तवन के साथ उन्हें विदा करती हुई वे बोलीं—  
‘लला फिर होली खेलने केलिए आना’ ।]

ऐसी रचनाएँ एक विशेष प्रकार की द्योतक हैं। खी ने पुरुष  
को अपनी श्रेष्ठता का जैसा अभियुक्त बनाया, मालूम होता है,

पुरुष ने, पद्माकर के प्रतिनिधित्व में, उसे सहृष्टि  
उपर्युक्त का स्वीकृत कर लिया। जिस चेष्टा से खी की विलास-

वृत्ति संतुष्ट होती है उससे दूर रहना रसिक  
पुरुषों के लिए भी संभव नहीं। खी और पुरुष दोनों की लालसा,  
वासना, विलासिता आदि मनोवृत्तियाँ दो भिन्न उद्देश्यों से प्रेरित  
होकर भी एक ही लक्ष्य में सञ्चिहित हो जाती हैं। जहाँ रचना  
का उद्देश्य कुत्सित मानसिक विलास नहीं रहता, बल्कि खी के  
सतीत्व की मर्यादा दिखाना होता है वहाँ वाणी की प्रतिपत्ति यथा-

सभव पाठक या श्रोता के हृदय में तदनुकूल मनोविकार ही उत्पन्न करती है। यह भी एक मानसिक विलास ही है, किंतु जीवन को शक्ति देनेवाला और महत् सौंदर्य से भरा हुआ विलास है। खी का सतीत्व एक मर्यादा है। ग्रामगीतों में ऐसी बहुत-सी कथाएँ हैं जिनमें खियों ने अपने अनुपम साहस, धैर्य, चारुर्य से अपने सतीत्व की रक्षा की है। खियों दुख से किञ्चित् ही पराजित होती हैं, भाव से सहज ही पराभूत हो जाती हैं।

ग्रामगीतों में यत्र-तत्र ऐतिहासिक तथ्यों का भी समावेश किया गया है जिन्हें हम 'सत्य कल्पनाएँ' कह सकते हैं। ऐसे

बहुत-से गीत हैं जिनका आधार कोई-न-कोई  
उपसंहार

ऐतिहासिक पुरुष या खी है और ऐसे विषयों पर जो परंपरागत गीत हैं वे समाज को अपनी दिशा में बराबर आत्मशक्ति देते रहे हैं। गार्हस्थिक या पारिवारिक जीवन से सबध रखनेवाले गीतों में कुछ तो सुखजनक करुणापूर्ण हैं और कुछ करुणाजनक सुखमय। अधिकाश ग्रामगीत, जिन्हे खियों द्यादा पसद करती हैं, करुणाजनक होते हैं, क्योंकि खी-प्रकृति स्वाभाविक रूप से स्वपीडन-प्रथान होती है। भारतीय जीवन का सामान्य स्वरूप ग्रामगीतों में ही मिलता है, कलागीत में उसका स्वरूप विशेष सरकृत तथा शिष्ट होकर रुढ़ तथा परंपरासुक्त हो गया है।

---

## कलां अद्याय

### कलागीत की प्रवृत्तियाँ

ग्रामगीत में जीवन का जो सरल रूप सन्निहित किया गया वह कलागीत में उसी वेश में समाविष्ट नहीं हो सका। उसमें ऐसे कितने विजातीय द्रव्य मिले जिनके कारण कल्पना ग्रामगीत की प्रकृति में जीवन का सौंदर्य भले ही कुछ बढ़ा, किन्तु वास्तविकता के साथ वह सबंध नहीं बना रह सका। जीवन-तत्त्व की जो अपूर्व विशेषता ग्रामगीत में व्याप्त थी वह कलागीत में सर्वत्र नहीं पाई जाती। ‘अतः हमारे वर्तमान काव्य-क्षेत्र में, यदि अनुभूति की सच्चादता की धारा प्रकृत पद्धति पर अर्थात् परपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्मस्थल से

पहुँचकर स्वाभाविकता के अनुमंदान में पीछे हटने को बाध्य होता है।

उभार्ता

कलागीत की साधारणतः दो पद्धतियाँ हैं—अत्मसुखी तथा बहिर्मुखी। जहाँ हम बाहु जगत् का चित्रण अप्रसुत विधान के कलागीत की द्वारा करते हैं वहाँ हमारी वृत्तियाँ साइश्यमूलक दो पद्धतियाँ चित्रों के सहारे अपनी अभिव्यक्ति चाहती हैं,

किन्तु अत्मसुखी काव्य में हम अपनी वृत्तियों की सवाई केलिए बाहर के प्रमाण या मापदण्ड खोजने का प्रयत्न नहीं करते। यही सबेदनात्मक शैली है। गीतों या मुक्तक काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। जब कवि एक द्रष्टा के रूप में शेष जगत् की किसी वस्तु का वर्णन करता है और अपनी रुचि, अस्थि, प्रेम, धृणा आदि भावों से यथासंभव अनासक्त रहता है तब वह वर्णन बहुत कुछ निरपेक्ष कहा जाता है, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से न तो कोई कवि अपने व्यापार में अनासक्त रहता और न उसका कोई वर्णन ही निरपेक्ष माना जा सकता है। ‘सर्वं सर्वत्र सर्वदा’ वर्तमान रहता है। व्यापार-दृष्टि से कवि यथासभव अपनी सत्ता को अप्रकट रखने की चेष्टा करता है। ऐसा प्रयत्न प्रवध-काव्य की रचना में विशेष सुविधाजनक है। गीत या मुक्तक काव्य में सबेदनात्मक शैली का विधान उपयुक्त होता है। किसी नायिका के

सौदर्य-वर्णन केलिए तरह-तरह के उपमान जुटाये जाने पर भी द्रष्टा के हृदय-तत्त्व का यदि उसमें पता न'लगे तो सारा वर्णन कल्पना का महल ही मालूम होगा। वह चद्रमुखी है, वह बड़ी सुदर है, वह अत्यत सुदर है, इतना या इस प्रकार बहुत कुछ कह चुकने पर भी जिस

सुंदरता का बोध नहीं होता वह केवल—‘आह, वह कितनी सुंदर है।’ की मार्मिक वाणी से हृदयगम हो जाता है। सुंदरता का यह संवेदनात्मक स्वरूप है। पहले ढग की उक्तियाँ बुद्धिगत बोध से ज्यादा सबंध रखती हैं और पिछली उक्ति हृदय की अनुभूति है—प्रसीति है। ऐसी उक्ति प्रमाण-सापेद्य नहीं होती और परिणामतः हृदय पर अभूतपूर्व प्रभाव डालती है। जिनके हृदय में किसी भाव की गम्भीर तथा मार्मिक अनुभूति नहीं हुई रहती वे भी मज़मून बौधने का बहुत हौसला रखते हैं और बौधते-बौधते कल्पना के सहारे भावों से इतनी दूर बढ़ जाते हैं कि वे काव्य के बदले तमाशा खड़ा कर देते हैं। जिनके पास अनुभूतिपोषित गम्भीरता तथा मार्मिकता है वे बहुत कुछ कहने का हौसला नहीं रखते। केवल वचन-विद्यर्थता ही काव्य नहीं है। कम-से-कम वाणी में हृदय की अनुभूति को अभिव्यक्त करने में योग देनेवाली प्रकृति भाव-केंद्र के समीप की ही रहती है। अनुभूति की गम्भीरता वाणी को संयत रखती है। जिन्हें हृदय की यह विभूति प्राप्त नहीं उनकी वाणी कल्पना की हवा में उड़ती चलती है।

अनुभूति एक तथ्य है, किन्तु कल्पना सदा व्यक्तिगत होती है। महत् अनुभूति के विना विराट् कल्पना बालू की भीत है। जिस कल्पना में अनुभूति की नींव कमज़ोर रहती वह अनुभूति और न तो टिकती है और न प्रभाव ही उत्पन्न कर कल्पना सकती है। अनुभूति की उपेक्षा कर उड़नेवाली कल्पना उड़ भले ही जाय, पर वह अपने सार-सर्वस्व को छोड़कर उड़ती है। इसीलिए वह हृदय को रमाने के बदले उसे कौतुक और वैचित्र्य में डाल देती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि

ऊँची अद्वालिका या पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे भूमि की ओर देखने से भय और उज्ज्ञाम का जो सौंदर्य मालूम पड़ता है वह हवाई जहाज पर चढ़ कर नहीं। अद्वालिका या पहाड़ की चोटी का भूमि के साथ जो अभिन्न सर्पक है वह देष्टा के हृदय में विद्युत् का प्रवाह सचरित करता है। हवाई जहाज पर उड़ने वाले को पुष्टी की विद्युत्-शक्ति प्राप्त नहीं होती। उसे जगत् के हृदय में केवल वैचित्र्य और कौतुक ही मिलता है। इसी प्रकार अनुभूतिहीन कल्पना, जीवन-तत्त्व को छोड़कर उड़ने के कारण, हृदय को अपने साथ नहीं ले जा सकती। काव्य के प्रत्येक पद में हृदय-तत्त्व नहीं खोजा जा सकता, प्रत्येक पंक्ति में भी उसका निर्बाह सभव नहीं। हर टहनी में फूल भले ही खिले, पर हर पत्ते में फूल खोजना पागलपन है। टहनियों के झुरझुट में, पत्तों के हरे-भरे आवरण में, खिले फूल की जो शोभा होती है वह ऊँज़ँड़ डालियों में नहीं। कल्पना का विसान उसी सीमा तक शोभाप्रद माना जा सकता है जहाँतक वह अनुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक बनती हो। केवल कल्पना और वैचित्र्य की प्रधानता में जितने काव्य बने उनका प्रभाव मानव जीवन पर यथेष्ट नहीं पड़ा। जनता के प्रति कवियों का जो दायित्व है उसे समझने तथा उसके अनुसार अपने काव्य की रचना करने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। परिणाम वही हुआ जो ऐसी स्थिति में संभावित था। जनता

कलावाद की वास्तविकता ने इसी कारण ऐसे अहुत-से कवियों का गुरुत्व नहीं स्वीकृत किया। विनोद में ही उनको उड़ा दिया। कुछ आलोचकों की यह धारणा है कि 'कला कला केलिए' की भावना 'खट्टे अंगूर कौन खाय' से ही

सबंध रखती है। जनता ने वैसे काव्यों को जब जीवन के उपयुक्त न पाया तब वैसे काव्य केवल कला की दृष्टि से कला की कृतियों माने गए। बहुत-से कवि जो अपनी रचनाओं के द्वारा किसी गमीर विषय की शिक्षा देना चाहते थे वे भी विनाद में उड़ा दिए गये और उनकी सारी कृतियों का मूल्य मनोरंजनमात्र रहा। १। जीवन के गमीर उद्देश्य की प्राप्ति का साधन वे न बन सकी। जनता की ऐसी धारणा अबतक भी निर्मूल नहीं हुई है और 'आप कवि हैं' के भाव से सारी स्थिति समझी जा सकती है। सस्कृत के एक कवि ने बहुत ही व्यथित होकर कहा है—प्रशासा के म्लोक बनाकर भेजने से क्या लाभ। अपने दुखों की चर्चा से भी कुछ लाभ नहीं। संभव है, वह धूर्त मेरी इन सब बातों को केवल कवि-कल्पना ही समझे।<sup>१</sup> कवियों की अवस्था उनके लिए गौरव-पूर्ण नहीं, बल्कि जनता के सामने उनके महत्त्व का पराजय है।

हिंदी के कलागीत का आविर्भाव-काल साधारणतः वीरगाथा का समय ही माना जाता है। यों हिंदी भाषा के स्वरूप के अंतर्गत आनेवाली कविताएँ दो-चार शताब्दि पहले से ही होती रही हैं। मानव जीवन जब भोजन-वस्त्र की चिंता से कुछ मुक्त-सा हो

१ In bringing his bold criticism of English Social life on to the stage, Bernard Shaw attracted immediate attention, though few thought of taking his criticisms seriously. His exposures and attacks were witty and amusing, and the British public soon came to adopt him as a sort of licensed iconoclast which is a sure way of rendering a reformer ineffective.

David Daiches Literature And Society, p 263

२ वृथा गाथा श्लोकै श्लमलमलीका ममरुं।

कदाचिद धूर्तोऽसौ कविवचनमित्या कलपति ॥

जाना है तब उसे युद्ध और प्रेम की सूक्ष्मती है। अपनी स्थिति के निर्वाह या उसके प्रसार की इच्छा में जो युद्ध किए जाते हैं वे कलागीत का प्रेम के साथ स्पष्ट सबध नहीं रखते। बहुत-से आरम्भ-युद्ध युद्ध के बल प्रेम के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षा और प्रेम की पूर्ति के निमित्त किए जाते हैं। भव्य अर्थ में जो युद्ध है उसका वर्णन इतिहासकार करते हैं और दूसरे ढंग के युद्धों का वर्णन कविगण। मानव जीवन के क्रिया-कलाप में स्त्री-जाति की प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रामायण-महाभारत के भीषण युद्धों के चाहे जो कारण रहे हो, किंतु सीता-हरण तथा द्रौपदी-चीर-हरण तो स्पष्ट हैं।

पुरुष और स्त्री के मनोविश्लेषण में एक भेद की विशेषता है। पुरुष बाह्य सौंदर्य पर जितना निमग्न हो सकता है उतनी स्त्रियों नहीं, और अतः सौंदर्य पर स्त्रियों जितनी विमुग्ध हो सकती हैं उतना पुरुष नहीं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान का यह भेद बिलकुल गहरा है। बाह्य और अतः सौंदर्य का महत्व अपनी स्थिति में ही रहता है। पुरुष की दृष्टि नारी के बाह्य सौंदर्य पर और नारी की पुरुष के अतः सौंदर्य पर पहले आकर्षित होती है। सुंदरी रमणी तथा वीर पुरुष दोनों ही वदनीय माने जाते हैं। काव्य में पुरुष कवियों ने स्त्री के सौंदर्य-वर्णन पर जितना ध्यान दिया उतना उनके गुणों पर नहीं, और स्त्री कवियित्रियों ने भी पुरुष के गुणों पर जैसी अतर्हृष्ट रखी वैसी उनके रूप पर नहीं। रूप और गुण के वर्णन दोनों ही ओर से हुए हैं, किंतु स्वाभाविकता तथा प्रकृति के अनुसार स्त्री-पुरुष के सामान्य संबंध का यह स्पष्ट

अंतर है। वीरता के गुणों पर स्त्रियों को आत्म-समर्पण करते बहुत सुना गया है। किसी विपत्ति या कष्ट से छुटकारा दिलाने वाले वीर के साथ सुंदरियों ने जो सौजन्य दिखलाया है वह सहज ही काव्य में स्थान प्राप्त कर चुका है। स्त्रियों ने पुरुषों के हृदय में जो रमणीय स्थान प्राप्त किया वह केवल उनके बाह्य सौंदर्य के बल पर नहीं, उनके अंतः सौंदर्य का भी उसमें काफी श्रेय रहा है। किसी रमणी के मुख से अपनी प्रशंसा के शब्द सुनकर पुरुष को जो आह्वाद होता है वह उसकी प्राप्ति के अनुकूल प्रथल में कम प्रेरणा नहीं देता। कुछ दिनों तक कलापीत का केंद्र-स्थल युद्ध-प्रयत्न के बाद रमणी-रत्न की प्राप्ति का मनोरम वर्णन ही रहा। इस प्रकार के वर्णन में एक और स्त्री का रूप-सौंदर्य, दूसरी और पुरुष का शौर्य-वीर्य और मध्य में दोनों विद्वाओं को मिलानेवाला प्रेम प्रधान बना रहा।

राजा या राजकुमार प्रारंभ से आखेटप्रिय होते आए हैं। सोती हुई सिंहनी को जगाकर शिकार खेलनेवाले राजकुमार को जन-समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वह पुरुष की सोई सिंहनी पर वाण चलानेवाले को नहीं। अनायास या विना प्रयास जो राजकुमारी प्राप्त हो जाती उसको रमणी-रत्न का पद नहीं मिलता था, चाहे वह पट्टमहिषी ही क्यों न हो। दुष्यत ने तूणीर से विना वाण चलाये ही शकुतला के हृदय को प्रेमविद्ध कर दिया, किन्तु कुछ दिनों के उपरांत करव-आश्रम के मृग-शावक मले ही दुष्यत को याद रहे हों, बेचारी शकुतला उनकी स्मृति में भी बची न रह सकी। युद्ध के हेतु जब गौण हो जाते हैं या निर्बल पड़ जाते हैं, तब

बहुधा 'युद्ध युद्ध केलिए' ही किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब काव्य के हेतु-तत्त्व को दिख्रम हो जाता है तब 'कला कला केलिए'

युद्ध के हेतु— ही मान ली जाती है। हेतु का औचित्य नष्ट होने पर ही ये तमाशे खड़े होते हैं। जीवन में यौवन का प्रदर्शन युद्ध और प्रेम के सामाजिक स्फुरण होते हैं।

जो वस्तु सहज ही प्राप्तव्य है उसको, युद्ध-प्रसग उपस्थित कर, दुःसाध्य बना देने से यौवन और पराक्रम को अपने प्रदर्शन का उपलक्ष्य मिल जाता है। हेतु को निश्चित रखने केलिए कवियों को इसी उपलक्ष्य के उट्टेश्य से वर्णन का अवसर प्राप्त हो जाता है। कलागीत में युद्ध और प्रेम बहुधा मूल लक्ष्य के रूप में नहीं, प्रत्युत् वर्णन के उपलक्ष्य से ही समाहृत हुए हैं।

युद्ध और प्रेम के समन्वय की अनुकूल परिस्थिति ज्यों-ज्यों दूर होती गई त्योन्त्यो प्रेम को अपने विकास का एकाधिकार मिलता गया, पर वह सर्वथा लौकिक नहीं बना प्रेम-तत्त्व का रह सका। अंतस्साधना के रूप में उसमें ज्ञान दिशा-भेद का योग हुआ, किंतु हृदय-पक्ष को महत्त्व नहीं देने के कारण प्रेम-तत्त्व को विकास का समुचित ज्ञेन्त्र नहीं मिल सका। रागात्मक तत्त्व से हीन अंतस्साधना मनुष्य के चित्त को वृप्त नहीं कर सकती, उसे समझा-बुझाकर एक दूसरे स्तर पर अवश्य खड़ा कर सकती है। ज्ञान-योग मरितष्क की आँखें खोल सकता है, पर हृदय को रमा नहीं सकता। निर्गुण में जब मानव हृदय को परिवृत्ति न मिली तब संगुण रूप में उसे शाति मिली। ज्ञानपक्ष में गुह्य और रहस्य की भावनाएँ इतनी विकट तथा जटिल रूप में उपस्थित हुईं कि साधारण मनुष्य केलिए ज्ञानपक्ष

अनेक ही जीवना रहा। सूक्षियों का प्रेम-तत्त्व अन्यत्र चाहे वासना-ग्रस्त ही रहा हो, परन्तु हिंदी-काव्य में उसने रूपक के सहारं जीवन का सौंदर्य उत्पादित किया। चराचर सृष्टि के साथ मानव हृदय को सहानुभूति-सूत्र में बद्धकर अखड़ जीवन का आभास देना प्रेम-कथाओं की विशेषता है और यह विशेषता सूफी कवियों में

ज्ञानयोग की  
रहस्यवादिता

पर्याप्त थी। भावात्मक रहस्यवाद का प्रबोध होते ही काव्य में योगियों तथा तांत्रिकों के साधनात्मक रहस्यवाद केलिए गुजाइश नहीं हो सकी। अपनी अटपटी वाणी या उल्टवॉसियों से सामान्य जनता की बुद्धि पर आतंक जमाने के अतिरिक्त ज्ञानवादियों ने उपासना को सम्मुख कर उनके हृदय पर भी अधिकार करने की चेष्टा की। 'जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार-पद्धति में ज्ञानमार्ग का एक निरूपण था उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विपर्य नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति केलिए हठ-योगियों की-सी साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ-योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवश्यक स्पष्ट लक्षित होते हैं' १। इस तरह परिस्थितिवश, निर्गुण ब्रह्म को भी उपासना के लेने में निरुपाधि से सोचाधि बनाया गया, पर उपासना का बाह्य स्वरूप विवादग्रन्त बना ही रहा।

१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ९४

पूर्वभारत में राधाकृष्ण के उपलक्ष्य पर प्रेम-माधुरी की जो वर्णी बजी उसका स्वर मिथिला के आप्र-कुंजों से गैंजना हुआ बजवारा तक प्रतिव्यनित हो उठा। राधाकृष्ण के सगुणवाद का भिन्न-भिन्न रूपों और प्रथनों पर जो रसात्मक प्रेमयोग हृष्टि डाली गई वह काव्य में अतुलनीय है। मुक्तक रचनाओं के द्वारा प्रेम के विविध रूपों का इतना रमणीय वर्णन किसी भी साहित्य का शृंगार है। सगुणवादी कृष्णभक्तों ने अपनी बीणा पर राधा-कृष्ण के प्रेम का जो गान गाया उसमें स्वर तो साधारणतः वही था, किन्तु हृदय की मार्मिकता अपूर्व थी। कृष्ण का बाल-रूप-वर्णन जिस मनोवैज्ञानिक विशेषता के साथ किया गया वैसा शायद ही अन्यत्र हुआ हो। नित्य नष्ट-नए भजन के रूप में अपने उपास्य राधाकृष्ण के भिन्न-भिन्न रूपों, उनकी क्रीडाओं का वर्णनकर कृष्णभक्त कवियों ने अपनी अपूर्व विद्य-रघता का परिचय दिया। उनका यह सयत स्वर, कुछ काल का व्यवधान पाकर, रीतिकाल के कवियों की बाणी में अनियन्त्रित होकर गैंज उठा। इस बीच में लोक-व्यवस्था के निरूपण केतिए राम-जैसे नायक को अपना आराध्य बनाकर काव्य का एक आदर्श उपस्थित किया गया। जगत् और जीवन के विविध रूपों का जितना समन्वय रामायण में मिलता है उतना अन्यत्र किसी काव्य में नहीं। समाज के आचार-चिचार, वर्म-शिष्ठाचार आदि की रचनात्मक समीक्षाकर समाज को एक आदर्श का अनुगमी बनाने की चेष्टा की गई। उस समय लोक-गीतों के रूप में जितनी भी शैलियाँ यन्त्र-तत्र बिखरी पड़ी थीं उन सब का समावेश कलागीत के रूप में कर दिया गया। जीवन में प्रेम-तत्व का जो

रूप अबतक आप्रस्फुटित तथा असंयत हो रहा था वह स्पष्ट तथा सयत रूप में उपस्थित किया गया। सगुणवादी भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जन-समाज के हृदय के रागात्मक पक्ष को बहुत ही रमणीय आलोचन दिया जिससे समाज को शक्ति मिली, उसका मनोरंजन हुआ। इसके साथ ही भक्त कवियों—निर्गुणवादी तथा सगुणवादी, दोनों—ने रसात्मक पक्ष के अतिरिक्त उपमा, उत्पेक्षा, रूपक, अन्योक्ति तथा नीति के वचनों से सामाजिक अवधारणा की तीव्र आलोचना की और विधि निषेध का मार्ग बताते हुए अपने-अपने हृषिकोण के अनुसार, समाज-कल्याण का उपदेश दिया। काव्य को उनकी सेवा में साधन-स्वरूप होकर उपस्थित होना पड़ा। रसात्मक प्रसंग के अभाव में चाहे काव्यत्व न भी उद्घासित हुआ हो, किन्तु उनकी वाणी से समाज ने लाभ उठाये और अपने विचार में परिवर्त्तन या संशोधन करने में भी बहुत कुछ वह समर्थ हुआ।

दरवारी ढग की कविताओं में रचयिताओं का ध्यान स्वकीया से मुड़कर परकीया की ओर उद्घासित होने लगा। मुगल बादशाहों के आधिपत्य तथा आश्रय ने इस प्रवृत्ति को प्रेम-योग का उभाडने में बड़ा सक्रिय भाग लिया। विदेशी दिशा-भेद साहित्य के प्रभाव से भारतीय दांपत्य जीवन की सुरुचि में बड़ा व्यावात उत्पन्न हुआ और निष्क्रिय राजा-महाराजों की रंग-रेलियों के सुर-तान पर कलागीत भी नाचने लगा। कलागीत का यह आदर्श प्रेम की स्वतंत्र उद्घाष्ठनाओं को ही हृषि में रखकर बनाया गया, क्योंकि विदाह में प्रेम को एक निश्चित परिधि के भीतर ही विकास का अवकाश मिलता है। प्रेम में जहाँ

कर्तव्य और अविकार की भावना रहती है वहाँ उसके उच्छ्वासल विकास की समावना नष्ट हो जाती है। परकीया के वर्णन में भावनाएँ उच्छ्वासल रहती हैं, उनके लिए काई भी वधन नहीं होता। विवाह में प्रेम को जिस स्थिति और नियन्त्रित रूप में दिखाना पड़ता है उससे मुक्ति पाने के लिए कवियों ने परकीया को ही

अपना विषय बनाया। परकीया के प्रेम या तथा-  
परकीया नायिका कवियों प्रेम में कल्पनाओं को जो स्वच्छदत्ता  
का महत्व

मिलती है वह स्कीया में नहीं। लोक-वधन में  
कवियों को अपनी भावनाओं के स्वतंत्र स्फुरण की सुविधा नहीं  
रहती। खासकर बैठे-ठाले के मन की मोज परकीया को उपलब्ध  
मानकर ज्यादा व्यक्त की जा सकती है। यही कारण हुआ कि  
बहुत लंबे अर्से तक परकीया ही रसिक कवियों की दृष्टि में प्रधान  
लद्य-बिंदु बनी रही। देव कवि के अनुसार—जोग हूँ ते कठिन  
सयोग परनारी को—परकीया का सयोग योग से भी कठिन  
समझा गया और इस कठिनता के प्रयासी बहुत से रसिक कवि  
तथा उनके पाठक बने। घर में सती सुंदरी को छोड़कर गलियों  
की खाक छानने में ही उन्होंने अपनी बहादुरी समझी। परकीया  
के अतिरिक्त गणिका भी स्वतंत्र उद्घावनाओं की प्रेरणा देनेवाली  
नायिका बनी रही, किन्तु परकीया के वर्णन में कवियों को जो

आनंद मिला वह गणिका में नहीं। स्कीया, परकीया तथा गणिका  
महत्व का कारण तीनों नायिकाओं के प्रति कवियों की अत्यर्वत्तियाँ  
भिन्न-भिन्न रूप से अग्रसर होती रहीं। स्कीया  
के सहज प्रेम में उन्हें अपनी कल्पना के लेत्र का  
विस्तार नहीं दिखाई पड़ा। गणिका भी उनका विशेष मनोरंजन

करने में समर्थ नहीं हो सकी। प्राप्तव्य की दुरसाध्यता उसके महत्व को बढ़ा देती है। जो वस्तु आनायास या थोड़े प्रयत्न के साथ प्राप्त की जा सकती है उसके प्रति मनुष्य को मोह नहीं होता। आखेट-प्रियता मनुष्य की प्रकृति है। जिस वस्तु को प्राप्त करने में कुछ दिक्षते उठानी पड़ती हैं उसका स्वाद कुछ अधिक प्रिय मालूम होता है। इसी प्रवृत्ति ने स्वकीया तथा गणिका, दोनों से अधिक परकीया की ओर ही कवियों का ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार के कलागति विशेषतः उसी श्रेणी के व्यक्तियों का मनोरंजन करते रहे जो जीवन की वास्तविकता से दूर रहकर हृदय की वासना का अतर्थ्यतिकम ज्यादा पसद करते थे। उन्हे अपनी विलासमय भावनाओं की प्रकृति के विश्लेषण तथा उनके अंतर्दर्शन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और ऐसा करने के लिए उनके पास अवकाश भी था। रसिक कवियों के ऐसे निषिक्य पाठक या श्राता को किसी उत्तेजनाजनक उपाख्यान के घटनानुक्रम की अपेक्षा भाव-विकृति में ही विशेष सुख प्राप्त होता था। ऐसे निरुद्यमों का काव्य एक ही संस्कार या प्रकृति के भावों का चर्चित-चर्चण करता रहा और कुछ सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को छोड़कर माहित्य को बहुत निम्न कोटि का काव्य मिला।

रसिकता को मल भावों की आसन्ति का विलास ही है। ऐसी आसन्ति विना किसी लहू के भी होने लगी। अपनी लालसा को रसिकता—जीवन का लक्ष्य शून्य में बढ़ाकर भी लोग उसके तथाकथित सौदर्य का रसास्वादन करने से न चूके। जीवन का न तो कुछ संघात रहा और न कुछ लहू, पर भावों के विलास में ही काव्य की सारी मर्यादा तोड़ दी जाने

लगी। बाहा जगत में जो सौंदर्य है उसकी अप्राप्यता से जो रुष्णा बढ़ने लगी उसके परितोप केलिए हवा में ही भूर्ति-निर्माण की कल्पना सस्ती जान पड़ी। स्वर्णीया के अतिरिक्त परकीया तथा गणिका के वर्णन में जब साहित्य-शास्त्रियों ने रमाभास की धमकी दी तब राधाकृष्ण के आलंबन पर श्रृगारिक कविताएँ रची जाने लगी। कवियों का एक सप्रदाय ही ऐसा निकला जो अपने मनो-भावों को एक ही दिशा में व्यक्त करता रहा। राधाकृष्ण के उपलक्ष्य पर न मालूम मेमी कितनी रचनाएँ की गईं जिनका अस्तित्व कवि के अतर्जगत् के बाहर कहीं न था।

रीतिकाल में रस, अलकार और नायिका-भेद के अंतर्गत इतना सूक्ष्म विवेचन हुआ जितनी सस्कृत साहित्य-शास्त्र के पूर्वाचार्यों ने कल्पना तक न की होगी। रीति-काल रीतिकाल की विशेषता का मूल आधार तो सस्कृत साहित्य-शास्त्र ही रखा गया, किंतु विवेचन और विनियोग की सूक्ष्मता में सस्कृत का यथातथ्य आधार न रह सका। कवि और आचार्य दोनों समानार्थक माने जाने लगे। वह कवि ही क्या, जिसने शास्त्रीय पद्धति का पादित्यपूर्ण प्रतिपादन न किया और वह आचार्य ही कैसा जिमने अपनी रसमयी रचनाओं के भिन्न-भिन्न उदाहरण न दिए हों। यही स्थिति थी। उस समय कवियों ने मुख्यतः विज्ञास-वृत्तियों को ही सतुष्ट करने का प्रयत्न-विस्तार किया, जीवन-सघर्ष से उत्पन्न समरथाओं के प्रति वे प्रायः तटस्थ रहे। नाम गिनाने लायक दो-चार कवि ऐसे अवश्य हुए जिनकी वाणी में दूसरा स्वर था, किंतु काल का प्रतिनिवित्व उनसे न हो सका। नायिका-भेद के अंगोपाग के वर्णन में रीतिकाल के कवियों ने मानो

सारा ईस-भडार ग्वर्च कर डाला। नायिका-भेद स्थियों का वस्तुतः सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, किंतु इसके अतिरिक्त जीवन की दूसरी अवरथाओं में भी मनोविज्ञान का उपयोग हो सकता है,

यह सोचने का अवकाश ही किसे था। स्वकीया, नायिका-भेद का परकीया तथा गणिका के मुख्य भेदों के सिवा विश्लेषण

उनके अगणित अवस्था-भेद किए गए। काव्य में यह सरकार इतना हड़ रहा कि उसकी परपरा अब भी किसी-न-किसी रूप में जारी है। नायिका-भेद के अंतर्गत 'देश-सेविका' जैसी कई तरह की नायिकाएँ भी स्थान पा गईं। यह शुभ प्रयत्न नहीं माना जा सकता। शृंगार के आलबन के रूप में ही नायिका-भेद का अस्तित्व है। जन-सेवा के नाम पर घर से बाहर निकलने वाली कुलांगनाओं की गणना नायिका-विधान के भीतर करना-शास्त्रीय दृष्टि से चाहे ठीक भी माना जाय, पर नैतिक विचार से राष्ट्रीय लज्जा का विषय है। अभिसारिका नायिकाओं की सख्या में भी दूनी वृद्धि हो गई। रात्रीय अभिसार के विचार से, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के कारण, कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका, दो नायिकाएँ मानी गई थीं, किंतु विवेचन के इस युग में केवल दो से काव्य का काम न चला, दिवसाभिसारिका नाम से इस ढग की तीसरी नायिका निकली। यह भी संतोष करने की बात न थी। सुकुमार तथा भानुक कवियों ने स्वप्राभिसारिका के अस्तित्व को भी स्वीकृत कर लिया।

पुरुष ने स्त्री को सदा अपनी भावनाओं की दृष्टि से ही देखा है। एक स्त्री शब्द ही ऐसा है जो अपनी मूल अर्थ-स्थिति में है, अन्यथा इसके जितने भी काव्योपयुक्त पर्याप्त या समानार्थक शब्द

हैं सब पुरुष की भिन्न-भिन्न मावनाओं के द्योतक हैं। पुरुष की सौदर्य-स्थिरा ने स्त्री को सुदर्शी, रमण-प्रवृत्ति ने रमणी, कामना पुरुष की मनो- ने कामिनी, प्रेम ने प्रिया, प्रसिका या प्रणयिनी, वृत्ति में स्त्री विलासिनी और इस प्रकार अनेक का रूप प्रवृत्तियों ने उसके अनेक रूप माने हैं। इन

शृगारिक रूपों के अतिरिक्त, गभीर काव्यों में, उसकी गभीर प्रकृति का विधान भी धर्मसगिनी, जाया, महिला, देवी, गृहिणी, आर्या आदि के रूप में किया गया है, लेकिन शृगारिक कवियों को स्त्री के इन रूपों को देखने की न क्षमता थी और न ऐसी महत् बुद्धि ही। शृगारिक कवियों ने इतने से ही स्त्री का पिछ न छोड़ा। स्त्री के अग-विशेष या क्रिया-विशेष के ऊपर भी उसका नामकरण किया। सुनयना, सुलोचना, सूगाज्ञी, चद्रवदनी, कृशोदरी, नितं-विनी, सुकेशिनी आदि नाम अग-विशेष के और गजगामिनी, मृदुभाषिणी, सुहसिनी आदि नाम उसके क्रिया-विशेष के निर्देशक हुए। स्त्री के उभी गुण या धर्म के उपलक्ष्य पर नामकरण किया गया जो पुरुष की ऐंट्रिक रूपि का साधन है। शोभन हृषि, चकित चितवन, वकिम कटाक्ष तत्काल ही वित्त पर प्रभाव डालते हैं, मीठी बोली तुरत मन को मोह लेती है। ऐसे गुण या धर्म जो स्त्री की आंतरिक भावना या चेष्टा को बढ़ाते हैं, हाव के अतिरिक्त ध्यान में नहीं लाए गए। स्त्री की लज्जा, सकोच, भीरता आदि ने भी पुरुष का काफी मनोविनोद किया, इसलिए साहित्य-शास्त्र से अनुमोदित होकर ऐसे गुण-धर्म काव्य में महत्वपूर्ण स्थान पा गए। नायिका की 'नाही' में भी कवियों को अपूर्व स्वाद मिला। पुरुष ने स्त्री के जिस रूप में, जिस भाव में, और जिस चेष्टा में

अपना मनोरंजन नहीं पाया उसका वर्णन काव्य में कठाचित् ही हुआ। जीवन की गभीर समस्याओं से उदासीन रहने के कारण शृंगारिक कवियों की रचना में वस्तु या भाव-गांभीर्य नहीं आ पाया। प्रणय-पञ्च के जितने भी सभावित स्वरूप हो सकते हैं उनका ही रमणीय वर्णन किया गया। जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखनेवाले मनमौजी रसिकों को, देव कवि ने 'अष्टयाम' रच कर, अपनी दिनचर्या बनाने की चिता से भी मुक्त कर दिया।

वियोग का भार स्थियों के ऊपर जितना लादा गया उतना पुरुषों पर नहीं। कालिदास के यक्ष तथा अज ने इस भार को, वियोग का भार प्रेम के गुरुत्व के कारण, अवश्य उठाया, किंतु परबर्ती काव्यों में यही प्रवृत्ति नहीं रही। स्त्री-प्रकृति में जीवन के दुख को एकनिष्ठ रहकर सहन करने की जितनी ज्ञमता रहती है उतनी पुरुष में नहीं। विरह की असद्य वेदना स्थियों के ही शिर पर मढ़ी गई और उस भार को उन्होंने बहुत गौरव के साथ ढोया भी, क्योंकि इससे उनका कुछ अपमान तो होता नहीं, प्रत्युत् अपने सबंध की विशेषता ही भलकरी है। हृदय का हृदय के साथ, मन का मन के साथ जो सबंध है वही प्रेम या अनुराग है। इसमें यदि एकनिष्ठता नहीं रही तो वह हृदय को क्लांत नहीं कर सकता। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को प्राप्त करने की चिता हो सकती है, लेकिन चिता विरह नहीं है। चिता का समाधान प्रकारांतर से किया जा सकता है, पर विरह एक निश्चित प्रकार है। साधारण दुख भी जीवन में विरह के दुख से भिन्न होता है। सामान्य दुख से छुटकारा पाने की जैसी इच्छा होती है वैसी विरह-दुख से नहीं। यदि ऐसा विरह-दुख

ममाज-ब्राह्म न रहा तो स्त्री की मर्यादा के विचार से काठ्य में ममा-दूरणीय हो जाता है। जो प्रेम चित्त की गर्भीर दृत्ति से संबंध नहीं रखता वह विरह भी उत्पन्न नहीं कर सकता। उससे केवल व्यभिचार की प्रेरणा मिलती रहती है। प्रेम में व्यभिचार को शात रपने की ज़मता होती है और यही उसकी सच्ची कसोटी है।

निरपेक्ष प्रकृति-वर्णन की प्रवृत्ति हिंदी कवियों में नहीं रही। प्रकृति को केवल उद्दीपन विभाव के रूप में रखकर उसके स्वरूप को बहुत सकुचित कर दिया गया। मरकुत की तरह प्रकृति-वर्णन हिंदी कवियों ने उसके आलबनत्व का निर्वाह नहीं किया। प्रकृति का भी अपना एक स्वतंत्र रूप है, इस प्रवृत्ति का सम्मान कवि-समाज ने नहीं किया। जीवन-सापेक्ष्य प्रकृति-वर्णन की प्रकृति ने सुख-शिलास तथा इद्रिय-रजन के भाव को बड़ा अवलंब दिया। सुखकर भावों को उद्भीप्त करने केलिए प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों से जितना काम लिया गया, दुख के संबंध केलिए उतना क्या, प्रायः कुछ नहीं किया गया। वियोग-वर्णन के रूप में प्रकृति का उज्जेख करना रति-भाव के पोषण-स्वरूप ही होता है। रति-भाव के पोषण केलिए प्रकृति को पूरा पणवध ही दे दिया गया। प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूप-व्यापार को अपने जीवन-पक्ष के साथ एकरस देखना भाव-भग्न अंतःकरण की विशेषता है, किंतु ऐसी मनःस्थिति जीवन में सदैव नहीं रहती। जीवन के ऐसे किसी ज़ण की प्रतीक्षा करने का धैर्य भी हिंदी कवियों को नहीं था। इसी कारण जीवन के व्यापक रूप को देखने का उत्साह उनमें न था। 'रेकर्ड' के जिस अश पर सूई आने से उनके शृगारिक जीवन का स्वर बजता था उसी पर बार-

बार सूझ्यों चढ़ाकर निलासिता की उमगे खूब जगाई गई। जीवन के विविध पक्षों का सौदर्य उपेक्षित कर दिया गया और उसमे केवल गतानुगतिकता ही शेष रही। लगभग तीन सौ वर्षों का हिंदी-काव्य प्रगति के विचार से मथर हो गया। उसमे जीवन का नवीन स्थान उत्पादित नहीं किया जा सका और अपनी सीमा के भीतर ही सूचम विवेचन की हड़ कर दी गई।

**साधारणतः** भावों की क्रिया-प्रतिक्रिया दो हृदयों के पारस्परिक व्यवहार से ही उत्पन्न होती है। जड़ पदार्थों के प्रति भी हृदय में भाव उत्पन्न होता है, पर वह सरल तथा एकपक्षीय भावों की क्रिया-रहता है, जटिल तथा प्रतिक्रियात्मक नहीं। प्रतिक्रिया

सूर्योदय, चंद्रोदय, नदी, पहाड़, बन, उपवन, वर्षोंगम आदि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर चित्त में आह्वाद होता है, परतु उससे किसी जटिल भाव की उत्पत्ति नहीं होती। जब हृदय में जटिल भाव उत्पन्न होता है तब स्वयं द्रष्टा ही दृश्य बन जाता है, कम-से-कम कुछ अश में ही वह अवश्य दृश्य बन जाता है। भयकर घाटी, भीषण तूफान, प्रलयकर बाढ़ आदि को देख कर मनुष्य के चित्त में भय होता है और यह भाव वृत्तिचक्र की तरह जटिल मनोविकार के रूप में रहता है। यह जटिलता उसी स्थिति में उत्पन्न होती है जब मनुष्य ऐसे भीषण प्राकृतिक दृश्य में प्रत्यक्ष चेतनता का आरोप कर बैठता है। विविध विकल्प में पड़कर ही सरल मनोविकार जटिल हो जाता है।

काव्य में अपनी भावना की सूचमता को अधिक प्रभाव-ठंडंजक बनाने के विचार से उसके गोचर रूप का विधान किया जाता है। भाव के इंद्रियग्राह्य प्रत्यक्षीकरण में सजीवता लक्षित होती है।

प्रत्येक जाति के धर्म में शक्तियों की मूर्त्ति कल्पना होती है। काव्य में सूक्ष्म का यह मूर्त्ति-विधान इसी कारण ग्रचलित हो गया है।

इससे भाव की क्रियाशीलता का प्रत्यक्ष-सा बोध सूक्ष्म के गोचर होता है और चित्त पर उसके सारे सद्कार अकित विधान का कारण हो जाते हैं। प्रबृथ या मुक्तक काव्य में जहाँ

भाव की समस्त प्रकृति का मूर्त्ति-विधान संभव नहीं रहता वहाँ उसकी किसी एक वृत्ति का ही प्रत्यक्षीकरण कर दिया जाता है। भाव के अगरूप वृत्ति की गोचरता से समस्त अगों की प्राण-प्रतिष्ठा मान ली जाती है। सस्कृत काव्यों में श्थला-विशेष पर प्रसगा/नुसार सूक्ष्म का मूर्त्ति-विधान बहुत मिलता है। कृष्ण भिश्रुते 'प्रबोध-चद्रोदय' रूपक लिखकर इस शैली की काव्य-परंपरा का सूत्रपात कर दिया । भारतेंदु हरिशंख ने अपने 'भारत-नुदेशा' तथा 'भागत-जननी' नाटकों में दुर्दैव, भाग्य, आलस्य, सत्यानाश, निर्लज्जता, आशा, धैर्य आदि की पात्र-कल्पनाएँ की हैं। जयशंखर 'प्रसाद' ने 'कामना' में और सुमित्रानदन पत ने 'उयोत्सना' में ऐसे ही कितने अमूर्त्ति का मूर्त्ति-विधान किया है। 'प्रसाद' के 'कामायनी' महाकाव्य को भी सूक्ष्म वैदिक कल्पना का ही गोचर आधार प्राप्त हुआ है।

<sup>१</sup> अमूर्त्ति का मूर्त्ति-विधान करनेवाली शैली का सकेत उपनिषदों में मिलता है। प्रबोध-चद्रोदय—नाटक की रचना की प्रेरणा उसी आल्यायिका से मिलती है जो बृहदारण्यक उपनिषद के उद्दीथ ब्राह्मण (१, ३) में सविस्तर वर्णित है। छांबोय उपनिषद (१, २) में भी इस आल्यायिका का समावेश है। मानव हृदय में दो प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं—पुण्य तथा परमार्थ और पाप तथा स्वार्थ। ये वृत्तियाँ इदियों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इदिय को देव और अद्यत दोनों कहा गया है। गीता के सोलहवें अध्याय में देवी तथा आष्टुरी संपद के नाम पर ऐसी अनेक वृत्तियों का उल्लेख किया गया है।

भावों की वृत्तियों का प्रत्यक्षीकरण रस-पद्धति के अनुभावों में अच्छी तरह व्यक्त हुआ है। मन और शरीर दोनों के संबंध से इसका रहरय बहुत-कुछ जाना जा सकता है।

शरीर-विज्ञान

और रस-पद्धति

मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरह के विकार

एक दूसरे से सगति रखते हैं। शरीर-विज्ञान के विवेचन में भनोविज्ञान के मूल का प्रतिपादन किया जा सकता है और उसके आध्यात्मिक रहस्य का भी उद्घाटन हो सकता है। प्रत्येक भाव का सस्कार बीजरूप से मनुष्य के चित्त पर अंकित रहता है। अनुकूल सवेदन से वह संरक्षक जागरित होकर वृत्तिचक्र की तरह अपने सजातीय सस्कारों को भी प्रबुद्ध करने लगता है। इस प्रकार स्थायी भाव के अनुकूल संचारी भाव उत्थित होकर शरीर-चेष्टा के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यह सब क्रिया चित्त के सत्त्व-गुण-प्रधान अवस्था में ही होती है, क्योंकि सत्त्वोद्रेक ही रस है। शरीर-विज्ञान के अनुसार किसी बाह्य घटना, दृश्य आदि का जो प्रभाव चित्त पर कलिपत होता है उसका दबाव वायु-कोप—फुफ्फुस—पर पड़ता है और तबुसार ही रक्त-सञ्चालन की गति तीव्र या मद हो जाती है। रति-भाव में जहाँ रक्ताधिक्य होता है वहाँ भय में रक्ताभाव। दोनों के परिणाम सुखाकृति पर स्पष्ट लक्षित होते हैं। रक्ताधिक्य तथा रक्ताभाव दोनों ही स्थितियों में रक्त-विकार के रूप में पसीना निकलता है । । रति, क्रोध, शोक,

१ छांदोग्य उपनिषद् [६, २, ३] में प्रस्त्रवेद के आध्यात्मिक कारण का उल्लेख किया गया है—

‘तदैक्षत बहुर्यां प्रजायेयेति तत्त्वं जोऽसृजत ।

तत्त्वं ज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत ।

तस्याद्यत्र कृच शोचति स्वदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्याषो जायते ।

भय आदि के कारण मनोवेग की तीव्रता से रक्त-मचालन की साधारण गति में जो व्यवधान होता है उससे प्रस्वेद निकलने लगता है। चित्त और शरीर की इसी प्रकृति का विधान साहित्य-शास्त्र में रस-निरूपण के नाम पर है। सात्विक प्रस्वेद, रोमांच, स्वरमण, अथु, वैष्णु, आदि के तत्त्व इसी प्रकृति के साथ सबध रखते हैं।

इस प्रकार देखा जाता है कि शरीर की अवस्था के अनुसार मन भी चलता है। शारीरिक कष्ट का अनुभव मानसिक ही होता

है। अतः शरीर के साथ मन का सबध घनिष्ठ चित्त और शरीर ही बना रहता है। सचारी भाव के आलस्य, तथा संचारी भाव

निद्रा, व्याविधान आदि की मूल प्रक्रिया में शरीर-प्रकृति को सुलाया नहीं जा सकता। शरीर तथा चित्त के गुरुत्व से जब उसकी प्रवृत्ति का अभाव-सा मालूम होता है तब आलस्य का अनुभव होने लगता है। कफ के प्रकोप से शरीर और तमोगुण के आधिक्य से चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है। धातु-रस-करण के वैषम्य का नाम व्याधि है। मानव शरीर में तीन प्रधान धातु—वात, पित्त तथा कफ—हैं। इनका न्यूनाधिक्य होना ही धातु-वैषम्य है, भोजन किए हुए अन्न-जल का सम्यक् परिपाक न होना रस-वैषम्य है और ज्ञानेत्रियों की शक्ति का मद होना करण-

—उसने हृच्छा की, ‘मैं बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ।’ इस प्रकार उसने तेज उत्पन्न किया। फिर तेज ने हृच्छा की, ‘मैं बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ।’ तब तेज ने जल की रचना की। इसी कारण जल कभी मनुष्य तेज के कारण तीव्र मनोवेग धारण करता है तब उसे पसीना हो भाता है। तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। बाय सूप से भी सूर्य या अमि के तेज से पसीना हो भाता है।

वैषम्य है। यही वैषम्य व्याधि है। जिस समय बुद्धिनिष्ठ सत्त्व और रजोगुण को तिरस्कृतकर तमोगुण का आविर्भाव होकर सारी इंद्रियों को निष्क्रिय कर देती है उस समय ज्ञानेद्रियों की सक्रियता के अभाव में बुद्धि का विषयाकार परिणाम न होने से चित्त की जो तमोगुण-प्रधान वृत्ति है उसे निद्रा कहते हैं । । चित्त और शरीर की प्रकृति के अनेक रूपों, स्थितियों के अनुसार ही जीवन के तत्त्व हैं और इन्हीं तत्त्वों का विनियोग काव्य-साहित्य में सिद्धांत के नाम पर कर दिया जाता है।

जब कभी हम ऐसी घटना का वर्णन सुनते या ऐसा कोई अपूर्व दृश्य देखते जिससे हमारा पूर्व परिचय नहीं हुआ रहता तब अकस्मात् आनंद या विषाद के अतिरेक से मनोविकार हमारे मनोविकार की प्रकृति के अनुकूल शरीर और अश्रु की नसों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हमें रोमांच हो आता है, औलों में औसू छलछला आते हैं। अश्रु-प्रवर्षण भी तेज का ही प्रताप है। हर्ष का आधिक्य जब इस सीमा तक पहुँच जाता कि हम अपनी साधारण स्थिति में उसको आत्मसात् नहीं कर सकते तब उसके दुखजनक अतिरेक से औसू-

१ नैयायिक निद्रा को वृत्तिरूप न मानकर केवल ज्ञानभाव मानते हैं, किन्तु योगवादी उसे वित्त की वृत्ति ही मानते हैं—

‘अभाव प्रत्ययाऽलंकृत वृत्तिर्निद्रा’

[पातंजल योग-दर्शन, १, १०]

—क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उपुस्ति के बाद मनुष्य के ज्ञान में क्रम-भंग होता और ‘मैं अच्छी तरह सोया’ यह ज्ञान जब रहता ही है तब उसे ज्ञानभाव कहना उचित नहीं जांचता।

निकल आते हैं। हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाने पर भी ओँखें छलछला जाती हैं। जितने आनंद का भार हम सँभाल सकते हैं उतने से अशु-विकार उत्पन्न नहीं होता। आनंद के साथ साथ विषाद में भी यह बात प्रायः उसी रूप में पाई जाती है। जितने दुख को हम सँभाल सकते हैं उतने से ओँखों में कोई विकार स्पष्ट नहीं फलकता, किंतु जो विषाद असद्य होता है वह वरबस हमारे हृदय का मथन कर ओँसू निकाल देता है। सस्कृत में इसी कारण चन्द्र—ओँख—को बत्ता माना गया है। सुख या दुख जब अत्यधिक हो जाता है तब वाणी स्वतः मौन हो जाती है। वाणी के मूक होते ही ओँखे बोलने लगती हैं। ओँसू टपकाकर वाणी के द्वारा वर्णन न्यूनाधिक हो सकता है, पर भाव-निर्देश केलिए वाणी से मौन कही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। इससे वर्णन की अनिवार्यता मानी जाती है। प्रवीण कलाकार अतिशय सुख या दुख के समय अपने पात्रों को मूक बना देते हैं।

मुक्तक रचनाओं में प्रसंग की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता का निर्णय करना कठिन होता है। कहीं-कहीं केवल काव्य-रीति या मुक्तक रचना रुद्धि के सहारे ही अनुकूल परिस्थिति या घटना और रस-प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। मन की रस-सम्मान-हिणी प्रवृत्ति ऐसी होती है जो वर्णन के अनुकूल ही परिस्थिति का काल्पनिक विधान कर लेती है। बुद्धि के द्वारा जीवन के आहाद को प्रह्लण करने की मनुष्य में खाभाविक प्रवृत्ति होती है। मधु-लोभी भौंरे की तरह पाठक वर्णन पर मँडराने लगते हैं और फिर रस-मग्न भी हो जाते हैं। रसमय प्रसाग के वर्णन में इतना आकर्षण रहता है कि रसिक पाठकों की कल्पना-शक्ति को

वह निर्यन्त्रित कर देता है, इधर-उधर दिशाच्छुत नहीं होने देता। कल्पना के जैसे आक्षेप से, जैसे विधान से वर्णन की रमणीयता बढ़े वैसी ही हमारी मनोवृत्ति हो जाती है। रस-लोभ की प्रवृत्ति भी ऐसी तीव्र होती है कि कभी-कभी असंभव घटना को भी, थोड़ी देर केरिए ही सही, अपनी बुद्धि-वृत्ति की गौणता से,

संभव मानकर हम उसका रस-ग्रहण कर लेते  
रस-ग्रहण की मनोवृत्ति हैं। मनस्तत्त्व का यह सर्वमान्य स्वरूप न होने

पर भी वितर्क से उसकी उत्पत्ति कर ली जाती है। यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो हाथ आयी चिढ़िया उड़ जाती है। काव्य-में रस प्रधान रहता है और सूक्ति में चमत्कार। किसी वर्णन को पढ़कर जब हम साधारणतः ‘आह !’ कह उठते हैं तब वह काव्य-संयुत होता है और जब ‘वाह !’ कहते हैं तब वह चमत्कार-प्रधान रहता है। चमत्कार-प्रकाशन के समय हृदय की वृत्तियाँ गंभीर नहीं, छिछली रहती हैं। ऐसी वृत्तियों से रसोद्रेक नहीं होता। अच्छी या अन्ठी उक्तियों से ज्ञाणिक मनोरंजन भले ही हो जाय, पर वे हृदय को निमग्न नहीं कर सकतीं।

मानव प्रकृति की विलक्षणता यह है कि वह अपनी जाति, संस्कृति, सभ्यता, सुख-दुख, सपत्नि-विष्णि, सुविधा-असुविधा,

भाव-विचार के रूप में अपने स्वार्थ को किसी मानव-प्रकृति और राष्ट्र-निर्माण भू-भाग पर केंद्रित कर देती है। जिसका स्वार्थ

जितना ही सकीर्ण रहता उसके राष्ट्र की परिधि भी उतनी ही सकीर्ण होती है और जो अपने स्वार्थ का जितनी दूर तक प्रसार कर सकता है उसकी देश-भक्ति भी उसी सीमा

तक क्रिया-तत्पर रहती है। स्वार्थ की यह परिधि कभी-कभी भौगोलिक सीमा को लॉघती हुई विश्व-वधुत्व या मानवतावाद में मिलकर सीमाहीन हो जाती है। राष्ट्र का यह रूप सर्वमान्य नहीं। मनुष्य जितनी अपनी या अपने जीवन-संपर्क में आए हुए छ्यक्षि या समाज की चिंता या ममत्व रखता है उनना दूसरों के लिए नहीं जो उससे दूर या भिन्न है। राजनीतिक प्रेरणा या विग्रह के ऊपर बहुधा किसी राष्ट्र का उदय-प्रलय निर्भर करता है, किंतु राजनीति के सारे कारणों को काव्य आत्मसान् नहीं कर सकता। काव्य में राष्ट्रीयता के वे ही उपकरण समाविष्ट किए जा सकते हैं जिनसे मानव-कल्याण की सभावना बनी रहती है। छल-प्रपञ्च, पछ्यत्र-विग्रह को लेकर सामान्य लोक-जीवन में रसात्मक अनुभूति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी कारण काव्य औचित्य की सीमा से बाहर अपना चरण-प्रसार नहीं कर सकता।

राष्ट्रीयता की उद्घावना स्वतः नवीन दृष्टिकोण की उपज है। प्राचीन या मध्य-काल में सातिक राष्ट्र की कल्पना भारत में नहीं हुई थी। अपने राज्य या साम्राज्य की विस्तार-राष्ट्रीयता की उद्घावना परिधि तक ही राष्ट्र की सीमा मानी जाती थी, पर राष्ट्रीय चेतनता का जो स्वरूप आज लक्षित है वह उस सीमा के अतर्गत उस समय प्राप्त न थी। समय-समय पर कुछ कवियों ने देशभक्तिप्रक रचनाएँ कीं और अपने आश्रयदाता वीरों की विरुद्धावली भी गाईं, लेकिन राष्ट्रीयता के सारे उपकरणों से उनकी रचनाएँ समन्वित नहीं हो सकीं। अपने राज्य, प्रांत या जातीय शक्ति की रक्षा, वृद्धि तथा महत्त्व स्थापित करने के लिए जो रचनाएँ हुईं और उनसे देश तथा जाति को जो

शक्ति प्राप्त हुई वे अपने अर्थ में सार्थक हैं। उनसे राष्ट्र का वृहत्तर कल्याण-साधन नहीं हो सका, उनका प्रयोजन भी इतना विशाल नहीं समझा गया।

राष्ट्रीय कविताओं की अपनी एक विशेष मनोवृत्ति होती है। भावना तथा मनोवेग के अनुसार उसकी दिशाएँ बदलती रहती हैं।

**राष्ट्रीय कविता**      जो मनोवेग टिका रहता है वह गर्व या स्वाभिमान की मनोवृत्ति

राष्ट्र के अतीत गौरव या महिमा की स्मृति पर वोध से वह करुणा या विलाप का रूप धारण करता है, उत्तेजना की स्थिति में वह उत्साह तथा दर्प को अभिव्यक्त करता है और यदि मनोवेग राष्ट्र की निष्क्रियता तथा कर्त्तव्य-विमुखता से प्रेरित हुआ रहता है तो वह भर्त्यना और धिकार के रूप में उबल पड़ता है। राष्ट्र के उपलद्ध्य पर हमारा रोना-गाना, हमारी विभिन्न मनोवृत्तियों को ही सूचित करता है। राष्ट्र की हित-चिता या शक्ति-संवर्द्धन में जिस कवि का हृदय किसी सघध-सूत्र का पता नहीं पा सकता उसके लिए राष्ट्रीय कविताएँ कुछ तत्त्व नहीं रखती। जो कवि राष्ट्र के अणु-परमाणु से ममत्व रखता है, जो राष्ट्रीय चेतना के साथ अपने हृदय का पूरा तारतम्य देखता है उसके लिए राष्ट्र का महत्व है और वही राष्ट्रीय कविता रचने का अधिकारी भी है। युग-धर्म के अनुसार स्वर-में-स्वर मिला देना ही पर्याप्त नहीं है।

कलागीत की एक प्रवृत्ति राष्ट्रीयता-मूलक भी रही है, किन्तु उसकी उद्घावना बहुत पुरानी नहीं। जातीयता की सीमा के बाहर हमारी राष्ट्रीयता नहीं जा सकी थी और उसी सीमा के अंतर्गत

ही कुछ कवियों ने अपनी भारती का उपयोग किया। ज्यो-ज्यो हमारा परिचय एक-दूसरे से बढ़ता गया, सब समान सुख-दुख में सम्मिलित होते गये, त्यो-न्यो हमारी राष्ट्रीय भाव-राष्ट्रीय कविता नाँ वृहत्तर होने लगी। इम परिस्थिति में भी की प्रकृति

जो राष्ट्रीयतापरक रचनाँ हुई उनमें मनोवेग की प्रबलता नहीं पाई जाती। उनमें वो तो है, पर प्रतीति नहीं। विदेशी शासन ने जब देश-भक्ति तथा राज-भक्ति को पृथक् पृथक् भावनाओं के रूप में उपस्थित कर दिया तब भी हमारे कवि दोनों विजातीय भावनाओं को प्रायः एक ही स्वर से अभिव्यक्त करते रहे। अपनी कल्पणाजनक दीनता पर दुख प्रकट करते हुए वे नये शासन से उत्पन्न सुख-सतोष का उल्लेख कर देना भी उचित समझते थे। उस समय की परिस्थिति ही ऐसी कुछ थी। राष्ट्रीय भावना को पुरस्सर करनेवाली अंतर्ज्ञाला न जन-समाज में थी और न कवि-हृदय में। राष्ट्रीय जागृति के उत्थान के साथ-साथ ही देश का बायुमड्डल घटलने लगा। जनता में राष्ट्रीय रचनाओं को सुनने-सुनाने की हिम्मत बढ़ने लगी, उत्साह भी आने लगा। आज इस परिवर्तित बायुमड्डल में भी, कलागीत में राष्ट्रीय प्रवृत्ति ने कोई विशेष उल्लेखनीय स्थान नहीं प्राप्त किया है। कुछ उत्साही कवियों ने अपनी बाणो-विभूति का उपयोग राष्ट्रीयता के संबर्द्धन में अवश्य किया है, कितु उनमें से अविकांश रिथ्ति-पालकता का विचार रखनेवाले ही हैं, नव जागरण का शख्स फूँककर जनता को उन्मत्त करनेवाले नहीं। यह अवस्था आरंभ की है, भविष्य में कलागीत की इस प्रवृत्ति के उच्चादर्श की प्रतिष्ठा करने की सभावना नष्ट नहीं समझी जा सकती।

छायावाद के आविर्भाव के पहले भी इतिवृत्तात्मक ढग की रचनाओं से आगे बढ़कर मार्मिक विषयों की ओर कलागीत की प्रगति शुरू हो गई थी। बाह्यार्थ-निरूपण की परिपाटी को छोड़ते हुए स्वानुभूतिमूलक कविताओं में भावना-विस्तार के आगे रहरथमय संकेत भी मिलने लगे थे। छायावाद ने कल्पना का पुट देकर काव्य-शैली की व्यंजकता बहुत बढ़ाई। नये ढग के लाक्षणिक प्रयोग, जिनसे हिंदी पाठक परिचित नहीं थे, भाषा की व्यञ्जक शक्ति को बढ़ाने के साथ-साथ नई सूझ का आतक भी पैदा करने लगे। इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया-जैसी छायावादी कविताएँ रची जाने लगीं और कुछ समय तक तो नये कवियों के उत्साह ने छायावाद को काव्य का सामान्य स्वरूप-जैसी प्रतिष्ठा दे देनी चाही, किंतु छायावाद की काव्य-वरतु अज्ञेय और अव्यक्त की भाँकी लेने के अतिरिक्त जीवन के किसी दूसरे द्वेष में प्रसारित नहीं हो सकी। वस्तु-विन्यास की विशृंखलता, रमणीय कल्पना, चित्र-विचित्र लाक्षणिक वैचित्र्य ही उनका साध्य रहा। विभाव-पक्ष का आभास, ऐसी कविताओं में अस्पष्ट ही बना रहा। काव्य-वस्तु को एकदेशीय बनाये रहने के कारण उसमें भावना-विस्तार का द्वेष तो प्रायः परिमित रहा, किंतु कल्पना को खच्छंद गति मिली। भारतीय शास्त्र-पद्धति की ध्वनि, रीति, रस, अलकार को कल्पना के उन्मुक्त द्वेष में दूसरे ही सुरताल के साथ उपस्थित होना पड़ा। लक्षण के ऊपर लक्षण का इतना भठ्य भवन निर्मित किया गया कि हिंदी के पाठक उसे देख कर, विस्मय-विसर्ग तो अवश्य हुए, किंतु उसमें प्रवेश करने का

छायावाद की प्रकृति

द्वार न पा सके। बचन-बक्ता तथा वैचिक्य ने पाठकों केलिए कुछ आकर्षण पेदा किया, पर हृदय के माय उमका कुछ सामजस्य न उत्पन्न हुआ। छायावाद की रचनाओं से कलागीत को सबसे बड़ा लाभ उसकी आकर्षक शैली से हुआ, काव्य-वस्तु के रूप में उमका कुछ विशेष हित न हो सका।

छायावाद, रहस्यवाद, हृदयवाद आदि किनने ही 'वाद' काव्य-पद्धति में दिशा-भेद उत्पन्न करने लगे। कुछ लोग छायावाद, छायावाद, रहस्यवाद, हृदयवाद सबका एक ही अर्थ निकालने रहस्यवाद और लगे और कुछ ने प्रत्येक 'वाद' की अलग-अलग हृदयवाद व्याख्या की। इतना तो स्पष्ट है कि एक से दूसरे 'वाद' में भिन्नता की कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई। इतिवृत्तात्मक तथा बाह्यार्थ-निरूपक कविताओं के प्रतिक्रिया-स्वरूप जो भावनात्मक तथा अतिवृत्तिमूलक कविताएँ रची गईं वे द्विवेदी-युग की कविताओं से, भाव, विचार, शैली, सब तरह से भिन्न रहीं। हृदयवाद का तथ्य असुभूति-मूलक है और इससे किसी ढग की कविता, यदि वह सबे अर्थ में कविता ही है तो, अलग रह भी नहीं सकती। छायावाद और रहस्यवाद का अतर अबतक भी स्पष्ट नहीं हो सका है और इस युग में ऐसा होना संभव भी नहीं। भावात्मक तथा साधनात्मक रहस्यवाद का युग कब न उतर गया। यदि छायावाद ईसाई सतों के छायाभास (Phantasmata) और आध्यात्मिक प्रतीकवाद (Symbolism) के अनुकरण पर है और रहस्यवाद वेदांतिकों के अद्वैतवाद का संगुणपरक उपासनामूलक द्वैतवाद या अंगरेजी काव्य-जगत् के एक अश में प्रवर्त्तित (Mysticism) काव्य-रूप है तो इन सबका सम्यक् निर्धार्ह किसी

संप्रदाय में ही सभव है। वे काव्य की सामान्य परिभाषा के अतर्गत नहीं आते। जीवन में संप्रदायगत जो भावनाएँ हैं वे समरत काव्य-जगत् का आच्छान्न नहीं कर सकती। हिंदी कलागीत के इतिहास पर समीक्षात्मक दृष्टि डालने से साधारणतः यही पता लगता है कि वस्तुबादी या वर्णनात्मक ढग की कविताओं से स्पष्टता का रूप जो लक्षित होता था उसमें भावना तथा कल्पना के विस्तार का विशेष अवकाश न था, यथात् वस्तु का वर्णन कर दिया

जाता था। छायाचाद के रूप में तथ्य को अस्पष्ट रख दिया जाता है और कल्पना की दौड़ लगाने के लिए बड़ी छूट मिल जाती है। रहस्यवाद में आध्यक्त और आज्ञेय को व्यक्त तथा ज्ञात-रूप में वर्णितकर उसे हृदय का देवता बनाया जाता है। ब्रह्म और जीव दोनों के मिलन-व्यापार, वचन-वक्ता तथा कल्पना के वैचित्र्य से दिखलाये जाते हैं। यदि वस्तु-स्थिति इतनी ही दूर तक रहे तो ज्यादा घबड़ाने की बात नहीं। ब्रह्म और जीव के उपतत्त्व पर लौकिक वासना-मूलक कविताएँ, अधिकतर रहस्यवाद के नाम पर, काव्य-जगत् में प्रकाशित हुईं। अपनी लौकिक प्रणय-भावना को रहस्यवादी कविता के रूप में लाने की बात को कुछ कवियों ने मौन रहकर, निरुत्तर होकर, स्वीकृत भी किया है। जो सच्चे अर्थ में रहस्यवादी कवि हैं, जिन्हे वैसी दुर्लभ अनुभूति प्राप्त है उनकी बात मैं नहीं कहता। रहस्यवाद या छायाचाद को काव्य का रामान्य लक्षण न मानते हुए, एक विभाग-विशेष के रूप में जो कवि इस ढग की कविताएँ रचते हैं उनसे काव्य का कल्याण ही सभव है, अहित नहीं। छायाचाद

या रहस्यवाद के नाम पर चारजात फेलाकर पाठकों का व्यर्थ भ्रम में डालना, चाहे नैतिक हृषि से बुरा न भी माना जाय, पर अपनी आत्म-प्रबचना के विचार से निरसदेह पाप हे ।

कलागीत स्वभावतः ही परपरासुक हाना है । एक परिपाटी को ताढ़कर नये चेत्र में आंत ही उम पर दूसरा भूत सबार हो जाता है । रीतिनाल के अभिसार, नायक-नायिका, कलागीत की रुद्धि-प्रियता हाव-भाव आदि के ऐंट्रिक सुख-विलास की रमणीय कल्पनाओं से पिड छूटा, और यो ही नहीं, आदोलनात्मक क्राति की पुकार मचाकर, ता फिर आध्यात्मिक आवरण के भीतर आज्ञात नायक-नायिका की मौन प्रणय-वासना दबे पॉव आकर अपने पूर्व सस्कारों के साथ उसी गढ़े में जा धूँसी । कुछ समय तक कवियों ने अपने काव्य में निर्देश या उपलक्षण को ही महत्त्व दिया, मुख्य अभियान या अर्थ-बोध पर उनकी हृषि नहीं गई । काव्य के आध्यात्मिक अर्थ पर जितना ध्यान दिया गया उतना हृदय के भावों की सगति पर नहीं । गंभीर भावों की अभिव्यक्ति भी काव्य में अप्रत्यक्ष रूप से ही होती रही । हृत्तंत्री की नीरव झकार, अनत प्रतीक्षा, मद में भूमना, सूक्ष्म अभिसार, प्रियतम का ढबे पॉव आना आदि चित्रमयी भाषा में रजित होकर उसी दल-दल में जा फैसे । ऐसी कविताओं ने हृदय के ज्ञात पक्ष की तो उपेक्षा की ही, अज्ञेय के रहस्य में लिपटाकर बुद्धि को बड़ा परेशान किया । इस ढग की काव्य-प्रणाली से भाषा में लाक्षणिक वक्ता की कुछ विशेषता अवश्य आ गई । कभी-कभी लाक्षणिक प्रयोगों से मन की अव्यक्त भावनाओं का बहुत ही रमणीय चित्र उपस्थित किया जा सकता है । कुछ कृतविद्य

कवियों ने इस दिशा में अच्छा काम किया है, परन्तु भाषा की बलात् अर्थ-व्यक्ति का अनावार भी खूब बढ़ा। भाषा की अर्जित शक्ति से अधिक अर्थ भौपने पर जोर देने के कारण उसकी शिथितता ही बढ़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य में जब जब बँधी हुई प्रणालियों से बाहर निकलकर जगत् और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता दिखाने की प्रवृत्ति अग्रसर हुई तब तब वह कुछ दूर चलकर फिर उसी राजमार्ग पर आ गई है। इस प्रथल के कारण काव्य में अवश्य ही कुछ लाञ्छणिकता, कुछ प्रगल्भता और कुछ विचित्रता आ गई, पर उसमें जीवन के नकली बंधनों को तोड़कर फिर नये ढंग के नकली बंधन बौद्ध दिए गए हैं।

नये ढंग की काव्य-प्रणाली में आध्यात्मिकता का गहरा पुट देने के कारण वह स्वभावतः दुखह हो गई। तत्त्व-चितक और

कवि दोनों की चितना, भावना तथा कल्पना में तत्त्व-चितक जो भेद होता है वह विशेषतः तथ्य के अनुबंध-और कवि

सूत्र को लेकर ही। कवि अपनी प्रवृत्ति को जितनी स्वच्छंद गति दे सकता है, तत्त्व-चितक उभ सीमा तक नहीं पहुँच सकता। अनुबंध-सूत्र की अर्थ-संबंधी विशेषता कवि की अपनी विशेषता है जो उसकी रचना को महत् बनाती है। वह अपनी सारी मानसिक सत्ता—बुद्धि और भाव—को लेकर काव्य-क्षेत्र में विचरण करता है। उल्लास, हास्य, विनोद, कहणा, वेदना आदि की अभिव्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वह करता चलता है, तत्त्व-चितक की तरह बैठकर विवेचन नहीं करता। इसके साथ ही यह भी एक सत्य है कि कवि अपना भाव पाठक या श्रोता को नहीं देता, प्रत्युत् वह उसके अपने सजातीय भाव

को ही उद्भीम कर देना है। यदि किसी पाठक या श्रोता के हृदय में कवि के भाव की एकरसता नहीं रही तो उसका काव्य वैसे पाठक के हृदय में प्रसार नहीं पाया।

कलागीत की अति-आधुनिक प्रवृत्ति के भीतर गीत-शैली भी है जिसका प्रचलन इवर पिछले दिनों से बड़े बड़लते के साथ हो रहा है। कभी-कभी गीत की शीर्षकहीनता भी गीत-शैली का विज्ञापित कर दी जाती है। कविता का सामान्य प्रचलन

शीर्षक 'गीत' रख देने से ही बगतुतः गीत या वैणिक (लीरिक) के गुण से वह समन्वित नहीं हो जाती। कुछ कृतविद्य कवियों में गीत रचने की स्थाभाविक प्रतिभा है और उनको अपनी भावना के अनुभूतिजन्य आवेग को अखण्ड रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता भी है, किन्तु आज जिस परिमाण में गीत प्रकाशित हो रहे हैं वे जीवन की मार्मिकता को अपने साथ-साथ ढो नहीं सकते। गीत जिस प्रकार आवेग-प्रधान भावना का एक खड़ है उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति भी अरण्ड होती है। अप्रस्तुत-विद्यान उसके आवेग की एकसूत्रता को खंडित नहीं कर सकता। कवि के हृदय की अतर्वाला किसी वाहा प्रेरणा से प्रभावित होकर उसके सारे अतर्वाह्य को एक साथ ही अभिव्यक्त कर देती है। उसमें स्वभावतः ही लय-च्छद को अनुकूल गति प्राप्त हो जाती है। समझ विचारकर, अध्यवसाय के साथ किसी गीत की रचना नहीं होती। वह एक मनोवेग की रचना है। कवि के अतस् में जो भावना घनीभूत हुई रहती है वह प्रेरणा सकेत पाते ही बाहर निकल पड़ती है—उसके साथ-अतस् को उद्भासित कर देती है। अधिकाश गीत जो अभी हमारे

सामने आ रहे हैं उनमें शीर्षक के अतिरिक्त मिलती। गीतों की रचना-प्रकृति के लक्षित नहीं होती तबतय गीत-शैली की मिल सकता है। कृष्ण-रचना-प्रकृति की हार्दिकता तथा मात्र ही आजकल के गीतिकारों में लक्षित काहू़ सुख न लहो' या 'अब मैं नाच्यो बाणी की विदग्धता है, मार्मिकता है वह बार' या 'सकल गुणों की खान, प्राण तु कितु सभी गीतों की प्रकृति एक-सी नहीं आधुनिक काल में रचे गए हैं, जिनमें एक की अनुभूति, व्यथा या उच्छ्रृङ्खला के उत्पन्नित या उच्छ्रृङ्खलित भावना स्वतः आ है। नियम की स्थाभाविकता उसे अनुकूलागीत की आधुनिक प्रवृत्तियों में साहित्य-पथियों का भी एक समुदाय है जीवन के चित्रण को। कलागीत की प्रतिशीलता तत्त्व नहीं, प्रत्युत् जीवन लक्षण है। प्रतिशीलता के स्वर को ऊंचा समन्वय कर देने से प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया सर्वत्र बुरी नहीं होती, कभी-व

कम की बढ़ती हुई गति को रोककर उसका सतुलन करने में इससे काफी सहायता मिलती है। हमारे सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में आर्थ-समाज ने जिस क्राति की प्रतिष्ठा की उसका प्रभाव आधुनिक काव्य-जगत् पर कम नहीं पड़ा। इसी प्रकार राष्ट्रीय तथा राजनीतिक जीवन के विकास में साम्यवाद या मार्क्सवाद ने

प्रगति का स्वरूप एक नया दृष्टिकोण दिया है। किसी सप्रदाय या 'वाद' को विना चरम सीमा पर पहुँचाये उसकी प्रवृत्तियों से लाभ उठाया जाय तो जीवन और काव्य केलिए हित-कर ही होता है, किंतु जीवन और काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों के रूप में इनका उपयोग करना प्रायः उसी सीमा पर पहुँचना है जहाँ से प्रत्यावर्त्तन की अपेक्षा हो जाती है। इस प्रकार जीवन या काव्य कुछ स्थायित्व लेकर घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इस दिशा से उस दिशा और उस दिशा से इस दिशा की ओर जाता-आता रहता है। इससे समय और शक्ति का अनावश्यक हास तो होता ही है, जीवन या काव्य भी प्रायः एकाग्रदर्शी हो जाता है।

प्राचीन काव्य में समाज के विशिष्ट वर्ग को जो सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ था वह निम्न वर्ग को नहीं। राजा-रानी, विद्वान्-

**आदर्श की पंडित, शूर-बीर के चरित्र-चित्रण को आदर्शवादी प्रतिष्ठा**

दृष्टिकोण के कारण ही काव्य में प्रतिष्ठा मिली थी। समाज के इस वर्ग के प्रतिनिधियों के संबंध में सामान्य जनता के भाव-विचार आज भी तरह समीरे नहीं थे। ऐसे आदर्श पात्रों की काव्यगत प्रतिष्ठा से रस-परिपाक में भी विशेष सहायता मिलती थी। 'राजा' शब्द ही शील, शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धीरोदात्तता, परदुखकातरता आदि गुणों का प्रतीक माना

जाता था। राजा को ईश्वर का अश मानने की भावना भी शास्त्रानुसोदित थी। किंतु ज्यो-ज्यों जीवन में परिवर्त्तन-पर-परिवर्त्तन आने लगे, समाज में जिस आदर्श को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी उसमें कर्तव्य-नुद्वि नष्ट होने लगी और केवल अधिकार-भावना ही बचने लगी, त्यो-त्यो सामान्य जनता अपने आदर्श नायक में देवत्व का ह्रास समझने लगी और सामान्य मानव-जीवन से बढ़कर उसमें

प्रगतिवाद में आदर्श का ह्रास और कोई विलक्षणता नहीं देखने लगी। जनता का वह नायक देव से मानव पर आया और जैसा

कि लक्षणों से प्रतीत हो रहा है, वह मानव से भी नीचे उत्तर कर दानव तक आ सकता है। प्रजातत्र की बढ़ती हुई भावना ने राजतत्र को निःख बना दिया। जो हृषि आदर्शोन्मुख थी वह यथार्थता पर आ टिकी। जीवन के इस महान् परिवर्त्तन का प्रभाव काठ्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता। प्राचीन साहित्य-शास्त्र में नायक के जो विशेषण वर्णित किये गए थे वे विशेषण तो बने रहे, किंतु उनके अर्थ विपरीत मालूम होने लगे।

मानवता की इस विजय ने काठ्य को कोई नयी हृषि नहीं दी। काठ्य की सामग्री मानव-जीवन की विविधता ही रही है। उसमें

ऊँच-नीच, राजा-रक, विद्वान्-मूर्ख, सुंदर-असुंदर काठ्य का लक्ष्य—  
मानवता का कोई भेद नहीं। एक वृद्धा भिखारिणी का

चित्र बनाते-बनाते यदि चित्रकार किसी युवती रानी का चित्र बना दे तो वह सफल नहीं माना जा सकता। चित्रकार का साध्य वृद्धा भिखारिणी को ही चित्रित करना है, अपनी ओर से भिन्न-भिन्न रंगों की कूचियों से उसे रति-सुंदरी बना देना नहीं। काठ्य में किसान भजदूर, भिखारी को भी वर्णन

की दृष्टि से वही प्रतिप्रा मिलनी चाहिए जो समाज के विशिष्ट वर्गों को अभी तक मिलती रही है। सद्गुणों का निवास केवल बड़ों में ही नहीं रहता, छोटे भी उनसे उद्धीश रहते हैं। एक मिथारिणी के हठय में स्नेह, वात्मल्य, ममता आदि जो स्त्रियोंचित् गुण मिल सकते हैं वे प्रत्येक रानी में प्रायः नहीं मिलते। एक भूप्या किसान उदारता, वीरता आदि गुणों से किसी आधुनिक राजा को भी पराजित कर सकता है। ऐसी स्थिति में काव्य की दृष्टि से जीवन की सामान्य कहीं जानेवाली विभूतियों का चित्रण व्यर्थ नहीं हो सकता, वलिंग इससे काव्य की विशेषता ही प्रतिपादित होगी।

प्रगतिवाद आदर्श से यथार्थ को ही विशेष महत्व देता है। समाज में विधवा तथा अछूत को जो हेय स्थान था उसको बदलने प्रगतिवाद और जन-धारणा को सर्वर्ता की गुँजाइश अब हो गई है। धार्मिक रुद्धियों तथा पाखड़ी धर्म-ध्वजियों के कारण जीवन का जो वातावरण इतना कल्पित हो गया था, अध-विधास तथा परंपरा के नाम पर जो मलिनता आगई थी उसका परिमार्जन अब होने लगा है। समाज का कोई भी अग अपनी दीनता तथा हीनता के कारण ही हेय नहीं माना जा सकता। जीवन के विविध अगों तथा रूपों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेने में ही काव्य की सार्थकता है। काव्य का द्वार ऊच-नीच, धनी-दुरिद्र, देव-दानव सब केलिए खुला है। उसमें इतनी ही पक्षपात-शून्यता की आवश्यकता है कि समाज के उच्च वर्ग ने काव्य पर जो एकाधिपत्य जमा रखा था उसको हटाकर किसी दूसरे वर्ग को भी एकाधिपत्य न दिया जाय। जीवन की सामान्य गति-विधि के अनुसार काव्य में स्थान पाने की जो कोई उपयुक्त

पात्रता रखता हो उसका सम्मान होना चाहिए। प्रतिक्रिया का दृढ़ यदि काव्य का लक्ष्य बनाया जायगा तो स्थायी काव्य की सृष्टि सभव न होगी और कवियों को कविता की महत् सज्जा न मिल कर प्रचारक का पद ही प्राप्त हो सकेगा।

मनुष्य-समाज के जो भिन्न-भिन्न अंग है उनके अतिरिक्त काव्य में उन उपयोगी साधनों का भी उल्लेख होता आया है जो

जीवन के साधनों की काव्यगत प्रतिष्ठा	हमारे वौद्धिक विकास तथा सभ्यता के परिचायक रहे हैं। काव्य में जहाँ राजा को स्थान मिला है वहाँ उसके साथ वीणा, बैणु, रथ, मंदिर, भवन आदि को भी समुचित स्थान प्राप्त हो गया है,
-------------------------------------	--

किंतु कृषक या श्रमिक को काव्य से अपदस्थ रखने के साथ-साथ उनके ढोल, झोपड़ी, बैल-गाड़ी तथा हँसिया-हथौड़ा को भी अलग रखना पड़ा। जीवन-निर्वाह के इन साधनों में मार्मिकता की कोई कमी नहीं, किंतु काव्य की हृषि से इनमें अभी रसात्मकता की न्यूनता भालूस पड़ती है। यदि सामान्य जीवन को काव्य में प्रसंगानुकूल स्थिति प्राप्त हो जाय तो ये साधन भी रसग्राहक रूप प्राप्त कर ले सकेंगे। ग्रन्थेक देश का काव्य अपनी भूमि के मौलिक आधार को प्राप्त कर ही रसग्राह हो सकता है। हँसिया-हथौड़ा भारतीय कृषक-वर्ग के जीवन-निर्वाह के रूप में प्रधान साधन रहे हैं, किंतु आज प्रगतिशील साहित्यवादियों को इन साधनों को राष्ट्रीय स्वरूप की प्रेरणा अपने देश में नहीं मिली, वे इस प्रेरणा के लिए परावलंबी हैं। भारत के नव जागरण ने भी चर्चा-धुनकी को राष्ट्रीयता का प्रतीक घोषित किया, किंतु प्रगतिशीलवादी को किसी दीन कृषक
---

विधवा के चर्चा कातकर अपने कहणापूर्ण जीवन-निर्वाह के चित्रण की अपेक्षा किसी बड़ी फंकटरी या मिल में मजदूरों के हथौड़ों से अग्नि के सुलिंग निकालने में ही भजा आता है। जीवन के शाश्वत स्वरूप में जो काव्योपयुक्त रमणीयता रहती है वह आज-कल की वैज्ञानिक सम्भवता के कारण उठे हुए रूपों में नहीं। भो-भो करती हुई मोटरकारों के चित्रण की अपेक्षा मदर्गति से टिक्-टिक् करती हुई बेलगाड़ियों में ही भारत का स्वरूप देखा जा सकता है। सामान्य लोक-जीवन को काव्य का आधार बनाने समय भारतीय प्रकृति की रक्षा का विचार रखना भी उचित है। यदि स्वाभाविक रूप से जातीय तथा राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन या सशोधन करने की इच्छा हो तो प्रभाव भी स्थायी हो सकता और काव्य की सर्वांदा भी बनी रह जाती। आज से लगभग बीस वर्ष पहले, क्रांति की पुकार पर एक दिन रूसी साहित्य को भी साम्यवाद की सेवा में, अपने समस्त वैभव के साथ, उपस्थित होना पड़ा था, किन्तु इसका परिणाम, साम्यवाद के देशगत प्रचार की हष्टि से,

कुछ लाभप्रद भले ही हुआ हो, जगत् को इस स्थायी तथा सामयिक साहित्य का उपयोग  
अवधि के भीतर उसने कोई स्थायी साहित्य प्रदान नहीं किया। वैयक्तिक या सामाजिक जीवन की प्रत्येक अव्यवस्था का उपचार काव्य-द्वारा नहीं किया जा सकता। जीवन में जो कुछ चिरतन है, जो कुछ स्थायी है, उसके निर्वाह में काव्य का उपयोग उपयुक्त होता है। रुद्धि-प्रस्तता या सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने केलिए सामयिक साहित्य का उपयोग किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन की प्रकृति स्थायी साहित्य के अनुकूल होती है। इस प्रसरण में यह न भूलना

चाहिए कि प्रकृतिस्थ जीवन में रोग के कीटागुओं की तरह ईर्ष्याद्वेष, छल-प्रपञ्च, मद-मोह आदि के जो अनीतिमूलक भाव रहते हैं वे वर्जनीय होने पर भी चिरतन जीवन के सत्य हैं। इन स्थायी कीटागुओं के परिहार की चेष्टा स्थायी साहित्य-द्वारा होती रही है। जीवन में प्रतिक्षण क्रांति होती रहती है, किन्तु जो क्रांति किसी विशेष कारण से, जीवन के किसी विशेष काल में होती है उसका अभीष्ट-साधन सामयिक साहित्य के द्वारा ही समुचित है, उसके लिए स्थायी साहित्य को व्यर्थ घसीटकर उसकी मर्यादा नष्ट करने की आवश्यकता नहीं।

---

## दृष्टिकोणः अवधारणा अंतर्दर्शन

जीवन और काव्य की तात्त्विक समीक्षा के बाद उसका विनियोग भी आवश्यक है। कवि का आत्मभाव यदि उसके काव्य में प्रस्तावना सचाई के साथ अभिव्यक्त हुआ है तो उसके काव्य में जीवन का आभास पाया जा सकता है। काव्य के अंतर्वृत्ति-मूलक विश्लेषण से कवि के अतःकरण का पता चलता है, उसका हेतु और मनोभाव, लालसा और वासना, सबकी भलक मिल जाती है। इसके आभाव में हम उसके अभिप्राय को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, उसके उद्देश्य के सबध में कोई परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन की कितनी ही वृत्तियाँ ऐसी हैं जो अद्वितीयस्था में निस्सूत होती हैं और कवि की स्पष्ट चेतना से भी अलग रहकर उसकी प्रवृत्ति तथा कल्पना पर प्रभाव डालने की चेष्टा करती हैं।

मानव जीवन एक गूहा विषय है, अतः उसके सबंध में कोई भी निर्णय सर्वथा विवाद-रहित नहीं माना जा सकता। काव्य में जिस सीमा तक कवि का आत्मभाव प्रकट हुआ रहता है, वस्तुतः समीक्षा का विषय जीवन का उतना ही अंश माना जाना चाहिए। उससे अधिक की जिज्ञासा-मात्र हो सकती है, उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। 'कृत लोकं पुरुषोऽभिजायते'—अपने बनाये हुए संसार में ही पुरुष उत्पन्न होता है। कवि भी, यदि वह वस्तुतः कवि ही है तो अपनी काव्य-कला से पृथक् उसकी सत्ता नहीं मानी जा सकती। किसी भी व्यक्ति का शील और चरित्र उसके विचार तथा कर्म से भिन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति में काव्य के रूप में कवि अपनी जैसी भावना व्यक्त करता है उसी के अनुरूप उसके जीवन का दृष्टिकोण मानना पड़ेगा। किंतु, इसके साथ ही यह भी सत्य है कि प्रत्येक कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में कवि ही नहीं रहता। इसी कारण काव्य-कला की अत्यधीन पर प्रतिष्ठित जीवन कवि के सारे जीवन को अच्छी तरह आलोकित नहीं कर सकती। उसके किसी अंश का परिचय प्राप्त कर ही विवेचन किया जा सकता है। इस अध्याय में अंतर्दर्शन के रूप में हिंदी के कुछ आधुनिक कवियों की समीक्षा, बहुत ही संक्षेप में, की गई है। कवियों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों को, जो उन्हकी रचनाओं से अपेक्षाकृत प्रधान हैं, दिखलाने का प्रयत्न-मात्र किया गया है। इस प्रयत्न में किसी पूर्वाग्रह की प्रेरणा नहीं है। कवियों ने अपनी प्रतिभा तथा कौशल से समीक्षक की सहानुभूति को जिस सीमा तक अर्जित किया है उसी का स्पष्टीकरण है।

## मैथिलीशरण गुप्त

मैथिलीशरण गुप्त स्वभावतः प्रवध-काठ्य के कवि हैं। गीति-काठ्य केलिए जिस आत्म-साधना तथा स्वानुभूति की अपेक्षा होती है उसका अभाव तो उनमें नहीं माना जा सकता, किंतु उनकी प्रकृति में लोकपक्ष को जो स्थान प्राप्त है वह व्यक्ति को नहीं। मैथिलीशरण गुप्त एक वैष्णव कवि हैं, किंतु महात्मा गांधी की तरह उदार वैष्णव नहीं। उनके कवि में वैष्णव की सांप्रदायिक सकीर्णता बनी हुई है और इसका प्रभाव भी उनकी रचनाओं पर अस्थिरिक पड़ा है। वे एक धर्म-प्राण जातीय कवि हैं, राष्ट्रीय कवि की विशालता का समावेश अबतक उनके कवित्व में नहीं हो पाया है। भारत-भारती से लेकर साकेत, यशोधरा, गुरुकुल, हिंदू आदि मुख्य-मुख्य काठ्य-ग्रन्थों में उनके हिंदुत्व की अतचेतना ही जागी है। मौलाना अलताफ हुसैन हाली के मुसल्लियों ने ही उन्हें भारत-भारती लिखने की प्रेरणा दी। इसी कारण हाली की नजर जिस हृदय तक पहुँची थी उससे अधिक वे अपनी दृष्टि का भी विस्तार नहीं कर सके। हाली ने अपना विषय मुस्लिम समाज तक ही सीमित रखा, किरण वे भी हिंदू-समाज की परिधि से बाहर जाने की उदारता न दिखा सके। अपनी सीमा में रहकर हिंदू-राष्ट्र को उन्होंने जीवन की जो स्फूर्ति दी, अपने भिन्न-भिन्न प्रवध-काठ्यों के द्वारा हिंदू-जीवन के जो रसात्मक खरूप उपस्थित किए वे अपने द्वेष में अतुलनीय हैं। हिंदुत्व की गरिमा ने भारतवर्ष की अन्येतर जातियों के प्रति उनके हृदय में कुछ कवित्व शेष न रखा। उनकी समस्त रचनाओं में कुछ सौ-पचास पक्षियाँ ही

ऐसी निकाली जा सकती हैं, जिनके द्वारा वे उदार राष्ट्रीयता की भाँकी ले सके हैं।

मैथिलीशरण गुप्त में एक विशेषता है। युगधर्म के अनुकूल वे एक ग्रहणशील प्रकृति के कवि हैं। वह एक युग था जब राष्ट्रीय नव जागरण में अद्वृत विद्युत्-सचार कर योग देनेवाली भारत-भारती में भी ब्रिटिश राज्य का अभिनन्दन था और उसके बाद भी अन्वय-व्यतिरेक से उसकी प्रशंसा चलती रही। अब एक दूसरा समय आया है। राष्ट्र ने अपने जीवन के पिछले अध्याय को पलट दिया और कवि ने भी अपने जीवन को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। गाधी-संपर्क ने कवि के जीवन से जो परिवर्तन उपस्थित किया उसकी ध्वनि उसकी रचनाओं में सुनाई पड़ने लगी है, किंतु उस ध्वनि में अभिव्यक्ति की स्वच्छता पूरी तरह नहीं आ पाई है। राष्ट्रीय कवि के उपयुक्त भावना का विकास शायद उनकी प्रकृति के कुछ अन्यथा-सा मालूम पड़ता है। उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अभी विस्तार का अवकाश है। हिंदुत्व की अंतर्ज्योति को निष्कप रखते हुए राष्ट्रीयता के नाम पर भावना-सूत्र को बढ़ा ले चलने की प्रवृत्ति उनमें आने लगी है, पर अभी प्राचीन वैष्णव संस्कार तथा नवीन गांधी-संपर्क के बीच उनकी जीवन-प्रकृति छुट्ट ही कर रही है।

मैंने ऊपर संकेत किया कि मैथिलीशरण पुरातन वैष्णव संस्कार के पोषक हैं और साथ ही युगधर्म के अनुसार ग्रहणशील प्रकृति भी रखते हैं। उन्होंने नवीन काव्य-प्रणाली का स्वागत किया और उसमें अपना सहयोग भी दिया लेकिन यह सब इसलिए नहीं कि उनमें युगधर्म के पोषण या उसको अपने साथ ले चलने की मौलिक

प्रवृत्ति है, प्रत्युत् यह उनकी समन्वयशील प्रकृति की स्थिति-पालकता है। रहस्यवाद की नवीन धारा ने भी उनको कुछ दूर तक प्रभावित किया, पर उनकी सगुणोपासना की भावना ने शायद उस परम तत्त्व में किसी रहस्य को नहीं देखा। आत्म-प्रबंधना की उस सीमा तक वे नहीं पहुँचे जहाँ अभी बहुत से तथाकथित रहस्यवादी कवि पहुँचे हुए हैं। वे बस्तुतः व्यक्ति-साधना के कवि नहीं, लोक-साधना के कवि हैं। और ऐसे कवि किसी भी माहित्य को बढ़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। व्यक्त जीवन में व्यक्त सौंदर्य को देखने की प्रवृत्ति उनमें इतनी ख्याभाविक है कि रहस्यवाद तथा गीति-काव्य से अधिक अपने प्रबंध-काव्यों में ही वे अपना आत्म-निरूपण कर सके हैं।

किसी ऐसे पात्र के सबध में जिसकी धारणा जन-समाज में पहले से स्थिर रही है, कवि की स्वतंत्रता बहुत कुछ छिन जाती है। मेघनाद बध में मधुसूदन दत्त ने लक्ष्मण के प्रति सचित हमारी दृढ़ सहानुभूति को छीनकर मेघनाद को देने की चेष्टा की, पर इस कार्य में वे सर्वथा सफल न हो सके। उर्मिला के चरित्र के सबध में रामायणकार ने जिस 'मौन' का अवलबन किया उसका चाहे जो अर्थ हो, कितु इतना तो स्पष्ट है कि सर्वागपूर्ण उर्मिला शायद रामायण की प्रधान नायिका के त्याग तेज, सतीत्व तथा कष्ट-सहिष्णुता से उत्पादित हृदय के भाव में ज्यादे हिस्सा बैटा लेती। उर्मिला को काव्य की उपेक्षिता समझकर उन्होंने उसकी अपेक्षा करनी चाही, लेकिन उनके इस प्रयत्न में जितनी भावुकता थी उतना सयम नहीं। उपेक्षिता उर्मिला की आँखों की राह कवि ने अपने हृदय की सारी सहानुभूति को बहा दिया, परंतु उसको वे सोक-

कल्याणी न बना सके। इसमें कवि की अनिच्छा और असमर्थता दोनों हैं। राम और सीता के प्रति कवि के हृदय में जो पूजा-भाव है वह इतना कुछ गम्भीर है कि उसकी रक्षा केलिए उन्हें पक्षपात करते ही बना है । १ उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र का सार-सर्वस्य सीता और राम ने खींच लिया है। कवि ने अपनी निरपेक्ष प्रकृति का परिचय न देकर उर्मिला के प्रति अपनी सचित भाव-संपत्ति को नष्ट कर दिया। जिस भावना ने उनको काव्य-प्रेरणा दी उसने अंत तक उनका साथ न दिया। इसी कारण कवि ने साकेत में उर्मिला को प्रधान स्थान देने की भावुकता तो दिखाई, किंतु उसके महस्त्र की प्रतिष्ठा वे न कर सके। रामायणकार ने रामायण की जो रूपरेखा रखी और उसके भीतर उर्मिला को जितना स्थान दिया उससे अधिक मैथिलीशरण गुप्त भी उसे न दे सके। रामायण के मौन को उन्होंने अपने साकेत में व्यक्त करना चाहा, किंतु उस मौन में जो अर्थगमित तथा मार्मिक भाव-संकेत था वह विद्यमान विलाप से भरी साकेत की सैकड़ों पक्तियों अभिभव्यक्त न कर सकीं। साकेत की उर्मिला जीती है, पर जीवन केलिए नहीं, विलाप केलिए। उनके हृदय में उर्मिला के महस्त्र

१ इस अभियोग को व्यर्थ मैथिलीशरण गुप्त ने महात्मा गांधी को लिखे गए अपने एक पत्र में ल्वीकृत भी किया है—“सर्व भाव की उपासना में दीक्षित होते हुए भी मानस के राम के समीप मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है। उनकी मिश्रता मानो राजा की मिश्रता है जो हाथी पर चढ़ाते-चढ़ाते शूली पर भी चढ़ा सकती है। इसलिए मुझे उनसे डर लगा रहता है। वह अन्यस्त भय साकेत में भी नहीं छूटा और मुझे उन्हें प्रभु कहते ही बना है।”

केलिए नहीं, केवल उसकी करुणा केलिए स्थान है। पाठक या श्रोता भी उर्मिला केलिए करुणाजन्य सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ और प्रदर्शित नहीं कर सकते।

उर्मिला की तरह यशोधरा की विरह-वेदना ने भी कवि के मर्म को व्यथित किया है, किंतु उसकी अतर्वर्द्धना को भी लोकपक्ष में परिडयाप्त कराने में वे पूरे समर्थ नहीं हो सके। व्यक्तिगत जीवन के वेदना-दुख से ऊपर लोक-कल्याण में प्रवृत्त होने पर उर्मिला तथा यशोधरा के विषाद का मूल्य केवल लद्दमण ही ओँके, यशोधरा के आँसू केवल गौतम दुष्ट के उपलक्ष्य से ही निस्सृत हो, यह सत्य और स्वाभाविक तो है, पर केवल इतना ही होने से उनका विषाद लोक-दृष्टि में बदनीय नहीं माना जा सकता। किसी-किसी स्थल पर जहाँ यशोधरा ने अपनी वेदना की सीमा से बाहर आकर अपनी दृष्टि का विस्तार किया है वहाँ उसके महस्व की प्रतिष्ठा हुई है।

जायँ, सिद्धि यावें वे छख से,  
दुखी न दाँ इस जन के दुख से,  
उपालैं दूँ मैं किस मुख से।

आज अधिक वे भाते।  
सखि वे मुझसे कहकर जाते।

यशोधरा को पति-वियोग का विषाद तो है, किंतु इस विषाद को वह सह्य बना लेती यदि गौतम चुपके से न जाकर यशोधरा को जगाकर और उससे अनुमति लेकर जाते। इससे उस परिस्थिति का गृहिणी को संतोष होता और अपने पति को जन-कल्याण के मार्ग की खोज केलिए चिदा करने का गैरव भी प्राप्त होता।

मिला न हा । इतना भी योग,  
मैं हँस लेती तुझे वियोग ।  
देती उन्हें विदा मैं गाकर,  
भार झेलती गौरव पाकर ।  
पहुचाती मैं उन्हें सजाकर,  
गये स्वयं वे मुझे लजाकर ।

यशोधरा ने अपनी पति-परायणता तथा त्याग का सर्वोच्च महसूब  
पुत्र राहुल को बुद्ध की सेवा में समर्पित कर दिखा दिया है । इस  
दान ने उसकी सारी नारी-सुलभ निर्बलताओं को दबा दिया है ।

मानवता दुर्बलताओं से ही बनी होती है । किन्तु उर्मिला को  
केवल एक साधारण मानवी के रूप में ही दिखाने केलिए साकेत  
जैसे काव्य के विराट् आयोजन की आवश्यकता न थी । उर्मिला  
के आसुओं की बहुलता ने उसकी दुर्बलता को बहुत अधिक स्पष्ट  
किया है, परंतु कवि ने उर्मिला के विषाद को कहीं-कहीं अभिनन्दनीय  
भी बनाया है । एक बार वियोगिनी उर्मिला को अम हुआ कि  
उसके बीरब्रती पति लक्ष्मण आराध्य राम-सीता को बन में छोड़  
कर साकेत चले आए हैं । उस समय उर्मिला कहती है—

च्युत हुप अहो ! नाथ, जो यथा,  
धिक । वृथा हुई उर्मिला-न्यथा ।  
समय है अभी, हा । फिरो, फिरो,  
तुम न यो यशः स्वर्ग से गिरो ।  
प्रभु दयाल हैं, लौट के मिलो,  
न उनके कुटी-द्वार से दिलो ।

उर्मिला के इस उद्वार ने उसके विषाद को त्यागमय बना दिया  
है । वह लक्ष्मण से इतना ही कहती है—

हुम वती रहो,  
मैं सती रहूँ ।

खड़ीबोली की इतिवृत्तात्मक कविता को अप्रेजी तथा अगला के ढंग पर अंतर्भावव्यञ्जक बनाकर मैथिलीशरण गुप्त ने उससे लाक्षणिक वैचित्र्य, व्यञ्जक चित्र-विन्यास तथा आध्यात्मिकता का पुट देने का काफी प्रयत्न किया है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप उन्होंने कितनी ही गीतिकाठ्य के असुरूप मुक्तक रचनाएँ भी कीं। ऐसी रचनाएँ उनकी प्रवृत्ति-विशेष के निवर्द्धन केलिए ही ली जा सकती हैं।

निकल रही है उर से आह !

आक रहे सब तेरी राह !

धातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी ।  
मैं अपना घट लिए खदा हूँ, अपनी-अपनी हमें पढ़ी ।

×                    ×                    ×

“तुम्हारी बीणा है अनमोल ।  
हे विराट ! जिसके दो तूँवे  
हैं भूगोल खगोल ।  
इसे बजाते हो हुम जब लौं,  
नाचेंगे इम सब भी तब लौं,  
चलने को न कहो कुछ कब लौं ।

यह कीड़ा कस्तोल ।

तुम्हारी बीणा है अनमोल !”

मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी इस प्रवृत्ति का निर्वाह तथा प्रसार, केवल मुक्तक रचनाओं तक ही सीमित न रखकर प्रबंध-काठ्यों को भी उससे समन्वित किया है। इसका परिणाम यह

हुआ कि उनके प्रबंध-काउंसिलों में प्रबंध-विधान की शिथिलता तो स्थान-स्थान पर बनी रही, पर गीत-रूप अभिभ्यक्तियों में काव्यत्व चमक उठा है।

वेदने । तू भी भली बनी ।

पाई मैने आज तुझी में अपनी चाह धनी ।

धरी वियोग-समाधि अनोखी, तू क्या छीक बनी ।

अपने को, प्रिय को जाती को देखूँ खँची तनी ।

x                    x                    x

'स्वजनि, रोता है मेरा गान् ।

प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई सान ।'

ऐसी उक्तियों कवि की सर्वथा सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं मानी जा सकतीं। प्रबंध के भ्रसग-सूत्र में रहती हुई भी ऐसी उक्तियों अपना स्वतंत्र महस्त्र रखती और कवि के रहस्यवादी युगाधर्म के निर्वाह का समर्थन करती हैं। मैथिलीशरण गुप्त हरिश्चांद की भौति न पूर्वाभिमुख हैं और न पंत की तरह पश्चिमाभिमुख। वे हिंदी काव्य की अनेक प्रवृत्तियों के मध्य की समन्वय-मूर्ति तथा हिंदी पाठकों में सर्वाधिक्य लोकप्रिय कवि हैं।

---

## माखनलाल चतुर्वेदी 'भारतीय आत्मा'

माखनलाल चतुर्वेदी 'भारतीय आत्मा' हिंदी के रहस्योन्मुख राष्ट्रीयतावादी एक कर्मठ कवि हैं। उनकी अनुभूति गहन है, कल्पना विशद है, किन्तु उन्हें अभिव्यक्ति की कला नहीं। अभिव्यक्ति कला का अतिम रूप है और इस रूप की रक्षा केलिए अभिव्यक्ति को मूल अनुभूति के साथ सामंजस्य रखना पड़ता है। भारतीय आत्मा की प्रकृति काफी सवेदनशील होने पर भी अपनी अभिव्यक्ति में जटिल है। उनकी साधारण-से-साधारण उक्तियाँ भी किसी रूपक के आवरण में व्यक्त होती हैं। उनकी प्रकृति में वृत्तियों की एक निष्ठा है और इसी कारण उनकी अनुभूतियों में परिस्थितिगत कुछ विलक्षणता के अतिरिक्त अन्यथा व्यतिक्रम नहीं मिलता।

'भारतीय आत्मा' की काव्य-प्रकृति में ऐत्रिक उत्तेजन पर्याप्त है और इसी कारण उनकी मार्मिकता में शक्ति का समन्वय हो जाता है। उनकी अधिकांश रचनाओं में राष्ट्र-प्रेम का ही तत्त्व पाया जाता है, किन्तु अपनी राष्ट्र-विषयक अनुभूति को व्यक्त करने के लिए जिस प्रासादिकता तथा सरलता की आवश्यकता होती है वह दुर्भाग्यवश उनको प्राप्त नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन के क्रियात्मक पक्ष पर दृष्टि रखने से उनकी रचनाओं को उनके व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि का सबल आधार मिलता है। उनकी वाणी में शक्ति और सजीवता मालूम पड़ती है। इतना होने के साथ ही यदि उनकी वाणी अभिव्यक्ति का कोई दूसरा रूप ग्रहण करती तो उनकी रचनाओं को महत्तर प्रतिष्ठा प्राप्त होती। उनके व्यक्तित्व के संबंध से जिस शक्ति का उदय होता है उसके कारण उनकी

अभिभ्यक्ति के दोष प्रत्यक्षतः कुछ ढँग से जाते हैं।'

भारतीय आत्मा ने रहस्यवाद के ढंग की कुछ रचनाएँ की हैं। वे प्रायः प्रणाय-मूलक ही हैं। रहस्यवाद की परिपाठी के अनुसार उनके आराध्य इस जगत् के नहीं, बाहर के हैं, किन्तु ऐसे आराध्य अधिकतर कल्पना-चेत्र में ही रहते आए हैं। अपने आराध्य के प्रति कवि ने हृदय की जिस गंभीरता का परिचय दिया है उससे पता चलता है कि उनका आराध्य लोकोत्तर नहीं, हृदय के निकट का ही और लौकिक है। जो अपनी प्रकृति से अधिक भावुक तथा मार्मिक होते हैं वे अपनी मानसिक वृत्तियों को किसी दूर के केंद्र-विंदु के साथ उत्तमा नहीं सकते। भारतीय आत्मा अपनी सारी संभावनाओं के साथ रहस्यवाद की सीमा के भीतर नहीं छूट सके, उन्हें उससे बाहर आना पड़ा। राष्ट्र के रमणीय स्वरूप ने उनके चिंतन तथा कल्पना की रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रेरित कर उनके आराध्य को ऊपर से नीचे उतार लिया और वह आराध्य सूक्ष्म से हृश्य जगत् में आ गया।

भारतीय आत्मा की राष्ट्रीयता सीमित है जैसा कि वह होती भी है, किन्तु उनकी राष्ट्रीय कविताओं में भावनाएँ गहन हैं। कहीं कहीं राष्ट्रीय स्वरूप के साथ आध्यात्म-बोध का समन्वय कर देने से उनकी रचनाएँ अपनी अर्थ-भूमि को स्थिर नहीं रख सकी हैं। उनमें नवोत्थित काव्य-पद्धति का मूलभूत प्रतिक्रिया-स्वरूप वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति तो नहीं पाई जाती, लेकिन अपनी अभिभ्यक्ति को सामान्य अनुभूति के स्तर से ऊपर उठाकर दूरांग भावना के साथ वे साम्य स्थापित करने की चेष्टा करते पाए जाते हैं। इस कारण जहाँ-तहाँ उनकी रचनाओं की अन्वीति-रक्षा नहीं हो

पाती। अनुभूति से प्रेरित जो उक्तियाँ खड़ी होती हैं वे प्रकाशित होते-होते अस्फुट ही रह जाती हैं। अपनी अनुभूति की व्यजना को गूढ़ बनाने केलिए आध्यात्मिक उपलक्षणों के प्रयोग की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। कवि का हृदय स्वभावतः सरल तथा सरस है, परतु रहस्योन्मुख प्रवृत्ति के कारण उनकी अभिव्यक्ति जटिल हो जाती है। रहस्य भावना को ही काव्य का प्रधान विषय मान लेने का यह परिणाम हुआ कि काव्य का तत्त्व स्वाभाविक भावनाओं में केंद्रित न रहकर कल्पित भावनाओं से पोषित होने लगा। भारतीय आत्मा में देश-भक्ति का तत्त्व जितना स्वाभाविक है उतना ही आध्यात्मिक तत्त्व भी, लेकिन दोनों के समन्वय ने उनकी अभिव्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक दुर्बोध कर दिया है। रहस्यवाद के अंतर्गत आनेवाली रचनाओं में कवि ने प्रतीक पद्धति के अनुसार वाचक के स्थान पर लक्षक पदों का प्रयोग कर अन्योक्ति का अवलंबन लिया है और इस प्रकार अप्रस्तुत कथन के द्वारा देश-भक्ति की सहज मार्भिकता तथा भावुकता को दुरुहत्ता के हाथों समर्पित कर दिया है।

सामान्य रूप से कविता-मात्र जनता के मर्म को स्पर्श करने वाली होती है, परतु लोक-हृदय के विचार से राष्ट्रीय कविताओं का दायित्व उससे भी अधिक है। जनमत को अपनी ओर अभिमुख करने केलिए साधारणतः दो ही उपाय काम में लाए जा सकते हैं—बल और प्रतीति। बल-प्रयोग के द्वारा जनमत को अनुकूल बनाना राजनियता के अतर्गत माना जा सकता है, पर प्रतीति के पथ से लोक-हृदय को अपनी ओर आकर्षित करना कवि का कर्म है। राजनियम शरीर की चेष्टा पर अतिबंध लगा

सकता है, किन्तु कवि अपनी प्रतीति-पद्धति के अनुसार शरीर-चेष्टा के मूल से रहनेवाली अतप्रेरणा को ही विमुग्ध अनुकूल कर लेता है। राष्ट्रीय कविताओं का मूल राष्ट्रीय भावनाएँ हैं। अभिव्यक्ति के बहुत-से दोष भावनाओं की गमीरता से छब्बे से जाते हैं। काव्यत्व से हीन राष्ट्रीय रचनाओं ने भी जनता के हृदय पर प्रतिष्ठा पाई है।<sup>१</sup> आज से २०-२५ वर्ष पहले 'भारत-भारती' ने राष्ट्रीय जगत् में जो जागृति उत्पन्न की वह अनुलनीय है, किंतु काव्यत्व की कसौटी पर 'भारत-भारती' नहीं उत्तरती। झड़ा-गान ने भी राष्ट्र-कर्मियों के हृदय में अपूर्व उत्साह की सृष्टि की है, पर राग या स्वर के बल पर उस गान को भले ही दीर्घायु प्राप्त हो जाय, हीन काव्यत्व या व्युत्पद-विन्यास उसे स्थायी काव्य-साहित्य में स्थान न पाने देगा।<sup>२</sup> जन-हृदय को जाग्रत् तथा सशक्त तथा अनुप्रेरित करना ही राष्ट्रीय कविताओं का लक्ष्य है। यदि कवि के हृदय से अनुभूति की सचाई है, मनोवेग स्वाभाविक है तो छंद-शास्त्र के उलटे-सीधे नियम उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा नहीं दे सकते। मार्मिक राष्ट्रीयता-परक कविताएँ समीक्षक की मनोदशा को भी गुण-दोष के विवेक से हटाकर शब्दोत्कर्ष की स्थिति में ले आती हैं। यही प्रतीति की पद्धति है। भारतीय आत्मा की राष्ट्रीय कविताएँ इतनी गमीर तथा जटिल हैं कि उनकी प्रतीति तो दूर रही, बोध भी एक समरथा है। यदि प्रतीति की सरल तथा सरस पद्धति पर वे रचनाएँ करते तो उन्हें अधिक हृदयग्राह बना रहे। केवल किसी प्रकार बोधगम्य हो जाने पर ही उन्निटों नी सार्थकता नहीं मानी जा सकती।

जीवन के आगर, प्रेम, विलास आदि पक्षों की ओर भी कवि

अनुप्राणित-से दिखाई पड़ते हैं, किंतु प्रकृति की सरल गमीरता ने इस प्रवृत्ति को दबा दिया है। जहाँ उन्होंने अपनी प्रवृत्ति की रक्षा की है वहाँ रचनाओं से स्वाद आ गया है, पर जहाँ उन्होंने अपनी लौकिक प्रणायात्मभूति या वेदना को सात के लेन से बाहर निकाल कर अनंत को अर्पित किया है वहाँ वे एक गहन कवि हैं।

आह ! गा उठे, हेमांचल पर तेरी हुई पुकार—  
बनने दे तेरी कगाह को परसों की हुकार।  
और जवानी को चढ़ने दे बलि के मीठे द्वार,  
सागर के छुलते चरणों से उठे प्रश्न हस बार—  
अंतस्तल से अतल-वितल को क्यों न बेध जाते हो ?  
अजी वेदना-गीत, गगन को क्यों न छेद जाते हो ?

कवि की प्रेरणा प्रकृतिगत है, भाव स्वाभाविक है, किंतु हृदय के परिचित तथा ज्ञात पक्ष को अपरिचित तथा अज्ञात की ओर निर्दिष्ट कर देने से उसकी वेदना का घनत्व कम हो गया है। गगन को छेदने की शक्ति उसमे भले ही आ गई हो, पर उसमे हृदय को छेदने की जमता नहीं दिखाई पड़ती। अप्रसुतविधान या रूपक की प्रवृत्ति ने किसी मार्मिक हृश्य-विधान को भी, हृदय से कुछ दूर रखकर ही उपस्थित किया है। कवि का एक मित्र कारावास से मुक्त हो गया है और उसकी प्रेरणा तथा स्वागत में कवि की पक्तियाँ हैं—

तुम बढ़ते ही चले, मृदुलतर जीवन की धड़ियाँ भूले,  
काठ छेदने चके, सहस-दल की नव धड़ियाँ भूले।  
मधु पवन सैदेश दे रहा, हृदय-कली पथ हेर रही,  
उड़ो मधुप, नंदन की दिशि में, ज्वालाएँ घर घेर रहीं,

‘तरुण तपत्वी’ आ, तेरा कुटिया में नव-स्वागत होगा,  
देवी ! तेरे चरणों पर फिर मेरा मस्तक नत होगा ।

भारतीय आत्मा ने प्रेम को ही काठ्य का प्रेरक तत्त्व माना है । लौकिक प्रेम, उनके आँसू में वियोग से विदग्ध होकर, उच्छ्वसित हुआ है । कवि में प्रकृति को देखने की भावुकता-पूर्ण हृषि है, पर रहस्यवादी आवरण के कारण उसका विस्तार नहीं हो सका । ‘सतपुड़ा रौल के एक भरने को देखकर’ उनकी कल्पना में जिस सौंदर्य की सृष्टि हुई वह ऐसी है—

किस निर्झरणी के धन हो, पथ भूले हो किस घर का ?  
है कौन वेदना बोलो, कारण क्या कहणा-स्वर का ?

प्रेम-साधना के समय हृदय में, प्रेम का प्रबल उद्वेग होने के कारण, वाणी में अपूर्व मार्मिकता आ जाती है । ‘कुंज कुटीरे यमुना तीरे’, आँसू, आदि रचनाएँ अपेक्षाकृत कम दुर्बोध होने के कारण सरस हुई हैं । ‘खीझमई भनुहार’ में कवि ने अपने प्रेमी को बड़ी उत्कंठा के साथ भाँका, किंतु उनको यह वरदान शाप के मूल्य पर ही प्राप्त हुआ ।

किस बिगड़ी धड़ियों में ज्ञोका ?

तुम्हे ज्ञोकना पाप हुआ,  
आग लगे, वरदान निगोड़ा  
सुझ पर आकर शाप हुआ !  
जोंच हुई, नम से भूमंडल  
तक का व्यापक नाप हुआ,  
अगणित बार समाकर भी ।  
छोटा हूँ, यह संताप हुआ ।

भर अंडेप । शप की गोदा  
 तरा बन किडाना - मा,  
 आ पर आराध्य । खिला लै  
 म भी तुम खिलाना - मा ।

ब्रह्म और जीव—अशेष या शेष के प्रमग को उपस्थित कर देने के कारण इस कविता का आध्यात्मिक बोय बहुत महस्तपूर्ण है, परन्तु लौकिकता का सबध अचुणए न बना रहने के कारण उसकी रमणीयता का हास तथा अर्थ दुर्बोध हो गया है । ‘पुष्प की अभिलाषा’ उनकी एक प्रसिद्ध कविता है । उस कविता में भावना तथा कला की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय बात नहीं, पर कवि के हृदय में जो अनुभूति की सचाई है वह बड़ी मार्मिकता के साथ व्यक्त हुई है । ऊंचि की रामना है—

चाह नहीं, मैं छुरबाला के गहनो में गूँथा जाऊँ,  
 चाह नहीं, प्रेमी-माला में बिध व्यारी को लक्ष्यार्ज,  
 चाह नहीं, सन्नाटों के शव पर है हरि, ढाला जाऊँ,  
 चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ौ, भारय पर इछलाऊँ ।

मुझे तोड़ लेना धनमाली । उस पथ में दूना तुम फक,  
 मानुभूमि पर शीश चढाने जिस पथ जाव वीर अनेक ।

प्रत्येक कवि की काढ्योपयुक्त प्रतिभा अपनी समस्त शक्ति के साथ एक ही समय में विकसित नहीं होती । अधिकाश कवियों के जीवन में यह बात देखी जाती है कि उनकी प्रकृति का अधिकाश पक्ष उनकी काढ्य-कला के साथ सबध नहीं रखती । उनकी प्रकृति अपनी अर्जित शक्ति को किसी दूसरे द्वेष में व्यक्त करने के लिए तत्पर रहती है । कुछ समय के बाद जब उनकी

काव्य-प्रेरणा को, जीवन की किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण शक्ति मिलती है तब उनकी सारी प्रकृति काव्य-भावना को ही सबल करती है। ऐसी दशा में उनका काव्य उनके सपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। भारतीय आत्मा में भावुकता अपार है, और शायद इसी अपार भावुकता के कारण उनकी परिधि कभी-कभी इतनी विस्तीर्ण हो जाती है कि उनके पाठक या श्रोता सहसा उत्तीर्ण नहीं हो सकते। वे कट्टर राष्ट्रवादी हैं और वाणी तथा क्रिया में अपनी सारी प्रकृति का सामजस्य रखनेवाले हिंदी के गिने हुए कवियों में प्रमुख हैं।

---

## जयशंकर 'प्रसाद'

जयशंकर 'प्रसाद' मानव भावनाओं के एक मार्मिक कवि हैं। जीवन के सुख-दुख, हर्य-विपाद, आशा-निराशा का बहुत ही सुदूर वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। काव्य-विधान में नई-नई उद्घावनाओं की शक्ति उनकी अद्भुत है। काव्य-जगत् में प्रसाद ने क्राति की, किंतु उस क्राति में तेज नहीं, प्रताप था। प्रसाद में क्रांति के सदेश को सुनाने की प्रेरणा थी, पर उसके संचालन की ज़मता नहीं। क्राति के लिए जिस भावुकता के प्रसार की आवश्यकता होती है उसके लिए उनकी स्थिर बुद्धि तैयार न थी। वे जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखते थे उससे क्राति की मनः-स्थिति बन भी नहीं सकती थी। अपनी ऐसी मनोदशा से वे सतुष्ठ थे, यह कहना भी शायद उनके साथ न्याय न करना होगा। बाह्य अगत् में जीवन-सधर्ष को देखते हुए भी वे आँखें बचाकर अपने मार्ग पर चलते रहे। जहाँ उनमें एक और कवि-सुलभ भावुकता थी वहाँ दूसरी ओर दार्शनिक गांभीर्य और संयम भी। यही कारण है कि भावुकता में छबे रहने पर भी वे उसकी धारा में प्रवाहित न हो सके।

एक स्त्री-हृदय की कितनी प्रेम-सत्त्व निराशामयी बाणी है—

आह ! वेदना मिली विदाई;  
मैंने भ्रमवश जीवन - संचित  
मधुरुणियाँ री भीय लुटाई।  
छल-छल थे सध्या के थमकण  
आँसू - से गिरते ये प्रतिक्षण  
मेरी यात्रा पर लेतो थी—  
नीरवना अनंत बाँड़ाई।

अग्रिम स्वप्न की मधुमाया में  
गहन विधिन की तरु लाया थे  
पथिक, उनीदी श्रुति में किसन  
यह विहार की तान उठाई ?  
लगी सतुष्ण दीठ थी सबकी  
रही बचाये किरती कव की  
मरी आशा आह । बाघली  
तूने खो दी सकल कमाई ।  
बढ़कर मेरे जीवन - रथ में  
प्रलय चल रहा अपने पथ में,  
मैंने निज दुर्बल पद-बल पर—  
उससे हारी होड़ लगाई ।

एक निराशा नारी-हृदय की यह जीवन-यात्रा है । हृदय में  
प्रेम की जो आशा थी, जीवन-भर मधुकरियों की जो भीख एकत्र  
की थी वह सब आशा की प्रवचना से लुट गया । जहाँ से उसे  
सब कुछ मिलने की आशा थी वहाँ विदाई में उसे बेदना ही मिली ।  
इस कहणा-सावित चित्र से प्रसाद ने, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार  
ही, दार्शनिकता का रंग भी चढ़ा दिया है । थके हुए स्वप्नों की  
मधुर माया के बीच गहन विधिन में किसी पथिक ने विहार की  
तान तो छेड़ी ही, जीवन-यात्रा में प्रलय के साथ होड़ लगाकर  
प्रसाद ने मानवीय आकांक्षा को अपने स्थान पर ही रखा ।

जीवन के विषाद पर ये भी किसनी मार्मिक पंक्तियों हैं—

निर्झर कीम बहुन बल खाकर  
थिलखाता दुकराता किरता,

वोज रहा है स्थान धरा में  
अपने ही चरणों में गिरता।  
किसी हृदय का यह विपाद है,  
ऐसो मत यह सुख का क्षण है,  
उत्तेजित कर मत दोढाओ,  
कहणा का यह यका चरण है।

प्रसाद का 'ओँसू' विरह या उसकी स्मृति का एक बहुत ही मार्मिक गीति-काव्य है। ओँसू की मार्मिकता तक हृदय को पहुँचाने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि प्रसाद ने विरह के आलंबन को इस जगत् का प्रत्यक्ष आधार नहीं दिया। पृथ्वी से आकाश, नीचे से ऊपर तक, आणु-परमाणु में, ग्रह-नक्षत्र में, सर्वत्र आलंबन की सत्ता को मिला दिया है। ज्ञात को अज्ञात बनाने या कम-से-कम उसे बहुत दूर तक उड़ा ले जाने की कल्पना अवश्य की गई है। अज्ञात के साथ हृदय-सबंध स्थापित करना केवल कठिन ही नहीं, अस्ताभाविक भी है। ज्ञात के विरह में जो मार्मिकता लक्षित हो सकती है वह अज्ञात में नहीं। ओँसू में विरह का जो वर्णन जीवन के जितना ही निकट है वह उतना ही मार्मिक हुआ है और जो सामान्य हृदय की पहुँच के बाहर जा पड़ा उससे आध्यात्मिक स्वाद भले ही मिले, हृदय को समतल पर चलकर भावों का सार समन्वय नहीं मिल सका है। ओँसू की रचना भी मानसिक उद्देश की अवस्था में हुई जान नहीं पड़ती। उद्देश-काल में मनुष्य की भावनाएँ इतनी गहन तथा दूरारूढ़ नहीं हुआ करतीं। जब चित्त पर मे वेदना का भार हल्का हो जाता है, केवल उसकी स्मृति बनी रहती है तब उस वेदना की

विवृति में जीवन के सुखमय दृश्य की झाँकी भी मिल जाती है। ऐसी स्थिति में लोक से परलोक तक की हृदय-यात्रा कराने में थोड़ी सफलता मिल सकती है। जीवन को काठ्य में समाविष्ट करने की यही अवस्था है।

मानव जीवन - धेदी पर  
परिणय है विरह - मिलन का,  
दुख - दुख दोनों नाश्यों,  
है खेळ आँख का, मन का।

×            ×            ×

चेतना - लहर न उठेगी,  
जीवन - समुद्र घिर होगा,  
संध्या हो सर्ग प्रलय की,  
विच्छेद मिलन किर होगा।

जीवन के सुख-दुख, मिलन-विरह पर दार्शनिक हृष्टिकोण से विचार करना, मानव हृदय की परवशता है।

यौवन, प्रेम, चुंबन, परिरंभण आदि विलास-पञ्च की ओर भी प्रसाद की हृष्टि गई है और प्रकृति के क्षेत्र में कलियों की भद्र मुसकान, समीर की लपक-भपक, चंद्रमुख पर शरदघन का अवगुण्ठन, वसंत की मधुवर्षा, भूमती मादकता, लज्जा की लालिमा आदि के द्वारा अपनी भावनाओं को अभिभ्यक्त किया है। प्रसाद ने प्रकृति के मानव-सापेद्य रूप को ही लिया और हृदय की भावनाओं के अनुसार उसकी गति-विधि का वर्णन किया है। अपनी दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण प्रसाद प्रकृति को निरपेक्ष सत्ता नहीं दे सके, किंतु प्रकृति के जिस रूप को उन्होंने वर्ण्य माना

उसकी सर्गति का निर्वाह किया। उनकी अनुभूति में मनानिवेश तथा आत्म-सवेदन है। नारी-रूप तथा भाव के बर्णन में प्रसाद ने वडी सहदयता दिखाई है। उनके हृदय में जो प्रणयानुभूति थी उसकी व्यंजन की है, किंतु अपनी प्रकृति से गमीर, संयत तथा बुद्धिवादी होने के कारण लौकिक भावनाओं का अध्यात्मवाद के आवरण में दूरारूढ़ कर दिया है। यहाँ कारण है कि अपने अतज्जगत् का अभिभ्यक्त करने कलिष उन्होंने, रीति-कालीन कविया से अन्यथा, पार्थिवता के साथ बहुत कम संबंध रखा। प्रेम-कथा से उनको अनुराग था, पर इस कोलाहल-भरे ससार में नहीं, अनत नथा सांत के मिलन-स्थल त्रितिज में जहाँ की निर्जनता में, सागर की लहरें आकाश के कानों में निश्चल प्रेम-कथा कहती हो—

ले चल दहों भुजावा देकर  
मेरे नाविक। धीरे-धीरे  
जिस निर्झन में सागर-छद्दी  
अबर के कानों में गहरी  
निश्चल प्रेम-कथा कहती हो  
तज कोकाहल की अवनी रे।

कामायनी का प्रणयन प्रसाद के जीवन में एक महस्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मानव भावनाओं का यह एक गहन काठ्य है। श्रद्धा या रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को कल्याण-मार्ग से निर्विशेष आनंद-धारा तक पहुँचाती है और इडा या व्यावसायितमका बुद्धि कर्म-जाल में फँसाकर जीवन को अतिमध्ये तक पहुँचाने में वाधक होती है। वैदिक आख्यानों के आधार पर मानव संस्कृति के विकास का यह एक रमणीय वृत्त है। शैव मत के आनंदतत्त्व

पर इस काव्य की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की गई, किंतु इसकी अत-  
रंग व्याख्या तथा विवरण में कवि ने कोई एक निश्चित मर्यादा नहीं  
रखी। कामायनी में विराट् कल्पना, अगाध दार्शनिकता तथा सूक्ष्म  
मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ हैं। भावनाओं के विवेचन की प्रवृत्ति  
प्रसाद का एक मुख्य गुण है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, बासना,  
लज्जा आदि में तदनुगत भावनाओं का विशद् विश्लेषण किया गया  
है और घटनाक्रम को अत्र सर होने के लिए बहुत कम गति मिली  
है, परंतु इसके उत्तरार्द्ध में ईर्ष्या, इडा, स्वप्न, सघर्ष आदि से भावना-  
विकास प्रायः मद हो गया है और अपेक्षाकृत घटनाक्रम कुछ गति-  
शील हो चला है। काव्य के अत में इच्छा, ज्ञान तथा कर्म अर्थात्  
हृदय, बुद्धि तथा कर्म के सामजिक काव्यानन्द कर कवि ने मानव-  
जीवन को एक निश्चित मर्यादा दी है, परंतु अपनी रहरथात्मक  
प्रवृत्ति के कारण कामायनी में सर्वत्र लौकिक आधार नहीं रखा जा  
सका और इसी कारण, आँसू की तरह ही, हम इसमें समन्वित  
प्रभाव की प्रकृतपता कहीं-कहीं नहीं पाते। वैदिक भाष्यकार सायण  
के अनुसार—‘कामगोत्रजा श्रद्धा नामर्चिका’—श्रद्धा काम गोत्र की  
बालिका है और इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी  
कहा जाता है। कवि ने श्रद्धा के महत्व की प्रतिष्ठा के अनुकूल  
अपने काव्य-ग्रंथ का नामकरण भी ‘कामायनी’ किया, किंतु इडा  
के योग से जो कर्म-विधान दिखाया वह यदि श्रद्धा के सहयोग से  
भी दिखाया जाता तो जीवन का सौदर्य अधिक उद्घासित हो उठता।

श्रद्धा के साथ प्रथम मिलन के समय मनु ने जिस मधु-सिक्त  
वाणी का गुजार सुना उसका वर्णन यह है—

'कौन तुम ? संसृति-जलनिधि तीर  
तरंगो से फेंडा मणि एक  
कर रहे निर्जन का शुपचाप  
प्रभा की धारा से अभियेक ?  
मधुर विश्रात और एकात—  
अगत का उलझा हुआ रहस्य,  
एक बहुगामय सुंदर मौत  
और चचल मन का आलस्य !'  
हना यह मधु ने मधु गुंजार  
मधुकरी का - सा जब सामंद,  
किये सुख भीवा कमल समाच  
प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद;  
एक शिटका - सा लाला सहवं,  
विरहने लगे लुटे - से, कौन—  
गा रहा यह सुंदर संगीत ?  
कुतूहल रह न सका किर मौत।

: इडा के प्रथम दर्शन के समय कवि ने उसका वर्णन इस प्रकार किया है—

बिलर्ही भलके ज्यों दर्क - जाल  
यह विश्व मुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल  
दो पद्म पलाश घपक से हा देते अनुराग विराग ढाल  
गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश यह आमन जिसमें भरा गान  
वक्षल्पल पर एकद्र घरे संसृति के सब विज्ञान ज्ञान  
था एक हाथ में कर्म कलश बहुधा जीवन रस मार लिये  
दूसरा विचारों के नम को था मधुर अभय अदलेन दिये

निष्ठली थी त्रिगुण तरंगमयी, आळोक धसन लिपटा अराल  
चरणो में थी गति भरी ताल ।

भारतीय संस्कृति के प्रति समर्त्व का भाव प्रसाद की एक विशेषता है। कामायनी की रचना इस भाव के प्रदर्शन का लबलत उदाहरण है, लेकिन इसके पूर्व भी उन्होंने अपने कई नाटक तथा मुक्तक रचनाओं द्वारा भारतीय अतीत की झाँकियाँ ली हैं। अपनी मर्यादा से बाहर जाने पर उन्होंने बुद्धिवाद की विगर्हणा की है और पूँजीवाद से उत्पादित वैज्ञानिक सभ्यता के कारण मानव जीवन में जो विशृखलता-सी आ गई है उसका विरोध किया है। आरभ से अत तक प्रसाद भारतीय भावनाओं के एक प्रतिनिधि कवि रहे हैं, परंतु उनके प्रतिनिधित्व का ढंग सर्वत्र कवि के अनुरूप ही नहीं रहा, स्थान-स्थान पर वे स्पष्ट विचारक के रूप में उपस्थित हो गए हैं।

---

## सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' मिळांत के विचार से अद्वैतवादी हैं और ऐसे विषयों का अध्ययन-मनन भी उनका अच्छा है, पर यह रूप उनके विचारक का है। कवि-स्वरूप में निराला इतने कटूर सैद्धांतिक नहीं ठहरते। ब्रह्म और जीव के विवेचन के समय रूचनाओं में निराला के प्रायः द्वैत रूप ही दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु उनका वास्तविक रूप भी समय-समय पर स्वानुभूतिमूलक रचनाओं तथा अपने काव्यगत पात्रों की आट में प्रकट हुआ है। ब्रह्म आनन्द स्वरूप है, लेकिन जीव को भी आनन्द-स्वरूप बन जाने में जीवन की रसात्मक सार्थकता प्राप्त नहीं हो सकती। पचवटी-प्रसंग में निराला ने लक्ष्मण के सुख से इस विषय का स्पष्टीकरण कराया है।

सुधाधर की कला में अंश यदि बनकर रहँ

तो अधिक आनंद है

अथवा यदि होकर चकोर कुमुद नैशा गध

पीता रहूँ सुधा इदु-सिंधु से बरसती हुरे

तो सुख सुख अधिक होगा ।

इसमें स देह नहीं,

आनन्द बन जाना हेय है,

श्रेयान्कर आनंद पाना है,

वस्तुतः गुड बन जाने से ही गुड की मिठास नहीं मिल सकती। जीव भी यदि 'आह ब्रह्मास्मि' ही रटता रहे तो उसे साधना का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। काव्य का जो मूल तत्त्व हृदय की रसात्मक विभूति है उसका सामंजस्य अद्वैतवाद के साथ नहीं

बैठता । अपनी सैद्धांतिक शुष्कता को हटाकर निराला ने हृदय की भावुकता का अपनी इच्छाओं में स्थान-स्थान पर परिचय दिया है, किन्तु सर्वत्र ऐसी बात नहीं पाई जाती । उनके गीतों में भावानुभूति का त्रैत्र अत्यत सीमित हो गया है । कहीं-कहीं दार्शनिक तत्त्वों को हृदयग्राह्य रूप देने की चेष्टा बिलकुल नहीं की गई है । पञ्चवटी-प्रसंग में ही इसके अनेक उदाहरण हैं । जैसे—

झनो भाई,  
जिस प्रकार ज्यष्ठि एक घरती है सूखम क्षण  
बैसे ही समष्टि का भी  
सूखम भाव होता है ।  
रहते आकाश में हैं  
प्रकृति के तब सारे बीज ।  
और वह भी सत्य है कि,  
प्रकृति के तीनों गुण सम तथा हो जाते हैं,

हमारे जीवन के भीतर जो जीवन है, खंड में जो अखण्ड है उसका वर्णन एक समर्थ्या है । इस समर्थ्या के कारण हमारे अह-बोध की चेतना वास्तव से अवास्तव की ओर हमें ले चलती है । साधना-चिह्न जीवन में वह अवास्तव केवल अवास्तव ही बना रह जाता है, उसकी प्रतीति के द्वारा हमारे हृदय की रागिनी तन्मय नहीं हो पाती । वह एक गूढ़ तथा साध्य विषय की तरह हमारी बोधवृत्ति को चचल तो कर देता है, पर तृप्त नहीं कर सकता । निराला की कविता में हृदय-योग की अपेक्षा मस्तिष्क-योग का आधिक्य है । बुद्धितत्त्व की प्रबलता के कारण ही उनकी कविताओं में विचारों की इतनी सघनता रहती है कि वे प्रायः

दुर्बोध-सी लगती हैं। निराला एक भावुक कवि की अपेक्षा सार्किंग, विचारक तथा दार्शनिक ही विशेष हैं।

निराला के गीतों में रहस्यात्मक भावनाएँ अपनी प्रधानता रखती हैं, मित्र उनके सब गीत ऐसे ही नहीं। कोई-कोई गीत तो परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष जीवन के साथ ही अधिक सबध रखने वाले हैं। आध्यात्मिक चित्तन प्रवल रहने के कारण उनके साधारण गीत भी किसी-न-किसी रहस्य-भावना से अनुप्राणित मालूम पढ़ते हैं। उनके कुछ गीत प्रार्थना-प्रक हैं और कुछ केवल तथ्य-निरूपक। गीतों के आलबन कहीं अमूर्त हैं और कहीं मूर्ति। मूर्ति रूप में आदिशक्ति माँ के प्रति कवि की पूजा-बुद्धि अधिक जागरित है। 'हुआ प्रात् प्रियतम तुम जाओगे', 'तुम्हीं गती हो अपना गान, व्यर्थ मैं पाता हूँ सम्मान' 'प्रिया के प्रति', 'नयनों में हेर प्रिये' आदि गीतों तथा अन्य कविताओं में आलबन का स्त्रीत्व ही नहीं, कामिनीत्व भी फलकता है।

निराला के चित्त पर वैष्णव पदावलियों का सस्कार भी जाग्रत् है। लौकिक प्रणाय-मूलक वासना को लोकोनर भाव के मूल्य पर अभिव्यक्त करना निश्चय ही आत्म-प्रवचना है। वैष्णव पदावलियों में भी लौकिक तथा अवेद्य प्रणाय-वासना की कमी नहीं है, परन्तु वहाँ आध्यात्मिकता का भस्कार आरोपित कर उससे शक्ति-प्रहण किया जाता है। जीव को ब्रह्म की ओर अपनी चित्रवृत्ति को लगाए रखने के लिए जिस तीव्र मनोवेग की अपेक्षा की जाती है वह परकीया के अवैध प्रेम में ही समाधित माना गया है। श्रुति ने भी—तं च जारयिव—परपुरुष के मितन में ही उत्कट आकर्षण की स्थिति मानी है। पति-पत्नी का वैध प्रेम उत्तमा उन्मादकर

नहीं होता जितना उन्माद ब्रह्म को प्राप्त करने केलिए पर्याप्त माना जा सकता है। स्वामी विवेकानन्द ने अपने 'भक्तियोग' में वैष्णव पदावलियों की अवैध प्रणाय-भावना की आध्यात्मिक सार्थकता बताई है। उनके मतानुसार प्रायः भक्तगण भगवत्प्रेम का वर्णन करने केलिए मानवी प्रेम-भाषा का व्यवहार करते हैं। मूर्ख लोग इस वर्णन को नहीं समझते। जड़-हृषि से देखने के कारण इसे वे समझ भी नहीं सकते। भगवत्प्रेमी को पति-पत्नी के प्रेम से संतोष नहीं होता, क्योंकि वैसा प्रेम यथेष्ट उन्मादकर नहीं होता। इसलिए वह अवैध (परकीय) प्रेम-भाव ग्रहण करता है, क्योंकि वह अत्यंत प्रबल होता है। अवैध प्रेम की अवैधता उसका लक्ष्य नहीं होती। इस प्रेम की प्रकृति यह है कि वह जितना ही रोका जाता है उतना ही उद्य होता जाता है। पति-पत्नी का स्वकीय प्रेम वैध होने के कारण अवाध है। उसमें वाधाएँ और विघ्न नहीं हैं। इसी कारण भक्त कल्पना करता है कि मानो एक बालिका अपने प्रियतम परपुरुष पर आसक्त है, परंतु उसके माता-पिता और स्वामी इस अवैध प्रेम के विरोधी हैं। इस प्रेम में जितनी ही वाधाएँ ढाली जाती हैं उतना ही वह प्रबल भाव धारण करता जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने अवैध प्रेम की प्रबलता को ही भक्ति के राग का भापदड माना, उसकी अनैतिकता के अनौचित्य को न्याय नहीं माना। निराला के गीतों तथा शीर्षक-युक्त कविताओं में मानवोचित प्रेम-भाषा का बड़ा उन्मुक्त व्यवहार किया गया है, किंतु कवि के हृदय पर वैष्णव पदावली का संरक्षण ऐसे सघन रूप से प्रतिष्ठित नहीं है जिसके लिए आध्यात्मिक समर्थन की बहुत आवश्यकता समझी जाय।

प्रकृति की नाना वस्तुओं के विविध रूपों तथा व्यापारों को निराला ने मानवीय हृषिकोण से, लोकिक प्रणाय-वासना से सतम, बर्णित किया है। यदि प्रकृति-व्यापार को मानवीय अनुकरण पर चित्रित कर उसके रूप की अन्योक्ति कल्पना न की जाय तो कवि की अपूर्व मार्मिकता तथा महादयता का परिचय मिल भक्ता है। 'जुही की झली' तथा 'शरत्पूर्णमा की विदाइ' आदि कविताओं में अप्रस्तुत का वर्णन प्रधान न मानकर प्रस्तुत को ही वर्ण्य रखा गया है। यदि उन्हें मानवीय प्रणाय-चेष्टा के रूप का अप्रस्तुत-विधान माना जाय तो वे अन्योक्तियाँ हा जायेगा और तब कवि के हृदय में प्राकृतिक दृश्य के प्रति मार्मिकता शेष न रहेगी। यमुना के प्रति कविता में निराला ने अपनी भावुकता का अच्छा परिचय दिया है। यमुना के दृश्य-वर्णन में उसका अनुबंध संबंध तथा निर्दिष्टता का सम्यक् निर्वाह कर कवि ने उसे केवल वर्णन का उपलक्ष्य भाव नहीं रखा। कवि में प्रकृति के निरीक्षण की सूचमता और सहृदयता है, किंतु उनके पास यदि मानवीय परिविष्ट से बाहर जाकर प्रकृति के स्वतंत्र रूप-व्यापार को देखने की प्रवृत्ति भी रहती तो हिंदी काव्य में वे एक आदर्श की प्रतिष्ठा कर पाते।

छंद का त्याग या लय का अवलबन कर चलनेवाली कविताओं के साथ रहस्यवाद का कोई जातीय संबंध नहीं। रहस्यवाद काव्य-वस्तु के साथ संबंध रखता है और छंद या लय उसके अभिव्यक्ति-विधान से। हिंदी काव्य में रहस्यवाद तथा मुक्त छंद का प्रचलन प्रायः एक ही समय तथा एक ही प्रवृत्ति के कवियों के द्वारा हो जाने के कारण कुछ पाठकों ने दोनों को अन्योन्याभित समझ लिया और उन्हें मुक्त छंद में रचित शुद्ध

इतिवृत्तात्मक तथा वर्णनात्मक कविता से भी इहस्यवाद का भ्रम हुआ। छंद और कुछ नहीं, लय के आधार पर ही टिका हुआ नाद-विपान है। मुक्त छंद से भी जबतक लय का प्रतिबंध माना ही जायगा तबतक उसे मुक्त—सभी वधनों से मुक्त—नहीं माना जा सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पुराने वंधन की जगह नए वधन की व्यवस्था कर दी गई।

निराला की प्रसिद्धि का अधिकांश श्रेय उनकी नई छंद-व्यवस्था को है। भिन्न-तुकात कविताएँ पहले से ही रची जा रही थीं और संस्कृत का सारा काव्य-साहित्य ऐसा ही है, पर मुक्त छंद की रचना में निराला ने अपने अहुत साहस तथा विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। ‘जुही की कली’ शायद उनकी इस प्रकार की पहली रचना है। इस कविता में उनका अनोखा जिस तीव्रता के साथ व्यक्त हुआ है उससे स्वभावतः ही उसमें श्रुति-मधुरता उपनष्ट हो गई है। छंद में यथासंभव लय के अनुशासन की चेष्टा की गई है, किन्तु उनका अनुशासन इतना कठिन है कि साधारण गायक या पाठक के लिए वह व्यर्थ-सा हो जाता है। लथ या राग के अनुशासन से कविता को दीर्घायु प्राप्त होती है। निराला एक अच्छे गीति-कवि हैं, किन्तु यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि शाखीय हृषि से वे एक गीति-कवि की अपेक्षा गीतिकार ही अधिक हैं।

मुक्त छंद या स्वच्छंद छंद का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ निराला के ऊपर है और शायद इसी कारण कवि ने हिंदी पाठकों के समुख स्वच्छ छंद को लेकर उपस्थित होते समय मस्तिष्क में तर्क तथा हृदय में साहस मर लिया है। छंदों के नये विधान को

देखकर ही घबड़ाने या चिता करने की जरूरत नहीं हाती। यदि नये छद्म कवि की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में विशेष सुविधाजनक हो तो उनका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। छद्म-विधान में परिवर्तन होने पर समीक्षक को भी अपना हृष्टिकाण बदलना आवश्यक है, अन्यथा उससे न्याय की आशा कम ही रहेगी। व्यवस्थापक के अनुसार ही विचारक को अपनी समीक्षा का निर्वाह करना पड़ेगा ।<sup>१</sup> निराला ने अपने ऊपर दो भार लिये है—विधान बनाना तथा उसके अनुसार चलना। नीति-शास्त्र की हाष्टि में यह अभियोग्य स्वेच्छाचार है। ऐसी स्थिति में कवि के साथ समीक्षक का दायित्व भी बढ़ जाता है। सममात्रिक सात्यानुप्रास के सघाघ में विशेष कुछ कहना नहीं, क्योंकि इसके लिए निराला को हिंदी के लक्षण-ग्रथों की अनुमति मिली हुई है। मुक्त छंद में उन्होंने दो ढग की रचनाएँ की हैं—एक विषम-मात्रिक मात्यानुप्रास तथा दूसरा विषम-मात्रिक अंत्यानुप्रासहीन या पूरा स्वच्छ छद्म। इसी दूसरे प्रकार की रचना में काफी विलक्षणता है। प्राचीन गुरुदम से उत्पन्न प्रतिक्रिया ने निस्सदैह कवि को एक नवीन पथ का निर्माण करने तथा उस पर चलने की प्रेरणा दी, किन्तु इसके साथ ही प्राचीन गुरुदम से परिचालित वैदिक संस्कृत के मंत्र-श्लोकों ने ही—जिनकी पंक्तियों स्वच्छ छंद की तरह ही विषम-मात्रिक तथा अत्यानुप्रासहीन हैं—उनकी प्रतिभा के उपयोग का निर्देश किया। इस प्रकार निराला का स्वच्छ

<sup>१</sup> When the laws of poetry are changed, the critic, of course, has to begin again, the judiciary must administer what the legislature enacts.

छंद भी प्राचीन गुरुडम के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर का नहीं। केवल इतना ही कि वेदिक सास्कृत साहित्य में जो पद्धति आर्ष तथा भग्नपूतमानी जाती थी उसको निराला ने प्रतिक्रिया के आवेग तथा अपनी विलक्षण प्रतिभा के साथ हिंदी में उपस्थित कर दिया। निराला को इसका श्रेय आवश्य मिलना चाहिए। उनके विचार से किसी भी प्रकार का नियम बँध जाने से कविता कदापि मुक्त छंद नहीं हो सकती। मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रह कर भी मुक्त है। यह सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपने मुक्त छंद केलिए भी (प्राचीन गुरुडम के) छंद की भूमि में रहने की बात मानी है। अपने खच्छंद छंद में उन्होंने एक और प्रणाली रखी है जिससे कविता के किसी चरण का निराम अंत में ही न मानकर बीच में भी रिथर कर दिया जाता है। जैसे—

ज्योतिर्मय चारो आर  
परिचय लब अपना ही।  
स्थित मै आनंद में चिरकाल  
जाल-मुक्त । ज्ञानंषुष्ठि  
क्षीचिन-रहित । हृच्छा हुई सृष्टि की,  
प्रथम तरग वह आनंद-सिंषु में,  
प्रथम कपन में सपूर्ण बीज सृष्टि के,  
पूर्णता से खुला यै पूर्ण सृष्टि-शक्ति के,  
श्रिगुणात्मक रचे रूप,  
विकसित किया मन को,  
शुद्धि, चित्त, अहंकार, पंचभूत,  
रूप-रस तथा-रूपर्दा,  
काव्यज ससार यह,  
कीचियों ही अगिनित शुचि सञ्चिदानंद की ।

कवि ने जगत् और जीवन की वास्तविकता का सम्पर्श कर समाज के दलित तथा उपेक्षित पक्ष के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित कर प्रतिभा का सदुपयोग किया है। भिन्नुक के वर्णन में मार्मिकता का भाव अपूर्व है और इसके साथ ही उसके कहणा-जनक रूप का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। कवि ने अपनी रचनाओं में यथार्थता को निर्वासित नहीं किया है। प्रयोजन के अनुसार उनके अंतर्जगत् से वास्तविकता उद्भूत हो उठी है। ‘जागो फिर एक बार’, ‘महाराज शिवाजी का पत्र’ आदि रचनाओं से उनमें जातीय महत्व की रक्षा तथा वीरत्व की प्रतिष्ठा का भाव पाया जाता है। निराला को नई-नई उद्घावनाओं का उन्मेष है और उनको गति देने की भी यथेष्ट क्षमता है। उनके काव्य की एक मर्यादा है। उनके जीवन में व्यक्तित्व-बोध का तत्त्व जिस रूप में लक्षित है वह उनकी काव्य-रचना में भी प्रतिफलित है।

---

## जनार्दनप्रसाद ज्ञा 'द्विज'

जनार्दनप्रसाद ज्ञा 'द्विज' स्वानुभूतिमूलक कहणा के एक मार्मिक कवि हैं। अपनी तरल भावुकता को वाह्य प्रकृति की शुष्कता तथा संयम के नियन्त्रण के भीतर रखने की उन्हें अपूर्व क्षमता भी है। वेदना उनके जीवन का सार-सर्वस्व है। उनकी वेदना जीवन की शुद्ध वेदना नहीं, बल्कि उसमें जीवन के विलास का आकर्षण है। अपने विरह-दुख को ह्रदय के भीतर पालनेवाली पतिप्राणा नारी की तरह वे अपनी वेदना को आध्यात्मिक आवरण देकर सुख की सांस लेते हैं। उनकी वेदना जीवन की शाश्वत भावना है और किसी भी आकांक्षा की पूर्ति से उसका शमन नहीं हो सकता—

अमर वेदना ही हो मेरे

मक्कल छुबों का मीठा सार।

अपनी वेदना को अमरता का विशेषण देकर अपनी काठ्य-साधना के साथ-साथ उन्होंने उसे आत्म-साधना का भी विषय बना लिया है। द्विज की वेदना कविता में आत्मप्रवर्चना के रूप में नहीं देखी जा सकती। वेदना या पीड़ा ही उनका मूल काठ्य-द्रुढ़य है और उसके स्मृति-स्पर्श से ही उन्हें काठ्य-प्रेरणा होती है—

पुलक, कंपन की खा मटु चोट

सिंहर उठने प्राणों के तार।

साहित्य-साधना के लेत्र में द्विज व्यक्तिवाद की प्रधानता का समर्थन करते हैं और शायद इसी कारण व्यक्तिक अनुभूतियों के साधारणीकरण की आवश्यकता नहीं समझते। यह सच है कि "प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्दृष्टियाँ स्वतंत्र हुआ करती हैं और वे इतनी जटिल होती हैं कि उनके आधार पर सहसा किसी सार्वभौम

नियम की संस्थापना कर लेना असंभव है,” किंतु इसके साथ द्विज के कवि को यह भी मानना पड़ेगा कि शुद्ध वैयक्तिक अनुभूतियों ही काव्य के रूप में रसग्राह्य नहीं हो सकतीं। यदि कवि अपनी अनुभूतियों की सामानता अपने पाठकों तथा श्रोताओं के साथ रथापित न करे तो केवल व्यक्तिवैचित्र्यवाद से काव्य की रचना नहीं हो सकती। कवि की अनुभूतियों का जिस सीमा तक सावारणीकरण किया जा सकता है उसी सीमा तक वे रस-ग्राह्य बन सकती हैं। प्रत्यक्ष जीवन की विचित्रता को काव्य में समाविष्ट करना उचित नहीं माना जा सकता। किसी की प्रकृति का कोई अद्भुत मैनोवैज्ञानिक वैचित्र्य शास्त्रीय पद्धति का अपवाद ही हो सकता है, सर्वमान्य नियम नहीं। साहित्य या काव्य-साधना में व्यक्ति को कोई अद्भुत व्यतिक्रम उपस्थित करने का अधिकार नहीं। वह अविक-से-अधिक अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को लेकर, अपनी वैयक्तिक विशेषता के कारण उसके पद-विन्यास या प्रणाली पर ही प्रभाव ढाल सकता है। काव्य के रूप में मानव प्रकृति की किसी ऐसी विशेषता का ही प्रतिपादन किया जा सकता है जो विरल तो हो, पर विचित्र नहीं। विशेषता सदा विरल होती है और इसी तरह वैचित्र्य भी विरल ही होता है, किंतु विशेषता जीवन के राग-तत्त्वों का समन्वय रखकर चलती है और वैचित्र्य केवल हमारी जिज्ञासा-वृत्ति को प्रेरित करता है। राग-तत्त्व से ही काव्य-रचना होती है, जिज्ञासा-वृत्ति केलिए उसमें कोई अवकाश नहीं रह जाता।

“आज चारों ओर आशा-निराशा, हर्ष-विधाद, मिलन-विच्छेद, सफलता-असफलता आदि के भीषण दूँद चल रहे हैं

और प्रत्येक वर्ग का पूर्वपक्ष पराजित होता जा रहा है, उत्तर पक्ष को विजय मिलती जा रही है ।” इसी कारण शायद द्विज के जीवन में आनंद की सुष्टि नहीं हो सकती । विषाद वस्तुतः आरभ से ही उनका कविता का पोषक तत्त्व बनकर रहता आया है और आज भी वह वही है, लेकिन डमका परिणाम यह हुआ कि जीवन के एक ही स्थलप के प्रति हृषि रखने के कारण द्विज का काव्य-द्वेष बहुत सकीर्ण हो गया । जीवन में सत्य का प्रत्यक्ष पराजय कोई असभाव्य घटना नहीं, किंतु अंतिम रूप से उसको पराजित करना निश्चय ही असभव है । यदि जीवन में सत्य की सर्वत्र प्रत्यक्ष विजय हो होती जानी तो असत्य का पल्ला पकड़कर कोई विजय का स्वप्न ही क्यों देखता । द्विज प्रत्यक्ष के आग्रही हैं । वे जीवन के उस आध्यात्मिक स्थलप का देखने का कष्ट नहीं करते जहाँ पराजय का कुछ पता नहीं, केवल विजय-ही-विजय है । वे जीवन और जगत् में दुखों के अस्तित्व की उपेत्ता न करनेवाले कवि हैं जो आशावाद का मोहन छोड़कर भी निराशावादी बनते हैं ।

सुख और दुख या आनंद या विषाद की भिन्न-भिन्न सत्ताओं के संबंध में वेदांतिकों में भी मतभेद रहता आया है । कोई दोनों को नित्य और शाश्वत मानता है और कोई एक के अभाव में दूसर की स्थिति । यदि आनंद और विषाद दोनों की सत्ताएँ शाश्वत मानी जायें तो किसी भी कारण उनके अस्तित्व का बाध नहीं हो सकता । परिस्थिति के अनुसार वे न्यूनाधिक हो सकती हैं । द्विज अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जीवन में विषाद-तत्त्व को विशेष महसूब देते हैं, पर आनंद-तत्त्व का बाध नहीं करते । विषाद उनकी कविता का पोषक तत्त्व भी तभी तक रह सकता है जबतक वे

अपनी काव्य-प्रेरणा केलिए उसमें से ही आवश्यक आनंद उपार्जित न कर ले। लोग वेदना से रोते हैं, किन्तु इस प्रकार रोने में भी उन्हे आनंद न मिले तो वे अपने रोने के क्रम को कुछ देर तक भी न चला सकेंगे। आनंद के बिना उनके कवित्व की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यदि जीवन में वे आनंद-तन्त्र की सत्ता किसी रूप में भी न मानते होते तो अपनी कविता के सबध में ऐसा विचार न रखते कि रुदनशील प्रवृत्ति की इस प्रधानता के कारण उनकी काव्य-कला में एकाग्रिता आ गई है। इस एकाग्रिता शब्द से ही यह सकेत मिलता है कि जीवन में केवल रुदन-शील प्रवृत्ति ही नहीं होती, बल्कि उसका कोई दूसरा पक्ष भी होता है। कोई भी कवि लोक-जीवन की समस्त सामान्य भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। द्विज से भी हम ऐसी आशा नहीं रख सकते।

अभाव की पूजा तथा अपनी वेदना की विवृति में विशेष अनुरक्त रहने के कारण द्विज प्रकृति के भाव की पूजा करने में समर्थ न हो सके। जगत् में अभाव कुछ नहीं, भाव की सत्ता सर्वत्र पाई जाती है। दार्शनिक बाध की तरह अभाव भाव की सत्ता के बिनाश का दोतक नहीं हो सकता। जीवन की अपूर्णता जिस सीमा तक सत्य है, अभाव भी उसी सीमा तक सत्य माना जा सकता है, किन्तु जब जीवन अपनी सारी अपूर्णताओं को रखते हुए भी जीवन ही रहता है तब भाव अपने अभाव की स्थिति के रूप में भी भाव क्यों न बना रहे। द्विज अपने सुख-दुख की अपेक्षा रखकर ही प्रकृति का वर्णन करनेवाले कवि हैं, प्रकृति को मुख्य आलबन के रूप में ग्रहणकर चलने वाले कवि नहीं।

जीवन की सगति के अनुरूप ही प्रकृति के ऊपर अपने सुख-दुख को आरोपित करने की प्रवृत्ति प्रायः हिंदी कवियों की रही है। ऐसे कवियों की वेदना का ज्ञेय भी रत्न-भाव के ही अतर्गत रहता आया है। द्विज करुणा के कवि हैं और इसी कारण विरही या विरहिणी की तरह प्रकृति को भी केवल विरह-झात रूप से ही देखने की आवश्यकता समझते हैं। उनकी करुणा में वैयक्तिक जीवन को प्रधान स्थान प्राप्त है। उसमें न तो अखड़ मानवता केलिए स्थान है और न प्रकृति को ही अपनी सारी विभूतियों के साथ अट्टने की जगह। संस्कृत के कवि भवभूति ने काव्य में करुणा को जो महत्व दिया उसके भीतर उन्होंने प्रकृति को भी अपनी सीमा में प्रतिष्ठा दी, किन्तु द्विज की कवि-प्रवृत्ति में विषाद इतना घनीभूत है कि वह अपनी छाया के अतिरिक्त जगत् में दूसरी कोई सत्ता नहीं देख सकती। उनकी सारी रचनाओं में जिन दो-चार स्थलों पर आयास या अनायास भाव से प्रकृति के बर्णन हैं वहाँ प्रकृति को अपने स्वतंत्र रूप की मर्यादा नहीं मिली है। अपने हृदय की पूर्व प्रतिष्ठित वेदना की प्रबलता व्यंजित करने केलिए द्विज ने प्रकृति के विहँसते स्वरूप में भी उपहास का ही अवसाद पाया है—

नम के हन हँसते तारों का  
छिपा हुआ उपहास,  
फंक रहा मुक्ष निराधार को  
राजि-अनल के पास।  
  
विद्यति का कंसा निहुर विधान!  
हँड़ने चलूँ कहाँ परिश्रान?

शाथद उनके जीवन में कभी प्रकृति को भी स्थान प्राप्त था,  
पर अब उनका जीवन-उपवन उजड़ गया है और उपवन के उजड़ने  
के बाद ही उनके काव्य-देवता ने उसमें प्रवेश किया—

कलियों का यौवन बीता,  
अलियों के भाग बिलाये !  
मेरे उजडे उपवन में  
तब हो तुम हँसते आये ।

कवि के जीवन में जबतक प्रकृति शृगार करती थी तबतक  
उनका कवित्य मौत था । प्रकृति का शृगार हटते ही उनके जीवन  
में विषादमय उस परम तत्त्व ने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की । प्रकृति  
के उस पुराने साहचर्य ने भी कवि के जीवन में वोई गण उत्पन्न  
नहीं किया, प्रत्युत उपसे उनको मादक संप्रेदना ही मिली—

किसकी यह छवि, किसका सिंगार !

मिल रहा पुनः किस मधुकर्तु का  
जीवन - उपवन को यह मुलार !  
पा किस नद आशा से लुलास,  
खिल पड़ा प्रणय का मुकुल मौन !  
हमृति के निर्कुञ्ज में फूक उढ़ी  
यह तड़प - भरी कोकिला कौन ।

किसकी सौंसें थों सिहर - सिहर,  
करती मादकता का प्रसार !  
झुख - स्वप्नों का यह अमर लोक  
निरखूँ अब किससे नयन छीन !  
मेरा व्यारा सौभार्य - सूर्य  
छिप गया, हुआ थैं ज्योति - हीन ।

एवं उसकी ही यह मजुर पाद  
किर कौन दिक्षाता वार - वार !  
पाकर सोता हूँ सखत, कमी  
खोकर पाठेगा क्या न, हाय !  
भय है, यह मेरा मिलन क्षाज  
किर शाप विरह का पा न आय !  
क्या कहूँ ? छिंगा समता न भौर  
इस 'छाया - नट' से हृदय - हार !

द्विज के विषाद में घैयक्तिरुता का अधिक समन्वय रहने के  
कारण सूर्क्या को-सी विरह-वेदना की एकनिष्ठता तो आ गई है,  
परन्तु एकनिष्ठता का निर्धार करत हुए जीवन के विविध रसात्मक  
पक्षों को ओर उनकी हप्ते नहीं गई। उनकी फोली छोटी है, घैमव  
का अधिक भार उठा सकने की उसमें समर्थता नहीं। प्रकाश की  
भीख मौंगते उनको अवकार ही मिजता है, मिटु प्रकाश मौंगने  
की आकौशा तो दूर नहीं होती। अपनी अनुभूति तथा अतर्धर्वनि  
को आत्म-साधना के अनुरूप अभिव्यक्त कर सकने की क्षमि में  
यथेष्ट ज्ञाता है। विषाद-तत्त्व को अपनी काव्य-साधना का  
विषय अनाकर करणा का इतना घैमव विखेरनेवाला हिंदी में  
कोई दूसरा कवि नहीं। द्विन अपनी सीमा में एक बहुत ही  
मार्मिक कवि हैं।

---

## सुमित्रानंदन पंत

सुमित्रानंदन पंत आधुनिक युग के हिंदी कवियों में प्रकृति की रमणीयता पर मुग्ध होनेवाले सब से अधिक भावुक कवि हैं। बचपन से ही प्रकृति का उन्मुक्त साहचर्य प्राप्त रहने के कारण उनको प्रकृति के नाना व्यापारों में अपनी कवि-सुलभ अंतर्दृष्टि से काम लेने की अच्छी समर्थता मिली है। जीवन के अनेक अवसर पर, विविध प्रसंग पर प्रकृति के जो चित्र-विन्यास उन्होंने अपनी रचनाओं में उपस्थित किए हैं वे हिंदी काव्य-जगत् में अपूर्व और रमणीय हैं, लेकिन प्रकृति को देखने केलिए सदा उन्होंने अपनी एक ही अंतर्दृष्टि से काम नहीं लिया। प्रकृति के विविध स्वरूपों में सर्वत्र और सर्वदा अपनी भावनाओं की अभिभ्यक्ति का पूरा-पूरा सामंजस्य नहीं मिल सकने के कारण उन्होंने प्रकृति के निश्चल रूप का मानवोकरण भी कर दिया है। कहाँ-कहाँ मानवीकरण के अप्रसुत विधान की ओर अधिक आँखिंत रहने से प्रसुत की प्राकृत व्यंजना दूरालड हो गई है। कवि जब प्रकृति में अपने ऐंट्रीय प्रणयोद्धार तथा मनोनुकूल सौदर्य-रचना की कल्पना करता है तब हेत्वाभास के आधार पर प्रकृति को भी उसी स्तर पर लाने की चेष्टा करता है। चौंदती पर कवि के उद्घार हैं—

नीले नम के शतदल पर  
वह बैठी शारदासिनि,  
स्तु करतल पर शशिमुख धर  
नीरव, अनिमिष एकाकिनि।  
वह स्वप्न जहित न त चित्तवन  
झु लेती अग-जग का मन

इयामल कोमल चल चितवन  
 लहरा देती जग - जीवन ।  
 ×      ×      ×  
 दिन की आभा तुल्दिन बन  
 आयी निशि निमृत शोन पर,  
 वह छवि की छुई - छुई - सी  
 एदु मधुर काज से मर-मर ।  
 ×      ×      ×

दूसरे प्रसग पर चाँदनी के ही सबध में वे कहते हैं—

जग के दुख - दैत्य - शयन पर  
 यह रुठा जीवन बाला  
 रे कब से जाग रही, वह  
 आँसू की नीरव माला ।  
 पीली पड़, दुर्बल, कोमल,  
 कृश देह - लता कुम्हलाई  
 विवसना, लाज में लिपटी—  
 सौंसों में दूत्य - समाई ।  
 रे म्लाम, क्षंग रँग, थौवन  
 चिर मुक्त, सजल नत चितवन !  
 जग के दुख से जर्जर छर  
 वस धृत्य शेष अब जीवन ॥

जहाँ कहीं उन्होंने प्रकृति को मानवीकरण से निरपेक्ष होकर  
 चित्रित किया वहाँ वहुत ही रमणीय दृश्य-विधान उपस्थित हो  
 गया है—

पावस - ऋतु धी पर्वत - प्रदेश,  
 पल-पल परिवर्त्तित प्रकृति-नेत्र ।

मेखलाकार पर्वत अपार  
 धूपने सद्द्यु दग-सुमन फाड़,  
 अवलोक रहा है बार-बार  
 भीचे जल में निज महाकार,  
 —जिसके चरणों में पला ताल  
 दर्दण - सा कैला है विशाल !!

गिरि का गौरव गाकर क्षरक्षर  
 मद से नम-नस उत्तेजितकर,  
 मोती की छड़ियों से सुंदर  
 क्षरते हैं क्षामर निष्ठर ।

गिरिहर के ऊर से उठ-उठकर  
 उच्चाकांक्षाओं - से तस्वर  
 है झोक रहे नीरव नभ पर,  
 अनिमेष, अटल, कुछ चितापर !

—उड़ गया, अचानक, लो, भूधर  
 फड़का अपार पारद के पर !  
 रव-शेष रह गए हैं निष्ठर !  
 है दृष्ट पड़ा भू पर अंबर !

धूस गए धरा में सभय शाल !  
 उठ रहा धुआ, जल गया ताल !  
 —यों जलद-यान में विचर-विचर,  
 था दृढ़ खेलता इन्द्रजाल !

पंत ने प्रकृति में एक शक्ति तथा रहस्य को देखा है। उनके वर्णन में सूचमता तो है, किंतु प्रकृति के व्यापार का वर्णन अप्रस्तुतः विधान की साम्य-भावना के आधार पर हुआ है। प्रकृति के

विविक्त स्वरूप को सर्वत्र महस्त्र न दे सकने का कारण उनकी कथि-सुलभ भावुकता ही है। फिर भी वे मर्वाधिक प्रकृति-प्रेमी रुद्धि हैं।

पत को नारी-रूप के प्रति महज आकर्षण है। भोग्य-रूप में नारी का साधारणतः सौदर्य-विधान किया जाता है और पृज्य रूप में उनका महस्त्र-विधान। मातृ-सुख में वचित रहने के दुर्भाग्य का निराकरण करने केलिए उनके कवि ने बालिका बनकर माँ से स्नेह-सलाप किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में सखियों तथा मजनिया के साथ हिल-मिलकर भावनाओं की कामलता प्राप्त की है। नारी-रूप के प्रति अधिक आकर्षित होने का कारण वासनात्मक प्रणयोद्धार की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अपनी भावुक तथा कोमल प्रकृति का सामजस्य रखना भी मालूम पड़ता है। किसी प्रथध-विधान के अतर्गत प्रसंगप्राप्तरूप से लियोचित अभिव्यक्तियाँ जितनी स्वाभाविक हो सकती हैं उन्हीं में नहीं। कविता के समग्र रूप को नारी की अभिव्यक्ति के रूप में उपस्थित करना और वह भी पुरुष रचयिता होकर, उनकी कवि-प्रकृति की स्त्रैणता ही प्रमाणित करता है। पत ने कोमलता के आग्रह से ही ऐसा किया है।

पत की गीति रचनाओं में अनुभूति की तीव्रता उतनी नहीं पाई जाती जितना उनमें कल्पना का प्रसार है। गीति काव्य में कवि की अनुभूति तथा भनोनिवेश ही प्राण-स्पदन करता है। कवि की भावुकता अपने कल्पना-सूत्र को कभी-कभी इतना अधिक विकसित कर देती है कि कहीं-कहीं उनकी रचनाएँ, कुछ ज्यादा

पानी मिले शरवत की तरह, नीरस मालूम पड़ती हैं। ज्ञाणिक तथा क्षीण अनुभूति को भी कल्पना के वितान पर चढ़ा-बढ़ाकर रमणीय बना देने की कला पत में अद्भुत है, किंतु अपनी इस कला के साथ-साथ यदि वे अपने हृदय को भी लेते चलते तो वास्तव में पंत के रूप में हिंदी को एक अपूर्व कवि प्राप्त होता।

राष्ट्रीय नव जागरण ने भी पंत के चित्त को प्रभावित किया लेकिन उनकी रचनाओं में इसका कोई जाग्रत् स्वरूप लक्षित नहीं होता। प्रकृतिवाद की एकनिष्ठा को क्रमशः अग्रसर करते हुए जब वे मानवतावाद की सीमा पर जा पहुँचे तब कुछ लोग कहने लगे कि पंत साम्यवादी-सा विचार रखने लगे हैं। वरतुतः कोई कवि न तो गांधीवादी होता है और न साम्यवादी। कवि-रूप में वह किसी भी ‘वाद’ के साथ स्पष्ट सबध रखकर अपने काव्य की मर्यादा का निर्बाह नहीं कर सकता। पत का ध्यान देश के उन द्वीन-हीन कृषक-श्रमजीवियों के दशा-वर्णन पर आकर्षित हुआ है। कवि के नाते यह स्वाभाविक ही है। काव्य के अंतर्गत विभिन्न शाखा-पञ्चतियों के रूप में जितने ‘वाद’ चल रहे हैं उनसे मुक्ति पाकर राजनैतिक ‘बादों’ से प्रभावित हो प्रधादी बन जाना, किसी भी कवि के लिए शोभनीय नहीं माना जा सकता। मानवता के हित-विचार से अपनी काव्य-रचना के दृष्टिकोण में वस्तु-विन्यास का कुछ दिशा-भेद करना, असंगत नहीं है। पंत ऐसे ही एक कवि हैं। मानवता की पुकार पर द्रवित होना कवि का धर्म है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने कवि के चित्त पर जो मुद्रा अंकित की वह ‘बापू के प्रति’ स्पष्ट हो गई है। गांधीवाद तथा साम्यवाद दोनों की परिणति प्रायः एक ही लक्ष्य-बिंदु पर होती है, भेद है

केवल प्रक्रिया और दृष्टिकोण का । पत ने अपनी सहजभावुकता के अनुसार मानवता के परित्राण की कामना की है । मेरी समझ से पंत की आध्यात्मिक तथा आस्तिक बुद्धि साम्यवाद को विदेशी आवरण में अपने सम्मुख उपस्थित न होने देगी । युगात तथा युगवाणी की रचना के पहले से ही पत को मानवता में समानता का भाव आ गया था । उनकी रचनाओं के अध्ययन से यह बात स्पष्ट लक्षित हो जाती है । अपने गुंजन में उन्होंने लिखा है—

जग पीड़ित है अति दुख से,  
जग पीड़ित रे अति दख से,  
मानव जग में बैठ जावे  
दुख-दख से भी दख-दुख से ।  
अविरत दुख है उत्तीड़न  
अविरत दख भी उत्तीड़न  
दुख-दख की निशा-दिशा में  
सोता जगता जग - जीवन

अपनी 'ज्योत्स्ना' में उन्होंने एक स्थान पर 'आनन्द-दख की चिता से मुक्त, स्वस्थ, साक्षर, सिद्ध कृषकों, श्रम-जीवियों एवं ध्यवसायियों के नर-नारियों एवं बालक-बालिकाओं का चटकीले रगों के बख्ख पहने, गीत, वाद्य, नृत्य, ध्यंग्य, विनोद-पूर्वक वसतोत्सव मनाते हुए धीरे-धीरे प्रवेश' कराया है । वे सम्मिलित स्वर में गाते हैं—

गुंजे अध्यवनि से आसमान  
'सब 'मानव-मानव' हैं समान' ।

निज कौशल, मति, हङ्गानुकूल  
 सब कर्म-निरत हों भेद भूल  
 वैधुत्व - भाव ही विश्वमूल,  
 सब एक राष्ट्र के उपाधान  
 ×           ×           ×  
 सब श्रम, उद्यम गौरव प्रधान  
 सब कर्मों का हो उचित मान  
 सब कर्मों में हो एक गान—  
 मानव - मानव सब है समान

पंत अपने भावना-क्षेत्र को विकसित कर चलनेवाले प्रगति-शील कवि हैं। उनमें सांप्रदायिक प्रगतिशीलता की भावना नहीं आ पाई है जिसकी अभी धूम मचाई जाती है। वे जाग्रत् कवि की तरह युगधर्म के अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं। मानव-जीवन में जो रुद्धिग्रस्त तथा जीर्ण-शीर्ण पक्ष हैं उनका सहारकर वे नवयुग की मदिरा से मत्त होना चाहते हैं—

दुत क्षरो जरात के जीर्ण पत्र !  
 हे क्षस्त ध्वस्त ! हे शुष्क शीर्ण !  
 हिम ताप पीत, मधुवात भीत,  
 हुम वीतराग, जड़, पुराचीन !!  
 निष्प्राण विगत युग ! मृत विहंग !  
 जग नीड़ शान्द औँ शासहीन,  
 च्युत, अस्तव्यस्त धन्दों से हुम  
 क्षर-क्षर अनंत में हो विलीन !  
 ×           ×           ×  
 मंजरित विश्व में यौवन के  
 जग कर जग का पिक, मतवाली

निज अमर प्रणय स्वा-मदिरा से  
भर दे फ़िर नवयुग की प्याली ।

पंत सुख-दुख से निरपेक्ष रहकर समान भाव से उनके महत्त्व  
को जीवन में स्वीकार करते हैं, किन्तु समय-समय पर उनकी  
रचनाओं में दुख तथा सुख की प्रधानता स्पष्ट रूप से अकिञ्चित  
होती रही गई है—

विना दुख के सब इल निम्सार,  
विना आँसू के जीवन भार  
दीन, दुर्बल है ते समार,  
इसी से दया, क्षमा औ' प्यार ।

और—

विद्योगी होगा पहला कवि  
आह से उपजा होगा गान  
उमडकर आँखों के तुपचाप  
बही होगी कविता अनजाम ।

जीवन में वे केवल दुख को महत्त्व ही नहीं देते, प्रत्युत इस  
सारी सृष्टि को ही अशांति की जड़ समझते हैं—

हाय गी दुर्बल प्राति ।  
कहाँ नश्वर जगती में शांति ।  
सृष्टि का ही तात्पर्य अशांति  
जगत् अविरत जीवन-समाम  
स्वप्न है यहाँ विराम ।

इस प्रकार पंत जीवन और जगत् में दुख तथा अशांति को  
गौण नहीं मानते और इसके साथ वे जीवन में शाश्वत उज्ज्वास को  
भी दूर नहीं छोड़ते—

जग - जीवन नित नव - नव  
 प्रति विन प्रति क्षण उत्सव  
 जीवन शाश्वत धर्म  
 अगणित कलो कुछम दृष्ट  
 सौरभ, छुख, श्री अनंत ।

इतना ही नहीं जीवन और जगत् की रमणीयता पर उल्लिखित होकर उमंगभरी वाणी में बे कहते हैं—

जग-जीवन में उषास सुधे  
 नव आशा नव अभिलाष सुझे ।

इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार ही जगत् और जीवन में बे सुख तथा दुख को प्रधान या गौण मानते हैं । कुछ कवि ऐसे हैं जो जीवन-पर्यंत केलिए दुख या सुख के साथ अपना ग्रंथिबंधन कर लेते हैं और उनकी सारी रचनाओं में एक ही स्वर बजाता है । पंत में यह विशेषता है कि बे जीवन में दोनों के महत्व को स्वीकार करते हैं और परिस्थितिवश उनसे प्रभावित होते हैं ।

पंत के समान शब्द-विन्यास में सुरुचि का निर्माण करनेवाला कोई दूसरा कवि नहीं । उन्हें शब्दों की प्रकृति तथा उनकी अर्थशक्ति को पहचानने का विवेक है, किन्तु कहीं-कहीं उन्होंने शब्दों से बलात् अर्थ-व्यक्ति का भी काम लिया है । अँगरेजी लाक्षणिक वैचित्र्य तथा चित्र-विन्यास को हिंदी काठ्य में प्रवेश कराने का काम जितना पंत ने किया उतना किसी ने नहीं । सरल तथा सरस पद्योजना के रूप में उन्होंने अपनी भावना को अभिव्यञ्जित किया है । सौंदर्य-प्रेमी होने के नाते उन्होंने काठ्य-भाषा को

मनोरम बनाने में एक कृतविद्य साहित्य-शिल्पी का काम किया है। अभिव्यजनावाद की विभिन्न प्रवृत्तियों के दिक्कदर्शक वैचित्र्य-विन्यास, अलकार आदि का निर्वाह पत की बड़ी विशेषता है। उनकी काव्य-वस्तु में रहस्य-भावना के जो सकेत मिलते हैं वे पहाड़ी पगडियों की तरह सर्वत्र दुर्बोध तथा दुर्गम नहीं हैं। पत ने प्रकृति के उस परम तत्व में जो रहस्य देखा उससे अधिक जीवन में उसका विधान नहीं किया। उनकी रचनाएँ कहूर रहस्य-वाद की रचनाएँ नहीं हैं जो अपनी रहस्यता के आग्रह के वशीभूत होकर इतनी दुर्गम हो जाती हैं कि 'सांत' जगत् से बाहर होकर 'अनंत' में ही उनकी अर्थ-व्यक्ति हो सकती है। पत का कवि प्रबन्धना के पथ पर चलकर अपनी अनुभूतियों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। उनके भाव तथा विचार जटिल नहीं, प्रत्युत सरस तथा सरल हैं। जीवन और जगत् को वे आदर्शवादी हृषि से देखते वाले कवि हैं।

मैं प्रेसी उच्चावशीं का  
संस्कृति के स्वरिक स्पर्शों का,  
जीवन के हृष्ट-विमयों का,  
लगता अपूर्ण मानव-जीवन,  
मैं हृष्टा से उन्मत्त, उन्मत्त !  
जग-जीवन में उल्लास मुझे,  
नव आशा, नव अमिलाप मुझे,  
ईधर पर चिर विश्वास मुझे,  
वाहिए विश्व को नवजीवन,  
मैं आकुल रे उन्मत्त, उन्मत्त !

## रामधारी सिंह 'दिनकर'

रामधारी सिंह 'दिनकर' के हृदय में अतीत का बड़ा प्रबल आग्रह है। जिस दिन उनके हृदय में हिमालय फूटा उसी दिन से उनकी प्रतिभा ने एक नई दिशा की ओर गति की। अतीत गौरव की स्मृति तथा खेड़हरों के प्रति दिनकर ने जिस भावुकता का परिचय दिया वह अप्रतिम है। भारत के उन अवशिष्ट स्वरूपों के साथ भारतीय जीवन की जो भाव-धारा प्रवाहित होती रही है उसमें कवि ने अपनी भाव-प्रवर्तिनी शक्ति से तरंगें उत्पन्न की हैं, लोक-हृदय की अंतर्भूमि को अपनी मार्मिक बाणी से अनुकंपित किया है। प्राचीतिहासिक या ऐतिहासिक काल से ही जो हमारे सुख-दुख के सहचर रहे हैं उनको हृदय-प्राण रसात्मक रूप देने का यह अच्छा प्रयास किया गया है। हिमालय के प्रति कवि के हृदय में जिन-जिन भावनाओं का उदय हुआ है वे स्पष्ट हैं—

मेरे नगपति ! मेरे विशाल !  
लाकार, दिव्य, गौरव विराट !  
पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल !  
मेरी जननी के हिम-किरीट !  
मेरे भारत के दिव्य भाल !  
मेरे नगपति ! मेरे विशाल !  
युग-युग अजेय, निर्बंध, मुक्त,  
युग-युग गर्वोन्नत, वित महान  
निस्सीम व्योम में रान रहे,  
युग से किस महिमा का विशान !

## अतदर्शन

कैसी अखंड यह चिर-समाधि ?  
 यतिवर ! कैसा यह अमर ध्यान ?  
 तू महाशून्य में स्वोज रहा  
 किस जटिल समस्या का निवान ?  
 उलझन का कैसा विषम जवाल  
 मेरे नगपति ! मेरे विश्वाल !

×            ×            ×

कितनी मणियों लुट गई, मिटा  
 कितना मेरा धैर्य अशेष !  
 तू ध्यान-मम ही रहा, इधर  
 धीरान हुआ प्यारा त्वदेश ।  
 कितनी द्रुपदा के बाल खुले,  
 कितनी कलियों का अत हुआ,  
 कह हृदय खोल चित्तौर ! यहाँ  
 कितने दिन जवाल धसत हुआ !

×            ×            ×

तू पृथु अवध से राम कहों ?  
 वृंदा ! बोलो घनश्याम कहों ?  
 ओ माध ! कहों मेरे अशोक ?  
 वह चन्द्रगुप्त बलधाम कहाँ ?  
 पेरों पर ही है पदी हुई  
 मिथिला भिजारिणी छक्कमारी,  
 तू पृथु, कहाँ ड़सने सोई  
 अपनी अनंत निधियों सारी ?  
 री कपिलवस्तु ! कह हुद्देव  
 के वे संगल - उपदेश कहाँ ?

सिंहत, हरान, जापान, थीन  
कहे गये दुए लदेश कहाँ ?  
बैशाली के भग्नावशेष से  
पूछ लिच्छवी-शान कहाँ ?  
ओरी उदास गंडकी ! असा  
विद्यापति कवि के गान कहाँ ?

×      ×      ×

हिमालय दिनकर की काव्य-रचना का मेरुदंड है। उनके चित्त पर हिमालय ने जिस संस्कार को विकसित किया वह उसकी नस-नस मे फैल कर ही रहा। उनकी अधिकांश रचनाओं में हिमालय, गंगा, गंडकी, सतलज, नालदा, बैशाली, कपिलवर्षु, दिल्ली आदि की स्मृति न भूली जा सकी। भारत के इन मार्मिक स्त्रूपों की ओर इस प्रकार दृष्टि ले जाने का काम पहले-पहल दिनकर ने ही नहीं किया, आज से प्रायः ६० वर्ष पहले भारतेन्दु हरिरचंद्र ने भी राष्ट्रीय नवजागरण काल मे अपनी रचनाओं में काशी, प्रयाग, अयोध्या, पंचनद, चित्तौड़ आदि का मार्मिक संबोधन किया था।

१ दिनकर के हिमालय-जन्म के प्रायः ५० वर्ष पहले भारतेन्दु का भारत-भारथ भारत को दुर्देश की ओर निद्रा से जगाते-जगाते थककर उदास हो कहता है—

भारत के भुजबल जग रक्खित ।  
भारत विद्यालहि जग सिञ्छित ॥  
भारत तेज जात विस्तारा ।  
भारत भय कंपत सप्तारा ॥

×      ×      ×

दिनकर के हृदय में जो उमंग और उत्साह है वह भारतेंदु की रचना में उद्भासित नहीं होता। ऐतिहासिक या राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति में अभी जैसी निर्विधता है वैसी उस समय नहीं थी। भारतेंदु-काल से चलती हुई हिंदी-कविता की इस परपरा को दिनकर ने नया जीवन दिया। अपनी भावना और कल्पना का आश्रय देकर भारतीय अतीत को कवि ने सजीव कर दिया। दिनकर की कवि-दृष्टि के बल भारत की भौगोलिक सीमा तक ही रुकी न रही, मेघरंध में रागिनी बजाते समय वह जर्मनी, जापान, शांघाई आदि सुदूर स्थानों तक भी पहुँची है।

दिनकर के हृदय में भावना-संपत्ति का जो सचय है वह यथेष्ट है। भावना के एक केंद्र-विद्व पर ठहरकर उनके ग्राम्य जीवन के अनुभव तथा ऐतिहासिक स्मृति ने कल्पना के बल पर

ते कलंक सब भारत केरे ।  
 ठाडे अजहुँ लखो धनेरे ॥  
 काशी प्राग अयोध्या नगरी ।  
 दीन रूप सम ठाडी सगरी ॥  
 चढालहु जेहि निरखि धिनाई ।  
 रहीं सबे भुव सुँह मसि लाई ॥  
 हाय पंचनद द्वा पानीपत ।  
 अजहुँ रहे तुम धरनि विराजत ॥  
 हाय चित्तौर निलज तू भारी ।  
 अजहुँ खरो भारतहि मझारी ॥

×            ×            ×

—भारतेंदु हरिश्चन्द्र—भारत-दुर्दशा, पृ० ३२ ३४।

बाणी का अच्छा वैभव दिखाया है। स्मृति ज्ञातकेत्र के बाहर नहीं जा सकती, किंतु जीवन का अनुभव अपनी मर्यादा के अनुसार जीवन के सभी ज्ञात तथा अज्ञात क्षेत्रों में प्रसारित हो सकता है। कवि की कल्पना का प्रसंग जब उद्वेलित होता है तब जल्द वह रुकता भी नहीं। यही कारण है कि दिनकर की अधिकांश कविताएँ, कहीं-कहीं आवश्यकता से अधिक, लबी हो गई हैं और जो इस प्रकार लबी हुई हैं उनमें प्रायः एक ही प्रकृति का काव्य-द्रव्य है। ऐसी कविताओं में भाव-संपर्कत्व का गुण स्थाभाविक रूप से आ गया है, पर कहीं-कहीं ऐतिहासिक उल्लेखों के गूढ़ प्रसंग-गम्भीरत्व के कारण साधारण पाठकों की रस-ग्राहिणी कल्पना विस्तृत क्षेत्र में फैल नहीं पाती।

दिनकर को जीवन के किसी गूढ़ तथा अन्य मार्मिक पक्ष को देखने की न अंतर्दृष्टि है और न वैसी प्रवृत्ति। ‘बालिका से बधू’ के वर्णन में कवि की बहुत आत्मीयता भलकती है, किंतु बधू के हृदय की भावनाओं के अंतर्दृढ़ की व्यंजना का अच्छा प्रसंग पाकर भी कवि ने अनुभाव के बाह्य रूप पर जितनी हृषि रखी उतनी उसके विभावत्व पर नहीं। प्राकृतिक हश्यों के प्रति हृदय का जो संबंध संस्कृत कवियों ने स्थापित किया था उसकी परंपरा हिंदी काव्य में न चल सकी। दिनकर को भी प्रकृति के नित्य नवीन रूप के प्रति अनुराग नहीं है। प्रकृति के नाना रूप और ड्यापार में केवल अतीत गौरव की याद दिलाना, उसके प्रति ज्ञोभ, उपालंभ तथा भत्सेना प्रकट करना अपनी भावना को संकुचित करना है। निरपेक्ष प्रकृति-दर्शन की प्रवृत्ति दिनकर में बहुत कम है। प्राकृतिक हृथ्य-वर्णन के उपलब्ध से अपनी भावना

को दूसरे क्षेत्र मे अभिव्यक्त करने की जो एक काव्य-परिपाटी रही है वही दिनकर का लद्य है। प्रकृति के नाम पर दिनकर की लेखनी उठती है, पर उसमे उनका हृदय रमता नहीं, अतीत दर्शन की लालसा से क्रम-भग हो जाता है। 'वसत के नाम पर,' 'वन फूलों की ओर' आदि रचनाओं मे कवि की कल्पना सचेष्ट तथा एकनिष्ठ नहीं रह सकी है। कवि के हृदय मे वसत की उमग जगी और उनकी—

कषम उठी कविता लिखने को  
अतस्तु भै ज्वार उठा रे ।  
सहसा नाम पकड़ कायर का  
पश्चिम पवन पुकार उठा रे ।  
देखा शूल्य कुँबर का गड है,  
झोंसी की बड़ शान नहीं है,  
दुर्गादास, प्रताप बली का  
प्यारा राजस्थान नहीं है,—

और इसी प्रकार कवि की स्मृति-विधायिनी कल्पना अप्रसर होती गई। कुछ लग्न के बाद फिर जब वसत की याद आई तब इसी कविता के प्रसग मे वे कहने लगे—

हाँ, वसत की सरस घड़ी है  
जी करता मे भी कुछ गाँड़  
कवि हूँ आज प्रकृति-पूजन में  
निज कविता के दीप जलाऊँ ।  
क्यों गाँड़ ? सतलज रोती है  
द्वाय ! खिलो वेलियाँ किनारे

मूल गण क्षतुपति, बहते हैं  
 यद्याँ रघिर के दिव्य पनारे ।  
 बहनें चीख रहीं राधी-तट  
 ब्रिलख रहे बच्चे मतधारे,  
 फूल-फूल से पूछ रहे हैं—  
 'कब लौटेंगे पिता इमारे ?'

इम प्रकार दिनकर प्रकृति के साथ अपनी तन्मयता न दिखा सके । लेकिन देश के अतीत गौरव, उसके खड़हर, दीन-दुखी भूखे किसान-मजदूर, हरे-भरे धन-खेत, खतिहान, हरी-भरी दूब, गांव के चौपाल पर उनकी कवि-हृषि भिन्न-भिन्न रचनाओं के रूप में पहुँची है । दिनकर प्रगतिशीलवादी नहीं, किन्तु स्वाभाविक रूप से एक प्रगतिशील कवि हैं । भारत की राष्ट्रात्मा के मर्म को स्पर्श करने की जैसी ज्ञानता दिनकर में दिखाई पड़ रही है वैसी किसी दूसरे कवि में नहीं मालूम होती । भारतीय लोक-जीवन के सम्मुख राष्ट्रीयता का रसात्मक स्वरूप उपस्थित करने की आशा दिनकर से की जा सकती है । उनका भविष्य इसी संभावना पर बहुत-कुछ निर्भर करता है । अपने देश के दलित पक्ष को ऊपर उठाने के लिए वाणी में जिस संयम तथा दर्पे की आवश्यकता है वह दिनकर में पर्याप्त मालूम पड़ती है—

उठ थीरों की भावरगिणी दलितों के दिल की चिनारारी,  
 युग-मर्दित धौधन की उचाला जाग-जाग री क्रांति-कुमारी  
 लाखों क्रौच कराह रहे हैं जाग आदिकवि की कल्याणी  
 फूट-फूट तू कवि-कंदों से बन व्यापक निज युग की धाणी

आदिकवि की कल्याणी—कविता देवी—को जगाने के लिए लाखों क्रौचों की बेदना का अर्थ-गमित उल्लेख करना कवि की सहजता है, किंतु इतना ही नहीं, कवि की वाणी में चमता भी है और इस चमता को कवि ने अपनी वाणी में बड़े दर्प के साथ व्यक्त किया है—

छन् मे मिथु स्या गर्जन तुम्हारा ?  
स्वयं युगधर्म की डुकार हूँ मे ।

---

## महादेवी वर्मा

संसार में कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिन्हे हम बहुत प्यार करते हैं, किन्तु अपने प्यार की प्रतिष्ठा केलिए कोई तर्क नहीं दे सकते। पुष्प का सौदर्य हमें रमणीय मालूम पड़ता है, चॉदनी हमें प्रिय मालूम होती है, परंतु उनकी प्रियता का कोई स्पष्ट कारण नहीं मालूम हुआ रहता है, केवल इतना ही कि उनमें आकर्षण है। शुद्ध सौदर्य का तत्त्व कुछ ऐसे ही उपादानों से बना होता है जो हमारे हृदय को प्रलुब्ध तो बना देता है, पर तर्क को प्रबुद्ध नहीं करता। हृदय के साथ उनका कुछ-न-कुछ सांस्कारिक सबध रहता है जो अज्ञात रूप से अपनी स्थिति को प्रकट करने की चेष्टा करता है। जड़ और चेतन की सृष्टि में इसी कारण वह छैध नहीं रखा गया जो साधारणतः ऐसी स्थिति में रखा जा सकता था। इसी कारण जड़ और चेतन, दोनों, के युगपत् आविर्भाव को ही सृष्टि कहते हैं। वस्तु और भाव, स्थिति तथा प्रक्रिया के भेद को मानते हुए, एक ही हैं। महादेवी वर्मा को वेदना प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता केलिए उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं जो स्पष्ट हो। व्यक्ति का जीवन ऐसे ही रहस्यमय तत्त्वों से निर्मित होता है जिन्हें हम समूल अभिभ्यक्त नहीं कर सकते। महादेवी ने अपनी वेदना की प्रियता के सबंध में जिन कारणों का उल्लेख किया है वे पर्याप्त तो क्या, युक्तिसंगत भी नहीं हैं। उनके जीवन में बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिलने की प्रतिक्रिया से वेदना प्रिय नहीं मालूम हो सकती। प्रतिक्रिया हृदय की इच्छित वृत्ति नहीं होती और काव्य में स्वाभाविक वृत्तियों के

निना रमणीय अभिव्यक्ति समव नहीं। यदि महादेवी की सारी काव्य-रचनाएँ, जैसा कि उन्होंने लिखा है, अतिशय प्यार, दुलार की प्रतिक्रिया के कारण ही वेदना-घुल हैं तो उनका मर्म किसी कवयित्री का मर्म नहीं हो सकता। किंतु, यह बात नहीं है। महादेवी एक सफल कवयित्री हैं और उनके पास कवि-सुलभ एक सवेदना-पूर्ण हृदय भी है।

जीवन में सुख के उपभोग के समय हृदय म्यार्थी रहता हे और दुख के सहन-काल मे प्रायः वह उदार हो जाता है। उदारता कथि-प्रकृति है। अपनी जिन उदात्त वृत्तियों के कारण कवि जनता की सहानुभूति को आकर्षित करता है उनके प्रति उसका ममत्व स्वाभाविक है। जगत् और जीवन की कहणा प्राप्त करने केलिए अपना वैभव भी लुटाना पड़ता है। जिस कहणापूर्ण दुखबाद के ऊपर बौद्ध दर्शन की प्रतिष्ठा हुई उसके संकेत यत्र-तत्र महादेवी की रचनाओं में भी मिलते हैं, किंतु इतना तो स्पष्ट मानना पड़ेगा कि जिस अगाध कहणा तथा निराशा से प्रेरित अनात्मवादी बौद्ध दर्शन पच-संधं को ही आत्म-सङ्क्रक मानने को बाध्य हुआ वह उनकी रचनाओं में कही भी लक्षित नहीं होता। जीवन-विज्ञान का विश्लेषण ही दर्शन-शास्त्र का विषय है, लेकिन विश्लेषण की भिन्नता जीवन की अखण्डता पर कुछ आधात नहीं कर सकती। निर्वाण या मोक्ष जीवन की लौकिक परिधि से मुक्ति है, पर इस परिधि के बाहर जाकर भी जीवन एक दूसरी सीमा मे आवद्ध हो जाता है। उस सीमा की परिधि इतनी विशाल तथा विस्तृत है कि मानव बुद्धि उसे निस्सीम मान लेती है। व्यक्ति-बोध के खंड की यही अखण्डता है। यदि अखण्ड तथा अविच्छिन्न जीवन में

खड़ तथा विच्छिन्न जीवन को महस्त्र न दिया जायगा तो सामान्य मानव बुद्धि को उसका बोध नहीं हो सकेगा। ज्ञान का क्षेत्र सदा परिमित रहता आया है और ऐसे ही क्षेत्र में भाव भी संचरित हो सकता है। हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर भाव अपनी व्यापकता नहीं बढ़ा सकता। जिस क्षेत्र पर एक बार ज्ञान का आधिपत्य हो चुका रहता है उसी पर भाव को संक्रमण का अवकाश मिलता है। जिस क्षेत्र पर आधिपत्य करने के लिए ज्ञान को अज्ञान से छंद करना पड़ता है वह अज्ञेय बनकर काव्य-प्रवृत्ति का बाधक हो जाता है।

रहस्यवाद के तथ्य को लेकर काव्य-रचना करनेवाली महादेवी वर्मा एक मुख्य कवयित्री हैं। काव्य के स्वरूप को प्रहण करते समय रहस्यवाद को अज्ञेय की सीमा से नीचे उतरकर एक स्पष्ट तथा ज्ञात आलंबन के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि ऐसा न हुआ तो रहस्यवादी रचनाएँ काव्य के अंतर्गत न रहकर अज्ञेय दर्शन के अंतर्गत हो जायेंगी। ऐसा देखा जाता है कि रहस्यवादी कवियों ने अपने आलंबन की एकरूपता का निर्वाह प्रायः नहीं किया है। कभी आलंबन स्पष्ट है तो कभी अस्पष्ट। कहीं आलंबन लौकिक है तो कहीं लोकोत्तर। आश्रय के संबंध में भी लिंग का विपर्यय बना रहता है। इस प्रकार की भिन्नता रहस्यवादी कविताओं के मर्म को रसग्राह बनने में बाधा देती है। महादेवी वर्मा की रहस्यवादी कविताओं के रहस्य को समझने के लिए यदि उनके कथन को ही लिया जाय तो उनके 'गीतों' ने पुराविद्या की अपार्थितता ली, वेदांत के अद्वैत की छाया-मात्र प्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सब को

कबीर के सांकेतिक दापत्य-भाव-सूत्र मे बोधकर एक निरालं स्नेह-सबध की सुष्ठुपि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को अवलब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क का हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका । कवयित्री ने अपनी काव्य-वस्तु के संबंध मे जो कुछ कहा है वह एक तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि शायद इसी कारण उनकी रचनाओं मे आलंबन के एकत्र का सम्यक् निर्वाह नहीं हो पाया । निर्गुण ब्रह्म को महत्व देकर भी जनता की चिन्तवृत्ति को भक्ति-रस से अनुप्राणित करने केलिए कबीर को सगुण 'राम की बहुरिया' बनना पड़ा । अद्वैत काव्य का विपथ नहीं हो सकता । काव्य-स्वरूप के अतर्गत आने केलिए अद्वैत को द्वैत के रूप मे उपस्थित होना आवश्यक है । यदि द्वैत के रूप मे उसका वर्णन न भी किया जाय तो विशुद्धाद्वैत या शुद्धाद्वैत के बिना उसकी काव्य-परिणामि नहीं हो सकती । आश्रय और आलंबन, काव्य के उभय पक्ष केलिए, अद्वैतवाद मे स्थान नहीं और काव्य-रचना केवल एक के ही उपलक्ष्य पर नहीं हो सकती । अनुभूति तथा कल्पना को अपनी स्थिति-मात्र केलिए भी आश्रय से पृथक् आलंबन के रूप मे किसी वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा । काव्य-जगत् मे ब्रह्म को भी उसी वस्तु-रूप मे उपरिथित होना पड़ेगा, अन्यथा 'अह ब्रह्मोर्मि' के कारण आश्रय और आलंबन का एकत्र प्रतिपादित हो जाने पर काव्य-रचना को अपनी प्रतिष्ठा का आधार नहीं मिल सकेगा । तुलसी और सूर के विशिष्टाद्वैत तथा शुद्धाद्वैत को रहस्यवाद मे नियोजित करने की समर्थता प्राप्त नहीं होने पर निर्गुणवाद की सूफी पद्धति ही रहस्यवाद के अनुकूल पड़ सकी ।

कबीर के शुद्ध निर्गुणवाद में रहस्यवाद की स्थिति संभव नहीं। जहाँ-कहीं कबीर ने रहस्यवाद की भाँकी ली है वहाँ उन्हे निर्गुण को सगुण मान लेना पड़ा है। लौकिक जीवन को लौकिक अर्थ-भूमि का आधार देने केलिए लौकिक वासनात्मक प्रणयोद्धार का माध्यम आवश्यक है। लोकोत्तर उपलक्ष्य के सहारे जीवन की सारी भावनाएँ व्यक्त नहीं की सकती। जो विषय केवल बुद्धिगम्य है वह सदा भावगम्य नहीं हो सकता। बुद्धिगम्य विषय को भावगम्य बनने में कुछ समय लगता है।

मुख्य आलंबन को गौण रखकर माध्यम को ही अभिव्यक्त करना रहस्यवादी कविताओं का एक लक्ष्य हो गया है। माध्यम की प्रधानता के कारण ही ऐसी रचनाओं में अन्योक्ति-पद्धति का आश्रय विशेषतः लेना पड़ा है। जीवन की विरह-वेदना, अवृत्ति, निराशा, अवसाद को चित्र भाषा-शैली में बड़ी विलक्षणता तथा विचित्रता के साथ वर्णित किया गया है। रूपक की विभिन्नता के कारण महादेवी वर्मा की रचनाएँ सहज ही दुर्बोध हो गई हैं। उनका प्रेम-व्यापार कहीं तो विलकुल लौकिक पद्धति पर चला है, और कहीं लोकोत्तर। लौकिक प्रेम की तीव्रता जहाँ इयादा उधार मिली है वहाँ आलंबन स्पष्ट है और विषय भी रसग्राह्य, किंतु लोकोत्तर आलंबन पाठक या श्रोता की भाव-भूमि से इतनी दूर पड़ जाता है कि वहाँ तक कल्पना किसी तरह कभी-कभी पहुँच भी जाती है, हृदय को पहुँचने में बड़ी कठिनता होती है।

मुक्तक गीत में अनिवाति-रक्षा केलिए पूर्वापर-संबंध का निर्वाह लोक-जीवन के अधिक निकट रहनेवाले प्रतीक या भावनोद्घार से हो सकता है। प्रकृति के अन्त रूप-व्यापार

के उपलक्ष्य पर प्रेम की गृह तथा अगूढ़ व्यजना हो सकती है, पर गृह प्रेम व्यजना को समझने के लिए अपेक्षित मनोरचना प्रायः नहीं होती। धुँधली साम्य-भावना के आधार पर अगूढ़ को गृह बना देने की प्रणाली काठयोपयुक्त नहीं भानी जा सकती किंतु, इन सब दोषों का भार महादेवी वर्मी के ऊपर ही लादना उनके प्रति अन्याय होगा। उनकी सब से बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी भाव-धारा को एक स्वाभाविक तथा निश्चित क्रम से प्रवाहित होने दिया है, उसमें ज्वार-भाटा के कारण तरंगों का आवर्त्तन-प्रत्यावर्त्तन तो होता रहा है, पर प्रवाह को अपनी सीमा में रखनेवाले दोनों तट प्रायः सुरक्षित रहे हैं। कवयित्री के शब्दों में ही “समय के अनुसार रचनाओं में जो परिवर्त्तन आते गए हैं उनके लिए भी मुझे कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ा। याद नहीं आता जब मैंने किसी विषय-विशेष या वाद-विशेष पर कुछ सोच कर लिखा हो।” उनके इस कथन से चाहे हम पूरे सहमत न भी हो, परंतु उनकी काठ्य-हृषि से विषय की एकरूपता का यथासंभव निर्वाह तथा क्रमिक विकास मानना पड़ेगा। भिन्न-भिन्न समय में, प्रत्येक संवेदनशील कवि की तरह, उनकी अनुभूति, चिंतन तथा कल्पना के सामंजस्य में कुछ व्यतिक्रम रहा है। अपने चारों—नीहार, रेशम, नीरजा तथा साध्यगीत—कविता-संग्रहों के रचना-काल की प्रवृत्तियों के संबंध में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह उनकी रचना-प्रकृति के साथ मेल रखनेवाला तथ्य है। वे लिखती हैं—“नीहार के रचना-काल में मेरी अनुभूतियों में ऐसी ही कुतूहल-मिश्रित वेदना उमड़ आती जैसी बालक के मन में दूर दिखाई देनेवाली अप्राप्य सुनहरी उषा और स्पर्श

से दूर सजला मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। रश्मि को उस समय आकार मिला जब मुझे अनुभूति से अधिक उसका चितन प्रिय था, परंतु नीरजा और साध्यगीत मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख से सामजस्य का अनुभव करने लगा।”

महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूलद्रव्य रखा है। वेदना दुःखमूलक अवश्य है, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह दुःखजनक नहीं होती। काव्य में जीवन की वही भावना अभिव्यक्त होती है जो कवि को प्रिय रहती है। अप्रियता को काव्य में स्थान नहीं। वेदना भी प्रिय लगने पर ही काव्य का स्वरूप धारण करती है। कवियत्री ने दुखबाद को अपना काव्य-चिष्ठय बनाकर सुखबाद से बैर नहीं ठाना, प्रत्युत सुखबाद का उज्ज्वास प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने वेदना से मैत्री स्थापित की है। यदि वेदना की अभिव्यक्ति में उन्हें उज्ज्वास न मिले तो उनसे काव्य-रचना भी नहीं हो सकती। काव्य-रचना की मूल प्रेरणा सुख से ही होती है, पर अपनी रुचि-भिन्नता के कारण उसका विषय चाहे जैसा कुछ हो।

जन्म ही जिसको हुआ वियोग  
तुम्हारा ही तो हुँ उच्छ्रवास  
चुरा लाया जी विश्व समीर  
वही पीड़ा की पहली सोस  
छोड़ क्यों देते बारबार  
मुझे तम से करने अभिसार।

जन्म या जीवन-ग्रहण के वियोग के नाम से अभिहित करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। शब्द से जीव की सत्ता जब पृथक्

होती है तब उसकी दशा प्यार-सभार से दबी उस लाडली कन्या की तरह होती है जो मातृगृह को छोड़कर पतिगृह जाते समय होती है। मातृ या पितृकुल के वियोग में भी पीड़ा का उच्छ्रवास होता है। पतिगृह में जीवन की सारी सरसता रहते हुए भी मातृगृह की वियोग-वेदना नष्ट नहीं होती। महादेवी वर्मा ने अपने अद्वैतवादी हण्ठिकोण को भी जीव और ब्रह्म के रूप में उपरिथत किया है। उनके विचार से लौकिक जीवन की दीर्घता से ब्रह्म के वियोग की अवधि बढ़ती ही है, इसलिए वे मृत्यु में ही जीवन का चरम विकास मानती हैं।

विखर कर कन कन के लघु प्राण,  
गुनगुनाते रहते यह तान  
अमरता है जीवन का हास  
मृत्यु जीवन का चरम विकास।

महादेवी वर्मा के जीवन की शुष्कता ने उन्हें लोक-विमुख वैराग्य देकर लोकोत्तर आलंबन की ओर ग्रेरित किया है जिसके आनुसंधान में कभी त्रुप्ति नहीं। वे प्राप्ति और त्रुप्ति से दूर रहने-वाली कवयित्री हैं, किंतु अपने संधान में प्रयत्न की कोई कमी नहीं रखना चाहतीं। त्रुप्ति से प्रयत्न पंगु हो जाता है। प्राप्ति से विरह मिलन हो जाता है। साधिका कवयित्री की तरह वे अपनी ओँसे प्यासी रखना चाहती हैं।

चिर त्रुप्ति कामनाओं का  
कर जाती निष्फल जीवन,  
बुझते ही प्यास हमारी  
पल में विरक्ति जाती बन !

पूर्णता यही भरने की  
दुल कर देना सूने घन,  
छख की चिर पूर्ति यही है  
उस मधु से किर जाए मन

जिर झेथ यही जलने का  
ठंडी विभूति बन जाना,  
है पीड़ा की सीमा यह  
दुःख का चिर दूख हो जाना ।

मेरे छोटे जीवन में  
देना न तुसि का कण भर,  
रहने वो प्यासी आँखें  
भरती आँसू के सागर ।

महादेवी वर्मी ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अप्राप्तव्य आराध्य के उपलब्ध से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। अत्यन्त इच्छाएँ ही प्रलुब्ध होती हैं। इतना होने पर भी जगत् और जीवन के संबंध को हम विवेंस नहीं कर सकते। उसी के अंतर्गत रहकर हम जीवन में उत्तीर्ण हो सकते हैं और वस्तुतः जीवन की यही सच्ची साधना है। जुद्र से विराट् तथा नश्वर से शाश्वत होने केलिए अंश में ही पूर्णता तथा सीमा में ही असीमता उपलब्ध करना पड़ेगा। अपनी सारी चेतना के साथ देखने से बद्ध भी अबद्ध मालूम पड़ता है। जीवन के विषाद् तथा आवसाद् चेतना की अंतर्ज्योति से स्वतः दीप्तिमय होकर आनंद तथा उज्ज्वास में परिवर्तित हो जाते हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर ने 'प्रकृति का प्रतिरौप' नामक ग्रन्थ नाम्य नाम्य गे गेमे ही एक तथा का वहा

रमणीय रूपक-विधान किया है। एक संन्यासी सप्ताह के मारे स्नेह-बंधन को तोड़, अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर विशुद्ध भाव से एकात् में अनन्त की उपलब्धि करना चाहता था। शायद वह यह सोचता था कि अनन्त इस जगत् और जीवन से बाहर है। एक दिन अचानक एक बालिका ने उसे अपने स्नेह-पाश में आबद्ध कर अनन्त के ध्यान से जीवन और जगत् में लौटा लिया। जगत् में उस संन्यासी ने देखा कि लूट से ही वृहत् है, सीमा से ही असीम है और प्रेम से ही मुक्ति है। जैसे ही प्रेम का आलोक दिखाई पड़ा वैसे ही आँखें बद करने पर उसने देखा कि सीमा में भी सीमा नहीं है।

महादेवी वर्मा ने, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अप्राप्य को ही अपने प्रथम का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अपनी सारी उत्कठा, विहृता तथा उद्गेग को लेकर अपने जीवन क अतिथि का अनुसंधान करना चाहा है।

इस अचल क्षितिज रेखा से  
तुम रहो निकट जीवन के  
पर तुम्हे पकड़ पाने के  
सारे प्रथम हो जीके ।

जन्म-मरण के समय सुख-दुख की जो स्थिति रहती आई है वह जीवन में उल्लास-विषाद की प्रेरणा देती रही है। बार-बार मरने के विषाद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिये बार-बार जन्म-मरण की अनिवार्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उन की इस आकांक्षा के सामने उनका बौद्ध दर्शन पराजित हो जाता है। वे कहती हैं—

धन बनूँ वर दो सुझे प्रिय ।

जलधि-मानस से नव जन्म पर  
सुभग तेर ही हग-ब्योम में ।  
सजल श्यामल मन्थर मूक-सा  
तरल अश्रुविनिर्मित गात ले,

नित घिरूँ झर-झर मिट्ठूँ प्रिय ।  
धन बनूँ वर दो सुझे प्रिय ।

जीवन की नश्वरता को समझकर वे कहती हैं—

विकसते सुरक्षाने को फूल  
उदय होता लिपने को चद,  
शून्य होने को भरते मेघ  
दीप जलता होने को मद ;  
थहड़ौं किसका अनंत यौवन ?  
अर अस्थिर छोटे जीवन !

मरने का अधिकार, जो प्रेम की सब से सात्त्विक मांग है,  
कवियत्री रखना चाहती है—

क्या अमरों का लोक मिलेगा  
तेरी कहणा का उपहार ?  
रहने दो हे देव ! अर  
यह मेरा मिट्ठे का अधिकार ।

कवियत्री ने खंड में श्रखंड तथा सीमित में असीम को भी  
समझने की चेष्टा की है। अनस तबतक प्राप्त्य माना नहीं जा  
सकता जबतक वह सांत न हो। महादेवी वर्मा में एक बहुत ही  
प्रांजल कविन्हृदय है। उनकी काव्य-प्रवृत्तियों की विविधता में

भी एक ऐसी एकलूपता है जो हिंदी के अधिकांश कवियों को प्राप्त नहीं। वे जानती हैं कि—

विश्व में वह कोन सामाहीन है,  
हो न जिसका खोज सीमा में मिला?  
क्यों रहोगे शुद्ध प्राणों में नहीं,  
क्या तुम्हीं सर्वेष एक महान हो?

---

## हरिवंश राय 'बचन'

हरिवंश राय 'बचन' जीवन के राग-विराग से सत्तम मत्त तथा विद्रोही कवि है। ईरानी मदिरा से अभिसिंचित उमर खेयाम की रुबाइयों के प्रशसनक जब यूरोप तक मेरिले तब भारत मे उनके हिमायती क्यों न मिलते। ईरान के साथ भारत का कुछ सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। यूरोप की बोतलों मे जो ईरानी मदिरा भरी गई उनपर लेबुल तो ईरान का ही लगा, पर बचन ने अपनी मधुशाला मे मदिरा भी अपने हांग की बनाई और उस पर लेबुल भी बिलकुल स्वदेशी रखा। भारतीय जीवन का जितना रमणीय अध्यात्मवाद बचन की कविताओं में भलकता है उतना उन तथाकथित रहरयवादी रचनाओं में नहीं। 'हालावाद' के संबंध में, ऐसा मालूम पढ़ता है, बचन का आरंभिक प्रयत्न प्रायः कौतुकपूर्ण ही था, पर अब उसमे धीरे-धीरे जीवन की गंभीरता और सचाई उतर गई है।

बचन की रचनाएँ उनके जीवन के दृष्टिकोण का स्पष्ट पता बता देती हैं। जीवन का आरंभ जिन सुनहरे स्वप्नों के साथ होता है उनकी निस्सारता उनके भंग होने पर ही प्रकट होती है। अपने जीवन मे केवल सुख, स्नेह, सम्मान, प्रशंसा को देखकर भूलनेवाले कवि की मादकता जब उत्तर जाती है तब वे जीवन को वस्तु-स्थिति के रूप मे देखने की ज़मता प्राप्त करते हैं। जीवन मे न तो केवल सुख-ही-सुख है और न केवल दुख-ही-दुख। सुख-दुख के द्वंद्व का ही नाम जीवन है और न मालूम इस द्वंद्व मे कितनी लालसाएँ, कितनी महस्वाकांक्षाएँ पराजित हो जाती हैं।

“उसने न माना कि जीवन अधूर्ण है। वह विशुद्ध हृदय से यह विश्वास लेकर जीवन-पथ पर बढ़ा कि जीवन पूर्ण है। इस विश्वास के साथ वह कितनी दूर जा सकता था। कितनी पीड़ाओं को सहकर उसने सीखा कि कोमल कुमों की डाल कॉटों से भरी है और शीतल चंदन के वृक्ष में विषधर सर्प लिपटे हैं। कितने आँसू बहाकर उसने सीखा कि प्रणय के अदर सर्प छिपा तथा त्याग के पीछे स्वार्थ बैठा है। कितनी आहे भरकर उसने सीखा कि सत्य, शिथ और सुन्दर इस विश्व में एक दूसरे से कितनी दूर हैं और वह कितना आश्चर्य-चकित हुआ यह देखकर कि इस संसार में पाप और पुण्य का ही विरोध नहीं। इतना ही होता तो पुण्य कष का पाप के ऊपर विजयी हो गया होता। यहाँ पुण्य का पुण्य से विरोध है। न्याय, न्याय का विद्रोह कर रहा है और सत्य और सत्य में युद्ध हो रहा है, संग्राम हो रहा है—भीषण, अति भीषण।”

बच्चन का धर्म-संबंधी विश्वास भी अपनी विशेषता रखता है। प्रेम ही उनका धर्म और भगवान है—

धर्म हमारा पूछो प्राण !—

ईश्वर को मैं नहीं जानता,  
उसकी सत्ता नहीं मानता,  
जिसे न देखा जाना कैसे उसको लेता मान ?  
जगती मैं मैं अबतक प्राण !

केवल एक प्रेम पहचानूँ,  
उसे हृदय का स्वामी मानूँ,  
सब कहते भगवान प्रेम है—प्रेम हमें भगवान !

उनकी मधुशाला मे हिंदू-सुस्लिम, पंडित-मौलवी, छूत-अबूत,  
राजा-रंक, पूंजीवादी-साम्यवादी सब केलिए प्रवेश-द्वार खुला  
हुआ है। बच्चन केलिए न ईश्वर है, न खुदा, न वेद है, न पुराण,  
जो कुछ है वह प्रेम है। प्रेम को परम तत्त्व समझनेवाला तथा  
लहरों का निमंत्रण पाकर आकर्षित होनेवाला कवि नास्तिक नहीं  
हो सकता। प्रत्यक्ष जीवन मे—जीवन के इस पार मे— जो ऐस  
है, स्वाद है उसको ही महत्व देनेवाला कवि परतोक—जीवन के  
उस पार—की कल्पनाकर आस्तिक बुद्धि को परेशान करना  
नहीं चाहता—

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो,  
उस पार न जाने क्या होगा ।

यह चोंद उदित होकर नभ मे  
कुछ ताप मिटाता जीवन का  
लहरा-लहरा यह शास्त्रांग  
कुछ शोक भुला देती मन का,

कल सुरक्षानेवाली कलियों  
इँसकर कहती है मग रहो  
बुलबुल तरह की फुनारी पर से  
संदेश छनाती यौवन का,

तुम देकर मदिरा के प्याले  
मेरा मन बहला देती हो,  
उस पार भुजे बहलाने का  
उपचार तु जाने क्या होगा ।

इस पार, प्रिये, मधु है तुम हो,  
उस पार न जाने क्या होगा ।

कवि के इस उदार का चार्चाक के नास्तिकबाद के साथ संबंध नहीं बताया जा सकता। जीवन के किसी काल में जब प्रत्यक्ष सुख अपनी सारी संभावनाओं के साथ उपस्थित रहता है तब आप्रत्यक्ष तथा सुदूर सुख प्रलोभन नहीं दे सकता। जब प्रत्यक्ष सुख लूप हो जाता है तब कल्पना किसी सुदूर सुख का भी प्रलोभन पाकर प्रेरित होती है। मानव प्रकृति की ये सर्वमान्य विशेषताएँ हैं। जो कवि कभी इस पार ही रहना चाहता था वह लाहरो का निमंत्रण पाकर अंबुधि को तैरकर उस पार की कुछ विभाले आना चाहता है—

तीर पर कैसे रहूँ मै  
आज लहरों में निमंत्रण  
          ×       ×       ×  
आज अपने स्वप्न को मै  
सच बनाना चाहता हूँ,  
दूर की इस कल्पना के  
पास जाना चाहता हूँ,  
चाहता हूँ तैर जाना  
सामने अंबुधि पढ़ा जो,

कुछ विभा उस पार की  
इस पार लाना चाहता हूँ,

स्वार्ग के भी स्वप्न भू पर  
देख उनसे दूर ही था,  
किन्तु पाऊंगा नहीं कर  
आज, अपने पर नियंत्रण ।  
तीर पर कैसे रहूँ मैं  
आज लहरों में निस्त्रण !

और वे कहते हैं—

दूरस्थित स्वर्गों को छाया  
से विश्व गया है बहलाया ।  
इम क्यों उन पर विश्वास कर  
जब देख नहीं कोई आया ।  
अब तो इस पृथ्वीतल पर ही  
चुख-स्वर्ग बसाने इम आप  
मधु-प्यास बुझाने हम आए ।

अपने प्याले के सबध में उन्होंने जो परिचय दिया है उससे  
उनकी कितनी मस्ती भलकती है—

जो रस लेकर आया भूपर,  
जीवन आतप ले गया छीन,  
खो गया पूर्व गुण, रंग, रूप  
हो जग की ज्वाला के अधीन,  
मैं चिलाया, क्यों ले मेरी  
मृदुता करती मुश्को कठोर ?  
लपटें बोलीं ‘तुप बजा-ठोक  
लेगी तुश्को जाती प्रवीण ।’  
यह लो, मीना-बाजार लगा,  
होता है मेरा कथ-विक्रय ।  
मिट्टी का तन, मस्ती का मन,  
क्षण-भर जीवन मेरा परिचय ।

जब मनुष्य अपने किसी विचार को धारणागत बना लेता है  
जब स्वभावतः अपने उस विचार के प्रति उसकी आसक्ति हो  
जाती है । मनुष्य अपने निर्णय के प्रति सदा निर्बल ही रहता है ।

जबतक वह अपने निर्णय को किसी भी पक्ष में मान्य नहीं बना लेता तबतक वह अपने विचारों को दूसरे के समुख उपस्थित करने का उत्साह नहीं पाता। अपनी आसक्ति के निर्वाह केलिए वह समाज के व्यग्रय को भी सहनीय बना लेता है। जब धर्म या सप्रदाय ने जीवन में मदिरा का निषेध किया तब जीवन को प्रभावित करने केलिए ही मादकता का प्रतीक बनाकर उसे काव्य में उपस्थित कर दिया गया। बच्चन ने 'हालावाद' की पुकार मचाकर कुछ लोगों के कान खड़े कर दिए। इस प्रवृत्ति के कारण उन्हें कुछ व्यग्रवाण भी सहने पड़े, किंतु कवि की मादकता इतनी हल्की न थी। उसमें वह अपने जीवन का आसव घोल चुकाथा—

है कृपथ पर पौंब मेरे  
आज दुनियों की नजर में ।

×            ×            ×

देख भींगे होठ मेरे  
और कुछ सरेह मत कर,  
रक्त मेरे ही हृदय का  
है लगा मेरे अधर में ।  
है कृपथ पर पौंब मेरे  
आज दुनियों की नजर में ।

कवि ने अपनी प्रवृत्तियों के संबंध में स्थान-स्थान पर अपनी रचनाओं में संकेत दिए हैं। उनकी रचनाओं के संबंध में लोग क्या समझते हैं उसको जानकर उन्होंने उसका उत्तर भी दिया है। उनकी मधुशाला की साक्षी चाहे पार्थिव हो या अपार्थिव, किसी भी रूप से उसके वासनात्मक स्वरूप का निराकरण नहीं किया

जा सकता। वासना सदैव बुरी नहीं होती, वासना के अभाव में न तो जीवन में कोई ग्रेरण उत्पन्न हो सकती है और न उसका शक्ति-संबद्धन ही संभव है। बच्चन ने अपनी साकी के साथ वासनात्मक संबंध का प्रतिरोध करते हुए उसके स्वरूप का जो अभौतिक विधान किया है वह दृतना विशाल है कि साधारण मानव की पहुँच के बाहर हो गया है—

कह रहा जग वासनामय

हो रहा उद्गार मेरा।

सुष्टि के आंभ में

मैंने उषा के गाल छूमे

आल रवि के भग्नय बाले

दीस भाल विशाल छूमे,

प्रथम संध्या के अहग रुग

चूमकर मैंने छलाप,

तारिका-कलि से छसजित

नव निशा के बाल छूमे,

वायु के रसमय अधर

पहले सके ढ़ होड मेरे,

मृतिका की पुतलियों से

आज क्या अभिसार मेरा।

कह रहा जग वासनामय

हो रहा उद्गार मेरा।

×            ×            ×

प्यास वारिधि से बुझाकर

भी रहा अनूस इँ मैं,

कामिनी के कुच-कलश से  
आज केसा प्यार मेरा ।  
कह रहा जग वासनामय  
झो रहा उद्गार मेरा ।

×      ×      ×

हमें जग-जीवन से अनुराग  
हमें जग-जीवन से विद्रोह  
इसे क्या समझेंगे वे लोग  
जिन्हे सीमा, बंधन का भोह !

कर कोई निदा दिन-रात  
स्थश का पीट कोई ढोल  
किए कानों को अपने बंद  
रही हुल्हुल डालों पर बोल

×      ×      ×

वृद्ध जग को क्यों अखरसी  
है क्षणिक मेरी जवानी  
मैं छिपाना जानता तो  
जग मुझे साधू समझता ।  
शान्ति मेरा बन गया है  
छल-रहित व्यवहार मेरा ।

फिर अपनी वासना की पार्थिवता के सबधर्म कवि कहता है—

इमें लघु मानव को क्या लाज  
गये मुनिदेवों के मन ढोल

बच्चन ने प्रकृति के विविध रूप-व्यापार—सर-सरिता,  
निर्भर, सागर, नभ, घटा, तरुवर, पत्ती आदि में अपने जीवन-

का संबंध पाया है और वह संबंध जड़ के साथ नहीं, प्रत्युत जीवन के साथ पाया है—

सर में जीवन है इससे ही  
वह लहराता रहता प्रतिपल,  
सरिता में जीवन इससे ही  
वह गाती जाती है कल-कल

कहीं तो कवि ने प्रकृति के शुद्ध आलंबनत्व का निर्वाह किया है और कहीं अपनी भावना के अनुरूप ही प्रकृति को चित्रित किया है। कवि के जीवन में मादकता की जो लहर है वह प्रकृति के किसी भी रूप को, किसी भी व्यापार को सदैव स्वतंत्र नहीं छोड़ सकती। उनकी मधुशाला मदिरा की नहीं, मस्ती की है। अपनी मस्ती से उन्होंने जगत् को भी मस्त बनाने की ठानी है। उनकी सुराही, प्याला, हाला, मधुबाला आदि किसी निश्चित पदार्थ के प्रतीक के रूप में व्यवहृत नहीं हुए हैं। अपनी मादकता की उमंग में प्रकृति के जिस रूप की ओर, जीवन के जिस पक्ष की ओर दृष्टि दौड़ गई है उसी ओर और उसी द्वेष में मधुशाला के सारे उपकरणों को स्थान-रथान पर बिठा दिया गया है। उनका सब से बड़ा दुर्भाग्य इसी बात में रहा कि उनकी रचनाओं के आध्यात्मिक मर्म की ओर पाठक या श्रोता की दृष्टि प्रायः नहीं गई।

दुख और सुख के साथ जीवन का संश्वर बराबर ही बना रहता है। कुछ धड़ियों ऐसी आती है जब मनुष्य अपने जीवन की सारी रमणीयता को भूलकर विषाद से ही अभिभूत हो जाता है। जीवन के कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जो उल्लास और उमग

को ही सूचित करते हैं। मनुष्य परिस्थितियों से विरा रहता है। सुख और दुख के अनुभव बहुधा परवशता के परिणाम होते हैं—

साथी, साथ न देगा दुख भी।

जिस परवशता का अनुभव

अश्रु बहाना पड़ता नीरव

उसी विवशता से दुनियों में होना पड़ता है हँसमुख भी।

साथी, साथ न देगा दुख भी।

बज्जन का कवि जीवन के उज्जास से भी उज्जसित हुआ है और विषाद से भी विषन्न। उनकी रचनाओं में जीवन के परिस्थिति-मूलक चित्र अनेक भरे पड़े हैं। अपनी प्रिय पत्नी के देहांत के बाद कवि की वृत्तियाँ जीवन और जगत् की नश्वरता पर प्रहार करने लगीं और एकांत संगीत तथा निशा-निर्भयण के रूप में उनकी सारी वेदना मुखर हो गईं। अपने धनीभूत विषाद से उनके दग्ध हृदय की वाणी विकल हो उठी—

मेरे ऊर पर पथर धर दो।

जीवन की नौका का प्रिय धन

लुटा हुआ मणि-मुक्ता कंचन

तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो।

मेरे ऊर पर पथर धर दो।

इतना ही नहीं, वियुक्त प्रिया की स्मृति आते ही उनका जीवन त्राहि-त्राहि कर उठा है—

त्राहि-त्राहि कर उठता जीवन।

जब रजनी के सूते क्षण में,

तन-मन के एकाकीपन में

कवि अपनी विद्वल धाणी से अपना व्याकुल मन बहलाता

त्राहि-त्राहि कर उठता जीवन।

यदि जीवन में केवल विषाद का ही अंधकार विरा रहता और प्रकाश की रेखा न दिखाई पड़ती तो मानव जीवन में न दृढ़ रहता, न कोलाहल। काल में विषाद के दंशन को सह्य बनाने की अपूर्व क्षमता होती है। जीवन को वस्तुस्थिति के रूप में समझने वाले मनुष्य केलिए सुख-नुख की घटनाएँ कुछ विशेष महत्व नहीं रखती। जगत् और जीवन जिस उद्देश्य से स्थृ हुआ है उसकी विजय निश्चित है। बचन के विषाद को भी काल के सम्मुख पराजित होना पड़ा और कवि की बाणी पुकार उठी—

जय हो, हे संसार, तुम्हारी।

जहों छुके हम वहों तबों तुम,

जहों मिटे हम वहों बनो तुम,

तुम जीतो उस ओर जहों पर हमने बाजी हारी।

जय हो, हे संसार, तुम्हारी।

संसार की इस विजय ने कवि के जीवन में नई सूर्ति उत्पन्न की। काल-क्रम से उनके विषाद का घनत्व कम हो गया और जीवन में पुनः प्रेम तथा आनंद का आविर्भाव हुआ। बचन ने अपने हृदय पर से पथर को उठाकर वहाँ फिर नई परिणीति को स्थान दिया। इतना होने पर भी कवि ने अपने आरंभिक जीवन की जिन उमंगों को पहले दयक्त किया था उनकी पुनरावृत्ति शब्द संभव नहीं मालूम पड़ती।

कवि ने 'हालावाद' की 'खुमारी' के बाद जीवन के जिन शाश्वत तत्त्वों की ओर दृष्टिपात किया है उनकी ओर यदि उनका ध्यान केंद्रित रहा तो जीवन और जगत् की मार्गिकता को अभिव्यक्त करनेवाले एक मनीषी कवि के रूप में वे हिंदी को प्राप्त हो सकेंगे।

## नामानुक्रमणिका

**अ**

- अज, ९, २२४,
- अलकापुरी, २७, ७३,
- अयोध्या, ३०४,
- अनुसूया, २९,
- अष्टाम, २२४,
- अर्जुन, ११२,
- अरताप हुसैन हाली, २५१,
- अलखट सिंहमंड काथड, ११६,
- अंगरेजी ७७, १५१, १६२, १९९,  
२२७, २९७, ३००,

**आ**

- आचार्य रामचंद्र शुक्ल,  
देखिप रामचंद्र शुक्ल
- आपाठ २७,
- आर्य समाज २४३,
- आँख २६९, ३७२,

**इ**

- इटली, १६५,
- इटालियन भाषा १६८,
- इदा, २७२, २७३,
- इन, ९३,
- ईदमती, ९,

**ई**

- ईरान, ३२३,
- ईसाई, २३७,

**उ**

- उपयोगितावाद ९६,
- उमर खव्यास, ३२२,
- उमिला, ८३, ८४, २५३, २५४,  
२५५, २५६,
- उत्तर रामचरित, १३३,
- उदौ, १७२, १७३,

**ए**

- एकात संगीत, ३३१,

**ऋ**

- ऋग्वेद, ९३,

**क**

- कर्मिज, १६१,
- कपिलवस्तु, ३०४,
- कबीर, २१६, ३१३, ३१४,
- कण्व-आश्रम, २१४,
- कला क्या है, ३८,
- कल्हिया, २००,
- कामना, २२७,
- कामायनी १३३, २२७, २५१,  
२७२, २७४,
- कादम्बी, १३६,
- काशी, १९८, १९३, ३०४,
- कालिदास, २९, ४६, ९१, ९३,  
७३, १३३, २०८, २२४;
- कुमार संभव, ९,

३३४

जीवन और काव्य

क्षेत्रफल, १२४, १२५,  
केतु, १९१,  
केरव, १४९,  
कैकेयी, २५,  
कौशल्या, १७६,  
कृष्ण, १७९, २१७,  
कृष्णमिश्र, २२७,

ख

खड़ी बोली, २९७,

ग

ग्रीक, ३९,  
गीता, १२१, १२३,  
एक्कुल, २७१,  
गोस्वामी तुलसीदास,  
देखिए तुलसीदास

गौतम बुद्ध, २९५, २९६,  
गौतम-पत्नी, ७४,  
गौतमी, २९,  
गंडकी, ३०४,  
गुंजन, २९७,

घ

घास को पत्तियाँ, १९१,

ऋ

चारोंक, ३२५,  
चित्तौद्ध, ३०४,  
चीन, १३४,

ज

जयपांकर प्रसाद, देखिए प्रसाद,

जयपुर, ५३,  
जनार्दनप्रसाद ज्ञा, देखिए हिंज  
रमनी, ३०९,  
जायसी, १८७,  
जान्सन, १२,  
जापान, ३०९,  
जीवन-स्मृति, ८१,  
ज्योत्सना, २२, २२७, २९७,

ट

टाक्सटाय, ३८, ४०,

ल

दा० भगवान् दास, ४,  
दा० जान्सन, १२,  
दिग्गज भाषा, १४०,

त

तमसा, १४२,  
तुलसीदास, ४३, ४६, ५४, ७५,  
१२९, १३३, १४४,  
२०८, २०९, २१२,

थ

थेरेसा, १९६, १९७,

द

दशरथ, १७९,  
दिनकर, ३०२, ३०४, ३०९,  
३०६, ३०७, ३०८,  
दिल्ली, ८२, ३०४,  
हिंज, १६७, २०५, २०६, २०७,  
२०८, २०९, २११,

## नामानुक्रमणिका

हिंदी, १७१,	पंचलद, ३०४,	
तुष्यंत, ८, २१४,	पंत, १५०, १५१, २२७, २७८,	
देव, १३३, २०८, २१६, २२४,	२९२, २१४, २९१, २९६,	
द्वौपदी, २१३,	२९७, २१८, २९९, ३००,	
<b>न</b>		
नार्लदा, ३०४,	फ़ा	
निराला, १९१, १५९, १९६,	फ्रांस, १६०,	
१९७, १५८, १९९,	फिल्ट, १६०,	
२७७, २७६, २७७,	<b>ख</b>	
२७९, २८०, २८१,	खजन, ३२२, ३२३, ३२४, ३२७,	
२८२, २८३, २८४,	३२८, ३२९, ३२१, ३२२,	
निशा-निमंत्रण, ३३१,	बासमीकि, ९३, १४२, १४३, १०१	
नीहार, ३१९,	बिहारी, ४६, ९३, १३३, २०८,	
नीरजा, ३१९, ३१६,	बिहार, १५५,	
<b>प</b>		
पश्चाकर, २०५,	बाह्या, २९४,	
पवन-दूत, १८१,	<b>भ</b>	
पारसी, ३६,	भगवान् दास, ४,	
प्रकृति का परिवोध ३१८,	भरत, २९,	
प्रयाग, ३०४,	भवभूति, ४६, १३३, २०८, २८९,	
प्रसाद, १९१, २२७, २६७, २६८	भरद्वाज, १४३,	
२६९, २७०, २७१, २७२, २७४,	भक्तियोग, २७८,	
प्रबोध-वंशोदय २२७,	भारतवर्ष, ९१, १३४, २९१, ३०२,	
प्राकृत, १६१,	३०८, ३२२,	
प्रिय-प्रवास, १३३, १७२,	भारत-भारती, १७२, २९१,	
प्रियंवदा, २९,	२९२, २६२,	
प्रोफेसर मैरिनिटी, १६९, १६६,	भारत-तुर्कशा, २२७,	
१६७, १६९,	भारत-जननी, २२७,	
पञ्चठी, २७५, २७६,	भारतीय आत्मा, २५९, २६०,	
	२६१, २६२, २६४, २६६,	

३३६

जीवन और काठ्य

भारतेंदु हरिग्रन्थ, २२७, ३०४,

३०६,

अमर-दूत, १८१,

म

मदन, ९,

मनु, २७२,

महाभारत, ७३, २१३,

महात्मा गांधी, २५१, २९६,

मधुसूदन दत्त, २९३,

महादेवी धर्मा, ३१०, ३११,

३१२, ३१४, ३१९, ३१६,

३१७, ३१८, ३१९, ३२०,

मार्शल, ६५,

माहेश्वरी सिंह 'महेश' १०४,

मालवलाल चतुर्वेदी,

देखिए भारतीय आत्मा

मिथिला, २१७,

मेघबाद, २५३,

मेघबाद-धध, २५३,

मेघ-दूत, २९, ७३, १०१,

मोगल, ७७,

मैरिनिटी, देखिए प्रोफेसर मैरिनिटी

मैथिलीशरण गुप्त ७४, १४८,

१७२, २९१, २९२,

२९४, २९७, २९८,

ग

यक्ष, २९, ७३, १०१, २२४,

यशोधरा, ७४, १३३, २९१,

२९९, २९६,

यशोदा, १७९,

यक्षिणी, २९,

युगांत, २९७,

युगधाणी, २९७

यूरोप, १३४, १९९, १६०, ३२२,

इ

रति, ९,

रघुवंश, ९,

र्वीद्वनाथ ठाकुर ३७, ३८  
६१, ८१, ३१८,

रश्मि, ३१५, ३१६,

राधाकृष्ण २१७, २२१,

रामचन्द्र २९, ७७, १७९  
१८१, १९९, २१७, २५४

२५६, ३१३,

रामधारी सिंह, देखिए दिनकर

राघव, २७, ४३,

रामायण, २७, ७३, १३३, १९९,  
२१३, २१७ २९३, २९४;

रामगिरि, २९,

रामचन्द्र शुल्क, १५९, १६१,

रामनरेश त्रिपाठी, १९३,

राहुल, २९६,

राहु, १९१,

रस, ९१,

रीमन, ३७

ल

लक्ष-कुशा, १४३,

लक्ष्मण, २९, ८३, ८४, १४, १५९,

२९३, २९४, २९९, २९६,

२७९,

व

वाणभद्र, ४६, १३८,  
वात्सल्यायन, ३, ११३,  
वाल्ट हिटमेन, १५१, १६९,  
वेदोपनिषद्, ११६,  
वैष्वस्वत, ९३,  
वैशाली, ३०४,  
वौसवेष, १२,

श

शशरी, २९,  
शकुतला, ८, २९, २१४,  
शाकुतल, १३३,  
शांघाई, ३०९,  
शह्वा, २७२,  
श्रीधर पाठक, १४२,

स

सतलज, ३०४,  
सरवती, १६९,  
साकेत, ८३, १३३, २७१, २५४,  
                  २५६,  
साध्यगीत, ३१९, ३१६,  
साथण, २७२,  
सीता, २९, १७९, १८१, १९९,  
                  २१३, २९३, २९६,  
छहाग, १०४,

सुग्रीव, २०,

सुमित्रानदन पत, देखिए पत

सूर, ४६, ९४, १३३, १८७

                  २०८, ३१३,

सूर-सागर, १३३,

सूर्योदत्त, १६२,

सूर्यकांत प्रिपाठी, देखिए निराकाश

माम, १३,

सलकृत, ५३, ८८, १२७, १८०,

१५६, १६०, १७०, १७२, २१२,

२८०, २८१, २८२, २८९,

साल्य शाश्व, ३,

स्वेज नहा, १५१,

स्वामी विपेकानंद, २७८,

ह

इनूमान, २९, १८१,

हरिगोध, १४९, १४६, १७२,

१७३, २१८,

हरिवंश राघ, देखिए वचन

हित हरिवंश, १४२,

हिमालय, ३०२, ३०४,

हस्त-दूत, १८१,

हिंदी, १४०, १६१, १७०, १७१,

१७२, १७३, २५८, २६६,

२७९, २८०, २८१, २९१,

२९२, ३०९, ३३२;

हिंदू, २९१,